

भारत का राजपत्र **The Gazette of India**

अनुसूचक

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 4

PART I—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 1] नई दिल्ली, रविवार, जनवरी 26, 1969/माघ 6, 1890

No. 1] NEW DELHI, SUNDAY, JANUARY 26, 1969/MAGHA 6, 1890

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF DEFENCE

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 26th January 1969

(ARMY BRANCH)

No. I-E dated 26 Jan 69.—For Provisional orders to grant honorary commissions to the undermentioned JCOs under Para 173 of the Rules for the Army—1962 w.e.f. 26 Jan 69:—

To be Honorary Captains

20 LANCERS

49915-JC Ris Maj & Hony Lt GURBAKSH SINGH

REGIMENT OF ARTILLERY

JC-198 Sub Maj & Hony Lt DARSHAN SINGH

57162-JC Sub Maj & Hony Lt NAND LAL

37879-JC Sub Maj & Hony Lt A GNANI

JC-3997 Sub Maj & Hony Lt BEANT SINGH

29576-JC Sub Maj & Hony Lt RANG RAO

JC-35 Sub Maj & Hony Lt GOPAL KRISHNAN NAIR

MADRAS ENGINEER GROUP

33676-JC	Sub Maj & Hony Lt	APPADURAI
49416-JC	Sub Maj & Hony Lt	VAJUDEVAN
49241-JC	Sub Maj & Hony Lt	SHEIKH MEERA

BENGAL ENGINEER GROUP

J C-597	Sub Maj & Hony Lt	LAL MANI
JC-592	Sub Maj & Hony Lt	SHEO BARAN MISRA

BOMBAY ENGINEER GROUP

JC-764	Sub Maj & Hony Lt	SAKHARAM KHANDGALE
JC-59594	Sub Maj & Hony Lt	RAGHU POWAR

CORPS OF SIGNALS

33723-JC	Sub Maj & Hony Lt	TR WILLIAMS
43311-JC	Sub Maj & Hony Lt	MARASUR CHANDRASEKHARAN
50754-JC	Sub Maj & Hony Lt	SHAIK SILAR
57556-JC	Sub Maj & Hony Lt	PN KUMARAN NAIR
58642-JC	Sub Maj & Hony Lt	JAGIR SINGH
57554-JC	Sub Maj & Hony Lt	PARMODH SINGH

BRIGADE OF THE GUARDS

46347-JC	Sub Maj & Hony Lt	PV NARAYANA SWAMI
JC-344	Sub Maj & Hony Lt	JHABAR RAM

THE PARACHUTE REGIMENT

JC-5305	Sub Maj & Hony Lt	BALBIR SINGH, MM, SC
JC-7934	Sub Maj & Hony Lt	PANDHARI NATH REHTAL
JC-6828	Sub Maj & Hony Lt	KULDIP SINGH

THE MADRAS REGIMENT

31835-JC	Sub & Hony Lt	P KRISHNAN NAIR
----------	---------------	-----------------

THE PUNJAB REGIMENT

JC-4972	Sub Maj & Hony Lt	PIRTHI SINGH, SC
---------	-------------------	------------------

THE GRENADIERS

JC-1540	Sub Maj & Hony Lt	TAJU KHAN
56677-JC	Sub Maj & Hony Lt	DALIP SINGH

THE MARATHA LIGHT INFANTRY

JC-5644	Sub Maj & Hony Lt	DIGAMBAR KASIT
---------	-------------------	----------------

RAJPUT REGIMENT

JC-34818	Sub Maj & Hony Lt	NEPAL SINGH
----------	-------------------	-------------

JAT REGIMENT

JC-1980	Sub Maj & Hony Lt	RANDHIR SINGH
---------	-------------------	---------------

SIKH REGIMENT

JC-6415	Sub Maj & Hony Lt	KARAM SINGH, PVC, MN
---------	-------------------	----------------------

SIKH LIGHT INFANTRY

53948-JC	Sub Maj & Hony Lt	PRITAM SINGH
----------	-------------------	--------------

DOGRA REGIMENT

56687 Sub Maj & Hony Lt SURAJ DATT

GARWAL RIFLES

JC-2272 Sub Maj & Hony Lt BALPAHADUR SINGH RAWAT

JC-2275 Sub Maj & Hony Lt CHANDAN SINGH RAWAT

KUMAON REGIMENT

JC-2336 Sub Maj & Hony Lt LACHHAM SINGH

JC-2351 Sub Maj & Hony Lt BAGWATI PARSHAD

ASSAM REGIMENT

61372-JC Sub Maj & Hony Lt MAINO HUZAI KACHARI

60217-JC Sub Maj & Hony Lt BALARAM BARUAH

BIHAR REGIMENT

61926-JC Sub Maj & Hony Lt BANSRAJ SINGH

MAHAR REGIMENT

46475-JC Sub Maj & Hony Lt MARUTI KAMBLE

JC-33407 Sub Maj & Hony Lt ANANT RAM

JAMMU AND KASHMIR RIFLES

JC-4865 Sub Maj & Hony Lt BHAGWAN SINGH

JC-9330 Sub Maj & Hony Lt PARWIN SINGH

JC-8337 Sub Maj & Hony Lt QABALA SINGH

JC-8378 Sub Maj & Hony Lt UTTAM SINGH

JC-8331 Sub Maj & Hony Lt SOWARN SINGH

4 GORKHA RIFLES

JC-2611 Sub Maj & Hony Lt TEKBAHADUR GURUNG, SC

8 GORKHA RIFLES

JC-6058 Sub Maj & Hony Lt SATALAL PUN, KC

JC-2722 Sub Maj & Hony Lt LALBAHADUR PUN

11 GORKHA RIFLES

JC-4641 Sub Maj & Hony Lt GANJU LAMA, VC, MM

ARMY SERVICE CORPS (STAFF DUTIES)

42679-JC Sub Maj Clk GD RAJA RAM MISRA
(SD) & Hony Lt

ARMY SERVICE CORPS (SUPPLY)

29240-JC Sub Maj Clk (s) & KM SAMUEL
Hony Lt

29273-JC Sub Maj Clk (s) & MR REDDY
Hony Lt

29278-JC Sub Maj Clk (s) & KN BARTHAWAL
Hony Lt

29303-JC Sub Maj Clk (s) & V SHANMUGAM
Hony Lt

ARMY SERVICE CORPS (SUPPLY)—Contd.

JC-2796	Sub Clk (s) & Hony Lt	WASHDEV SINGH
29042-JC	Sub Clk (s) & Hony Lt	PS TARKAR

ARMY SERVICE CORPS (MECHANICAL TRANSPORT)

20461-JC	Sub Maj & Hony Lt	KHAZAN SINGH
----------	-------------------	--------------

ARMY ORDNANCE CORPS

32466-JC	Sub Maj & Hony Lt	AMAR NATH
35617-JC	Sub Maj & Hony Lt	SHIVA HARAKH SINGH
32514-JC	Sub Maj & Hony Lt	JAGDISH PRASAD NIGAM
32519-JC	Sub Maj & Hony Lt	OM PARKASH
35621-JC	Sub Maj & Hony Lt	DR DENNIS

CORPS OF ELECTRICAL & MECHANICAL ENGINEERS

56026-JC	Sub Maj & Hony Lt	RATTAN SINGH
33932-JC	Sub Maj & Hony Lt	INDAR PARKASH
47579-JC	Sub Maj & Hony Lt	JOGINDAR SINGH
58743-JC	Sub Maj & Hony Lt	PM GOVINDAN NAYER
JC-3586	Sub Maj & Hony Lt	BHAKTA RANJAN DAS
44948-JC	Sub Maj & Hony Lt	BARKAT RAM KUMAR
40638-JC	Sub Maj & Hony Lt	AMOLAK RAM
51047-JC	Sub Maj & Hony Lt	MOHAN SINGH

ARMY EDUCATION CORPS

60855-JC	Sub Maj & Hony Lt	SAMPURAN SINGH
57394-JC	Sub Maj & Hony Lt	GURDAS SINGH

PIONEER CORPS

55328-JC	Sub Maj GD & Hony Lt	PUNNIANATHAN
56270-JC	Sub Maj GD & Hony Lt	THOTA RAMA MOORTHY

*To be Honorary Lieutenants***65 ARMOURD REGIMENT**

JC-8812	Ris	RAGHUBIR SINGH
---------	-----	----------------

16 CAVALRY

44506-JC	Ris Maj	V SUBBA RAO
----------	---------	-------------

2 LANCERS

JC-6258	Ris Maj	CHHATAR SINGH
---------	---------	---------------

14 HORSE

JC-7959	Ris Maj	RAGHBIR SINGH
---------	---------	---------------

62 CAVALRY

55616-JC	Ris Maj	SUKHBIR SINGH
----------	---------	---------------

63 CAVALRY

49920-JC	Ris Maj	TARA SINGH
----------	---------	------------

REGIMENT OF ARTILLERY

59089-JC	Sub Maj	IBRAHIM KUTTY
JC-205	Sub Maj	GIAN CHAND
JC-89	Sub Maj	UMRAO SINGH
JC-103	Sub Maj	BHAG SINGH
JC-201	Sub Maj	HAZARI
JC-4415	Sub Maj	V PADMANABHA KURUP
JC-5268	Sub Maj	RIKHI RAM
JC-5219	Sub Maj	MAHADEO SALVI
JC-255	Sub Maj	ISHWAR SINGH, Vrc
JC-122	Sub Maj	SAHADEVAN
JC-257	Sub Maj	JAGJIT SINGH
JC-104	Sub Maj	V SANDAPPAN
JC-228	Sub Maj	PIRBHU DAYAL
JC-265	Sub Maj	JARMEJA SINGH
57630-JC	Sub Maj	OM NARAYANAN
JC-125	Sub Maj	PICHAYYA
JC-235	Sub Maj	BHOOR SINGH
JC-298	Sub Maj	SHANGARA SINGH
JC-297	Sub	BALBIR SINGH
JC-6282	Sub Clk	PRITAM SINGH

MADRAS ENGINEER GROUP

33706-JC	Sub Maj	PANOLI KANARAN ADIODI
56996-JC	Sub Maj	J JOHN
JC-931	Sub Maj	BERNARD FRANCIS
58983-JC	Sub Maj	MC ARUMUGAM
53213-JC	Sub Maj	VENKATESAN
51214-JC	Sub Maj	THANGAVELU
45595-JC	Sub Maj	RANGINEEDI SURYANARAYANA
JC-865	Sub Maj	PARASURAMAN
53620-JC	Sub Maj	SHUNMUGHAM
JC-7179	Sub	T KARUNAKARAN NAMBIAR
JC-8638	Sub	S DHARMA DAS

BENGAL ENGINEER GROUP

JC-736	Sub Maj	SHASHI DHAR
JC-916	Sub Maj	PARAMESWARAN
JC-850	Sub Maj	NARAYAN NAWADKAR
56921-JC	Sub Maj	OM PARKASH
JC-721	Sub Maj	AM VISWANATHAN
56925-JC	Sub	SHARDHA SINGH
JC-9731	Sub	HAKIM SINGH
JC-10883	Sub	PRITAM SINGH

BOMBAY ENGINEER GROUP

JC-798	Sub Maj	BAPU SAHEB BABAR
JC-8917	Sub	GAIBI ANPAT
JC-6821	Sub Clk	HARDYAL SINGH

CORPS OF SIGNALS

34669-JC	Sub Maj	AV KOLUNDU
57478-JC	Sub Maj	M CHELLIAH NELSON
36110-JC	Sub Maj	A TIRUMALAI
JC-1065	Sub Maj	PRITAM SINGH
JC-988	Sub Maj	IQBAL SINGH
JC-1032	Sub Maj	PRABH DAYAL
32330-JC	Sub Maj	HARDAWARI LAL KAUSHAL
50022-JC	Sub Maj	S DEVADANAM
JC-1026	Sub Maj	ROSHAN LAL
JC-1008	Sub Maj	ACHHAR SINGH
JC-4732	Sub Maj	A GOVIND
JC-1003	Sub Maj	HANS RAJ
32404-JC	Sub	BHAGAT RAM
43916-JC	Sub	MJ BENNETT
JC-959	Sub	SOWARAN SINGH
JC-6322	Sub	KARM SINGH
JC-4726	Sub	MALAGAR SINGH
JC-1174	Sub	AMAR SINGH RAJPUT PATHANIA
40398-JC	Sub	A CHANDRA SEKHARA KAIMAL
JC-1079	Sub	KM ABRAHAM

BRIGADE OF GUARDS

JC-352	Sub Maj	SHER SINGH
JC-8682	Sub	PIARA SINGH
JC-8879	Sub	SUKH RAM
JC-11845	Sub	BHOLA RAM

THE PARACHUTE REGIMENT

JC-7939	Sub Maj	TEJA SINGH
57454-JC	Sub Maj	MAKRAND SINGH

MADRAS REGIMENT

31498-JC	Sub Maj	SOMANATHAN MUDALIAR
28253-JC	Sub Maj	M MUTHUSAMY NAIDU
JC-1354	Sub Maj	KP PARAMESWARA MENON
JC-1318	Sub	KV GOPALAN
JC-4779	Sub	KRISHNAN KUTTY NAIR
JC-4787	Sub	RAMAN THAMPI
JC-1403	Sub	MS SUBRAMANIAM
JC-10956	Sub	CK THOMAS
39751-JC	Sub Clk	KUNJUNNY NAIR

PUNJAB REGIMENT

JC-5405	Sub Maj	JAI LALL
JC-4519	Sub Maj	TEJ CHAND
JC-4747	Sub Maj	RAM SINGH
JC-4524	Sub Maj	RACHHPAL SINGH
JC-4421	Sub Maj	MANOHAR LAL
JC-5487	Sub Maj	RELU RAM MARHYAL

PUNJAB REGIMENT—*contd.*

JC-1247	Sub Maj	SURAT SINGH
JC-7393	Sub	VIDYA DATT
JC-15078	Sub	KARAM SINGH
JC-6574	Sub Clk	RAVI DATTA SHARMA

THE GRENADIERS

JC-1548	Sub Maj	DHARAM SINGH
JC-4589	Sub Maj	PARAS RAM
JC-7089	Sub Maj	PURAN CHAND
JC-11689	Sub	MOTI SINGH
JC-16782	Sub	GIAN SINGH
JC-13788	Sub	HARI RAM
JC-11500	Sub	MEHAR SINGH

MARATHA LIGHT INFANTRY

JC-57453	Sub Maj	AMRUT BILLAYE
JC-1671	Sub Maj	MORAR RAO SHINDE
JC-1660	Sub Maj	DINKARRAO SHITOLE
JC-9538	Sub	HARI KADAM, MM
JC-1670	Sub	GM SATYANARAYAN
JC-6366	Sub	BHAGWANT KALE

RAJPUTANA RIFLES

JC-5258	Sub Maj	NARAINA RAM
JC-1769	Sub Maj	SURGIYAN RAM
JC-1793	Sub Maj	ANAND SINGH
JC-1930	Sub Maj	NARSING RAM
JC-1803	Sub Maj	LALU BHA
JC-7804	Sub	BANSI SINGH
JC-8238	Sub	MEHAR CHAND
JC-6379	Sub	SRI CHAND
JC-8680	Sub	BAGH SINGH
JC-12014	Sub	DIALA RAM
JC-15985	Sub	JAIMAL SINGH

RAJPUT REGIMENT

JC-52187	Sub Maj	BIJAI SINGH
JC-5922	Sub Maj	RAM CHANDAR SINGH
JC-1898	Sub Maj	UMRAO SINGH
JC-2397	Sub Maj	MANMOHAN SINGH
JC-1868	Sub Maj	SOHAN SINGH
JC-50371	Sub Maj	SHIV DHAN
JC-40451	Sub Maj	BRAJENDRA CHANDRA ROY
JC-34820	Sub Maj	BUDHPAL SINGH
JC-1894	Sub Maj	KHET SINGH
JC-14127	Sub	GOVIND SINGH
JC-5383	Sub	NAHAR SINGH
JC-12416	Sub	DASHRATH SINGH
JC-15351	Sub	BASDEO SINGH
JC-14672	Sub	HAMEER SINGH

JAT REGIMENT

JC-2015	Sub Maj	KAMTER RAM
JC-4810	Sub	JAGE RAM
JC-8642	Sub	KEHAR SINGH
JC-12065	Sub	MANBHAR
JC-14510	Sub	MAHA SINGH
JC-1988	Sub Maj	INDRAJ SINGH
JC-58072	Sub Maj	NAWAL SINGH
JC-1964	Sub Maj	RUKAN SINGH
JC-1994	Sub Maj	DHARAM SINGH
JC-2013	Sub Maj	SUBE SINGH

SIKH REGIMENT

JC-5659	Sub Maj	GIAN SINGH, VC
JC-6065	Sub Maj	KARAM SINGH
JC-5927	Sub Maj	MOHINDER SINGH
JC-9749	Sub	KABAL SINGH
JC-8634	Sub	GURCHARAN SINGH
JC-15138	Sub	MEHNGA SINGH
JC-15145	Sub	SANSAR SINGH
JC-11049	Sub	GURMUKH SINGH
JC-12404	Sub	SOHAN SINGH
JC-14119	Sub	HARNAM SINGH
JC-13730	Sub	SOHAN SINGH
JC-6416	Sub	MEHAR SINGH
JC-8923	Sub	ISHAR SINGH
JC-12405	Sub	NAND SINGH

SIKH LIGHT INFANTRY

JC-56981	Sub Maj	WARYAM SINGH
JC-2096	Sub Maj	PARITAM SINGH
JC-2107	Sub	AMAR SINGH
JC-2103	Sub	BANTA SINGH
JC-2097	Sub	RATTAN SINGH
JC-6467	Sub	BAKHSHISH SINGH
JC-7126	Sub	PRITAM SINGH

DOGRA REGIMENT

JC-4623	Sub	KANIYA LAL
JC-8757	Sub	BALI RAM
JC-5956	Sub	SITA RAM
JC-8258	Sub	PUNJAB SINGH
JC-6191	Sub	HOSHIAR SINGH
JC-6170	Sub	SARDAR SINGH
JC-5669	Sub	JAGAN NATH
JC-6157	Sub	HARI SINGH
JC-8758	Sub	KISHAN SINGH
JC-25624	Sub	RAM CHAND
JC-5266	Sub	RAM LAL, MM
JC-11860	Sub	HARNAM SINGH
JC-1684	Sub	RAM CHAND

DOGRA REGIMENT—*contd.*

JC 5957	Sub	UDHAM SINGH
JC 13077	Sub	ISHER DASS
JC 20426	Sub	BULHU RAM
JC 6177	Sub	MUNSHI RAM
JC 9414	Sub	GAURI SHANKAR
JC 12124	Sub Clk	PRAKRAM SINGH
JC 2187	Sub Maj	JAGDISH RAI
JC 2209	Sub Maj	BHANDARI, VC

GARHWAL RIFLES

JC 9193	Sub Maj Clk	RANJIT SINGH NEGI
JC 55764	Sub Maj	BISHAN SINGH BIST
JC 4444	Sub Maj	RANJIT SINGH NEGI

KUMAON REGIMENT

JC 2427	Sub Maj	LACHHMAN CHAND
JC 13097	Sub	GAJAI SINGH

ASSAM REGIMENT

33967 JC	Sub Maj	HAUKHOSEI KUKI
59786 JC	Sub Maj	TIOLIS MOHAN RYANJAH
JC 6885	Sub	THANGCHINJAM KUKI

BIHAR REGIMENT

JC 39507	Sub Maj	DANIEL TUTI
JC 49296	Sub Maj	MARQUES PANNA
JC 60226	Sub Maj	SONA RAM
JC 38050	Sub	JOSEPH NAG
JC 39509	Sub	HARUN TIRKEY
JC 59071	Sub	EMIL LOMGA

MAHAR REGIMENT

56848 JC	Sub Maj	SUDKAJI HATE
----------	---------	--------------

JAMMU AND KASHMIR RIFLES

JC 8336	Sub Maj	BHAGWANT SINGH
JC 7164	Sub Maj	PADAM BAHADUR
JC 13749	Sub	KRISHAN SINGH

1 GORKHA RIFLES

JC 2547	Sub Maj	BARNBAHADUR THAPA
JC-5766	Sub Maj	DHANRAJ GURUNG
JC-2548	Sub Maj	BIRBAHADUR THAPA

3 GORKHA RIFLES

JC-15033	Sub	KARNA BAHADUR GURUNG
JC-7519	Sub Maj	BHAGWAN SING THAPA

4 GORKHA RIFLES

JC-2598	Sub Maj	AMARJANG THAPA
---------	---------	----------------

5 GORAKHA RIFLES

JC-15174	Sub	BIRSING THAPA
JC-21347	Sub	MANPARSAD GURUNG
JC-16539	Sub	RANBAHADUR GURUNG
JC-6747	Sub Maj	CHUTE PUN
JC-5817	Sub Maj	GAJBAHADUR GURUNG

8 GORKHA RIFLES

JC-5371	Sub Maj	KULBAHADUR THAPA
JC-4848	Sub Maj	GANGAPARSHAD RANA
JC-5373	Sub	RATANBAHADUR THAPA
JC-13941	Sub	KAZIMAN LIMBU, SM
JC-9229	Sub	LACCHIMAN GURUNG

9 GORKHA RIFLES

JC-7546	Sub	ISHWAR SING KHATTRI
JC-10358	Sub	KUL BAHADUR CHHETTRI

ARMY SERVICE CORPS (STAFF DUTIES)

42653-JC	Sub Maj Clk GD(SD)	NAND KISHORE GADIHOKE
42726-JC	Sub Clk GD(SD)	BAIKUNTH NATH ANAND
JC-2912	Sub Clk GD(SD)	TIRLOK CHAND GROVER
JC-2913	Sub Clk GD (SD)	RAJ KUMAR SHARMA
JC-2904	Sub Clk GD(SD)	HARISH CHANDER DARGAN
JC-2881	Sub Clk GD(SD)	ARUN CHANDRA MUKHERJEE
JC-5385	Sub Clk GD(SD)	GURBAKSH SINGH
JC-2858	Sub Clk GD (SD)	JOSEPH CLAUDE ERIC
42720-JC	Sub Clk GD(SD)	MIRZA MOHD. ALI BAIG
JC-2878	Sub Clk GD(SD)	TS VISHWANATHAN
JC-2907	Sub Clk GD(SD)	CV EPHRAIM
42725-JC	Sub Clk GD(SD)	DIGAMBAR DATT NAUTIYAL
JC-2859	Sub Clk GD(SD)	ALBERT KENNETH DAWSON
42722-JC	Sub Clk GD(SD)	HARDHYAN SINGH
JC-2864	Sub Clk GD(SD)	THARAVATH SANKARAN KUTTY TARAVANAR

ARMY SERVICE CORPS (PERSONAL ASSISTANT)

JC-5209	Sub (PA)]	INDER SAIN DATTA
---------	-----------	------------------

ARMY SERVICE CORPS (SUPPLY)

14074-JC	Sub Maj Clk (S)	JUGAL KISHORE SHARMA
14041-JC	Sub Maj Clk (S)	DURGA DASS
29510-JC	Sub Maj Clk (S)	VINCENT MOORKOTH
29334-JC	Sub Maj Clk (S)	CK MURTHI
29372-JC	Sub Maj Clk (S)	N RENGAMANI
JC-2794	Sub Clk (S)	SOM NATH DUTTA
JC-2793	Sub Clk (S)	HUKAM SINGH MALHOTRA
32958-JC	Sub Clk (S)	MUL RAJ
JC-10345	Sub Clk (S)	SHIV DAN SHARMA
JC-5434	Sub Clk (S)	MADAN SINGH
44910-JC	Sub Clk (S)	MOHAN LAL
JC-2812	Sub Clk (S)	SHIV M SADASHIV VERNAKAR

ARMY SERVICE CORPS (SUPPLY)—*contd.*

37174-JC	Sub Clk GD	V SURYAPRAKAS
37192-JC	Sub Clk GD	KV KRISHNA IYENGAR
37147-JC	Sub Maj Clk GD	GOBIND RAM
37184-JC	Sub Maj Clk GD	P ACHYUTAN NAYAR
37333-JC	Sub Clk GD	ARUNAGIRI VINAYAGAM MOODALIAR
JC-6645	Sub Clk GD	CHHABIL LALL

ARMY SERVICE CORPS (ANIMAL TRANSPORT)

JC-13120	Ris	KISHAN SINGH
JC-11761	Ris	RAM DUTT
48423-JC	Ris Maj	DEBI DATT

ARMY SERVICE CORPS (MECHANICAL TRANSPORT)

35593-JC	Sub Maj	C KUTTY KRISHNAN NAIR
44753-JC	Sub Maj	V ABRAHAM MATHAI
49352-JC	Sub Maj	TC LAKSHMANAN
JC-15279	Sub	JAGDAMBA PERSHAD
JC-7855	Sub	RAM NATH CHAUBAY
JC-8097	Sub	RAGAVAN NAIR
JC-7862	Sub	LAXMI NARAIN
JC-6954	Sub	SHIV LAL
JC-12182	Sub	TK JACOB
JC-15286	Sub	JAI DATT
JC-19330	Sub	SIS RAM
JC-13607	Sub	KIRSHAN KUMAR
JC-7861	Sub	DHIRAJ SINGH
JC-6960	Sub	VIDYA RAM
JC-19302	Sub	RAMDEO SINGH

ARMY MEDICAL CORPS

40956-JC	Sub Maj AA	BAKASHISH SINGH
38665-JC	Sub Maj AA	KHEMA NAND SHARMA
44997-JC	Sub Maj AA	BISWANATH SINGH
JC-3137	Sub Maj AA	KESHAV NAND SHARMA
JC-52470	Sub Maj AA	KUNDAN LAL
34975-JC	Sub Maj AA	MATHURA DATT KHULBE
45258-JC	Sub Maj AA	AJIT SINGH
44298-JC	Sub Maj AA	MOTI RAM
59288-JC	Sub AA	THALA
JC-3188	Sub AA	KABUL SINGH
JC-55450	Sub AA	MAKHAN SINGH
JC-5377	Sub SA	PIRTHI SINGH
JC-5379	Sub SA	JAGAT SINGH
JC-38957	Sub Nursing	ALFRED ROMEL DASS
JC-61235	Sub Lab Tech	S NAGAPPA
41396-JC	Sub Maj Lab Tech	S JAYA RAM
38085-JC	Sub Maj MT Dvr	JAISHI RAM
JC-13613	Sub MT	AMAR SINGH
50587-JC	Sub Maj Clk GD	PURNA NAND TEWARI

ARMY ORDNANCE CORPS

45916-JC	Sub Maj	KISHAN SINGH
43883-JC	Sub Maj	DIDAR SINGH
44672-JC	Sub Maj	P V CANDRASEKHARAN NAIR
44698-JC	Sub Maj	HARI GOPAL CHAKKAVARTY
41627-JC	Sub Maj	KSHITISH CHANDRA PURKAYASTHA
32281-JC	Sub Maj	MANINDRA CHANDRA CHAKRABORTY
32271-JC	Sub Maj	HERBERT SOLOMAN LARWANCE NATH
53209-JC	Sub Maj	PRITHVI NATH
32528-JC	Sub Maj	M SAMBAMURTI
35718-JC	Sub Maj	LILA DHAR
35659-JC	Sub Maj	JP CHELLADURAI
41662-JC	Sub Maj	BISHUNU SWARUP SAHAI
32628-JC	Sub Maj	PRITHMI CHAND
32624-JC	Sub Maj	SUNI KUMAR BOSE
50137-JC	Sub Maj	UNNY GUPTAN
46407-JC	Sub Maj	ATTAR SINGH
32609-JC	Sub Maj	NARHARIBHAI UPADHYAYA
35639-JC	Sub Maj	N WILLIAMS
35638-JC	Sub Maj	JEJ SELVANAYAKAM
40043-JC	Sub Maj	SARASWATI DASS VARMA
54565-JC	Sub Maj	M NAGARATHNAM
35691-JC	Sub Maj	G VENKATARAMAN
32418-JC	Sub	BELI RAM
58402-JC	Sub	SHIVANARAIN UPADHYAY
58407-JC	Sub	NEWTON KACHHAP
61579-JC	Sub	RAGHUNATH VISHNU GURJAR
61609-JC	Sub	E GOVINDA MENON
61510-JC	Sub	AT JOSEPH
58806-JC	Sub	RANJIT CHOUDHARY
61564-JC	Sub	KAILASH CHANDRA SHARMA
61741-JC	Sub	BALWANT SINGH
61641-JC	Sub	KJ ANANTHARAMAN
54207-JC	Sub	MANORANJAN ROY
60038-JC	Sub	KALEKATHEKATHIL THOMAS NINAN
58816-JC	Sub	BAKSHI RAM
61520-JC	Sub	MR SRINIVASAN
61613-JC	Sub	LACHMAN DASS
61541-JC	Sub	BK KANNAYIRAM
57889-JC	Sub	S GANESAN
59983-JC	Sub	NARI PADA BANDOPADHYA
61643-JC	Sub	S CHELLIAM SAMUEL
61535-JC	Sub	BACHAN SINGH
61498-JC	Sub	NIRODE BONDHU SAHA
61515-JC	Sub	SUKHDEO UPADHYAYA
61583-JC	Sub	RAM BALLABH SINGH
57353-JC	Sub	SHRINDHAR GOPALRAO BULLAL
61752-JC	Sub	SUBAL CHANDRA NAIK
61603-JC	Sub	AYODHYA PRASAD
57890-JC	Sub	HARBANS LAL
JC-6546	Sub	JIT SINGH RAWAT

ARMY ORDNANCE CORPS—*contd.*

57347-JC	Sub	VK RAMACHANDRAN
61559-JC	Sub	P RAMAN
JC-9545	Sub	KV KURIEN

CORPS OF ELECTRICAL & MECHANICAL ENGINEERS

54125-JC	Sub Maj	MOHINDER KUMAR JAGGI
JC-50993	Sub Maj	MJ COELHO
40654-JC	Sub Maj	BRIJ LAL
54128-JC	Sub Maj	RAJDEO SINGH
JC-3526	Sub Maj	HARBHAJAN SINGH BEDI
JC-3539	Sub Maj	SOM DEV
JC-3502	Sub Maj	NT CHERIAN
JC-3484	Sub Maj	A PRATAP
51553-JC	Sub Maj	AMAR NATH
54116-JC	Sub Maj Ck GD	KM KURUVILLA
JC-3869	Sub	RANDHIR SINGH
JC-4414	Sub	JASWANT SINGH
54151-JC	Sub	KARTAR SINGH
51053-JC	Sub	VENKATA CHALAM N
54166-JC	Sub	AMARENDRA NATH ROY
53799-JC	Sub	MP BALAKRISHNAN NAMBIAR
54186-JC	Sub	RAMRAJ TRIPATHI
JC-7685	Sub	AJMER SINGH
JC-8514	Sub	SITAL SINGH
JC-3829	Sub	RAM DEO SINGH
JC-9372	Sub	HARBANS SINGH PARMAR
JC-3628	Sub	GOKUL BEHARI SIRCAR
JC-3917	Sub	GIAN SINGH
51048-JC	Sub	BIMAL CHANDRA GHOSH
JC-4458	Sub	SATINDRA NATH THAKURTA
JC-7687	Sub	KHARIATI RAM
59138-JC	Sub	SUDHINDRA NATH GHOSH
51034-JC	Sub	ITTY MATHEW
JC-3457	Sub	BUDHI SINGH
JC-4459	Sub	ACITYUT MORSWAR JOSHI
57346-JC	Sub	MAKHAN LAL BHATTACHARJEE
JC-3753	Sub	SANTI PRIYA BANERJI
59143-JC	Sub	BINOY KUMAR BHATTACHERYYA
JC-3920	Sub	CHINTA HARAN DEY
JC-7681	Sub	KIDAR NATH
JC-9535	Sub	O RAMAKRISHNAN PILLAY
JC-3959	Sub	VISHWANATH NARAYAN DONGRE
JC-4410	Sub	SAKTI PADO BHATTACHERJEE
JC-4409	Sub	SARWAN SINGH DOSANJ
JC-7743	Sub	HARJIT SINGH

ARMY EDUCATION CORPS

60854-JC	Sub Maj	MALUK SINGH
37893-JC	Sub Maj	AMAL NATH ACHARYA
39227-JC	Sub Maj	SURAT SINGH
44798-JC	Sub Maj	LALL SINGH

ARMY EDUCATION CROPS—Contd.

61438-JC	Sub	SHANGARA SINGH
61825-JC	Sub	P CHANDRASEKHARAN
4329-JC	Sub	WATTAN SINGH
60524-JC	Sub	HANSA DATT BHATT
61222-JC	Sub	PP BHASKARAN KARTHA
4310-JC	Sub	AJIT KUMAR MUKHERJEE
4309-JC	Sub	LACHHMAN DASS
4311-JC	Sub	JAMIAT SINGH
4319-JC	Sub	DHAN BAHADUR BHUJEL
JC-6217	Sub	RUP LAL
60602-JC	Sub	MP KUNJURAMAN NAIR
4258-JC]	Sub	SAHIB SINGH
JC-5829	Sub	RAMADHAR SINGH
6062-JC	Sub	CHANDER BHAN
JC-5831	Sub]	PREM DATT MISRA

RESCUE AND VETERINARY CORPS

RV-7002	Ris Maj (VAS)	PJ MONOHARAM
---------	---------------	--------------

PIONEER CORPS

56267-JC]	Sub Maj GD §	L RATHNAVELU
IC-14606	Sub GD	BEG RAJ

INTELLIGENCE CORPS

33406-JC	Sub Maj]	SARJIT SINGH
JC-5444]	Sub]	MADAN SINGH BORA
JC-5468	Sub	ARJAN SINGH
JC-5473]	Sub	ALAH SINGH
JC-5467	Sub	SURAJ BHAN
JC-10004]	Sub	BEHARI LAL

CORPS OF MILITARY POLICE

61170-JC	Sub Maj MP	THERAKATHU IDICULA THOMAS
JC-7275	Sub MP	SHARAM SINGH

No. 2-E, dated 26 Jan 69.—The President is pleased to grant honorary ranks to the under-mentioned JCOs under Regulations for the Army—1962 (Para 180) w.e.f. the dates mentioned against each:—

*To be Honorary Captains***REGIMENT OF ARTILLERY**

14712-JC	Sub & Hony Lt	DHARAMDEO SINGH	. . .	15-10-68
C-7633	Sub Maj & Hony Lt	BIR BAHADUR ALE	. . .	30-8-68
48152-JC	Sub Maj & Hony Lt	GK MISRA	. . .	12-10-68
JC-77	Sub Maj & Hony Lt	RAM SINGH	. . .	11-2-68
JC-244	Sub Maj & Hony Lt	SAJJAN SINGH	. . .	28-9-68
JC-282	Sub Maj & Hony Lt	SUGAN SINGH	. . .	29-9-68

BENGAL ENGINEER GROUP

JC-896	Sub Maj & Hony Lt	THANGARAJ	13-1-69
JC-42763	Sub Maj & Hony Lt	JAGTAR SINGH	14-1-69
58960-JC	Sub Maj & Hony Lt	DATA RAM	1-1-69
JC-59556	Sub Maj & Hony Lt	RAM SINGH	1-1-69
57544-JC	Sub Maj & Hony Lt	ISAAC KENNETH RICHARD	14-1-69
JC-670	Sub Maj & Hony Lt	BAKHITAWAR SINGH	19-8-68
59593-JC	Sub Maj & Hony Lt	JAGDISH SINGH	5-9-68
12355-JC	Sub Maj & Hony Lt	GOKUL DEV	17-12-68
JC-47068	Sub Maj & Hony Lt	RG VAZERKAR	1-1-69
JC-10205	Sub & Hony Lt	AMOLAK SINGH	2-1-69
59198-JC	Sub Maj & Hony Lt	S KRISHNA MOORTHY	1-1-69

BOMBAY ENGINEER GROUP

JC-780	Sub Maj & Hony Lt	SHANKAR CHAWAN	30-9-68
JC-808	Sub Maj & Hony Lt	MALAWA SINGH	20-11-68
JC-58861	Sub Maj & Hony Lt	RANJIT SINGH	9-1-69

CORPS OF SIGNALS

JC-993	Sub Maj & Hony Lt	DARSHAN SINGH	9-11-68
JC-1064	Sub Maj & Hony Lt	TEK SINGH	13-11-68
JC-7213	Sub Maj & Hony Lt	UDHAM SINGH	7-10-68
43603-JC	Sub Maj & Hony Lt	RASIL CHAND	6-1-69
JC-961	Sub Maj & Hony Lt	JAGAT SINGH	1-1-69
JC-1101	Sub & Hony Lt	MOTA SINGH	21-12-68

BRIGADE OF THE GUARDS

JC-330	Sub Maj & Hony Lt	BABU RAO GHADGE	13-8-68
JC-6700	Sub & Hony Lt	HANUMANA RAM	18-1-69
JC-6699	Sub & Hony Lt	DALIP SINGH	6-1-69
JC-4427	Sub Maj & Hony Lt	ATTAR SINGH	17-12-68

THE PARACHUTE REGIMENT

JC-8654	Sub & Hony Lt	TATYA BHOSLE	20-9-68
---------	---------------	------------------------	---------

THE PUNJAB REGIMENT

JC-1286	Sub Maj & Hony Lt	JASWANT SINGH	15-1-69
---------	-------------------	-------------------------	---------

THE GRENADIERS

14715-JC	Sub & Hony Lt	SYED EJAZ HUSSAIN	6-11-68
----------	---------------	-----------------------------	---------

RAJPUT REGIMENT

1940-JC	Sub Maj & Hony Lt	VENKAT SINGH	15-4-68
12417-JC	Sub & Hony Lt	SRI RAM	28-8-68
JC-13619	Sub & Hony Lt	RAMESHWAR DAYAL	27-9-68

SIKH REGIMENT

JC-10731	Sub & Hony Lt	GIAN SINGH	21-8-68
JC-6399	Sub Maj & Hony Lt	JOGINDAR SINGH	18-12-68
JC-7118	Sub Maj & Hony Lt	BALWANT SINGH	22-11-68
JC-5551	Sub Maj & Hony Lt	KARTAR SINGH	14-11-68
JC-9988	Sub & Hony Lt	RAJINDAR SINGH	4-11-68
JC-7790	Sub Clk & Hony Lt	BHAGWAN SINGH	1-11-68
JC-9959	Sub & Hony Lt	TEHEL SINGH	1-1-69
JC-9960	Sub & Hony Lt	HARNAM SINGH	23-8-68

SIKH LIGHT INFANTRY

57514-JC	Sub & Hony Lt	MUKHTIAR SINGH	18-9-68
JC-2083	Sub & Hony Lt	DUMAN SINGH	28-11-68
54653-JC	Sub & Hony Lt	LAL SINGH	29-10-68

DOGRA REGIMENT

JC-12381	Sub Clk & Hony Lt	BALDEV PARSHAD	19-10-68
----------	-------------------	--------------------------	----------

JAT REGIMENT

JC-1981	Sub Maj & Hony Lt	DEO KARAN	16-1-69
---------	-------------------	---------------------	---------

KUMAON REGIMENT

JC-15858	Sub & H & Hony Lt	MOHAN LAL	6-1-69
----------	-------------------	---------------------	--------

JAMMU AND KASHMIR RIFLES

JC-4861	Sub Maj & Hony Lt	RAM CHAND	20-1-69
---------	-------------------	---------------------	---------

4 GORKHA RIFLES

JC-9894	Sub & Hony Lt	PREM BAHADUR GURUNG, MM	15-12-68
JC-10516	Sub & Hony Lt	RAM KISHAN GHARTI	12-10-68

5 GORKHA RIFLES

JC-13293	Sub & Hony Lt	SARBAJIT THAPA, MM	16-10-68
----------	---------------	------------------------------	----------

8 GORKHA RIFLES

JC-2710	Sub Maj & Hony Lt	KULBAHADUR PUN	1-11-68
JC-7610	Sub Maj & Hony Lt	CHETBAHADUR GURUNG	5-12-68
JC-15325	Sub & Hony Lt	ISHWAR SING THAPA	28-10-68
JC-9073	Sub & Hony Lt	SHAMSHER GURUNG, MM	23-12-68
JC-10722	Sub & Hony Lt	MANBIR THAPA, MM	23-11-68

9 GORKHA RIFLES

JC-10232	Sub & Hony Lt	RAM BAHADUR BHANDARI	20-10-68
JC-11565	Sub & Hony Lt	PIRTHI BAHADUR SAHI	20-10-68
JC-14164	Sub & Hony Lt	MAN BAHADUR MALL	16-10-68
JC-14626	Sub & Hony Lt	NAHAL BAHADUR KHATTRI	17-10-68

ARMY SERVICE CORPS (STAFF DUTIES)

JC-7435	Sub Clk GD (SD) & Hony Lt	GURDIT SINGH	22-10-68
JC-2890	Sub Clk GD (SD) & Hony Lt	DALIP SINGH	21-10-68
JC-2893	Sub Clk GD (SD) & Hony Lt	RANJIT SINGH	25-10-68

ARMY SERVICE CORPS (STAFF DUTIES)—*contd.*

JC-2896	Sub Clk GD (SD) & Hony Lt	A CHANDRA HASAN	25-10-68
JC-2883	Sub Clk GD (SD) & Hony Lt	RANA GURPRATAP SINGH NARU .	16-9-68
JC-2877	Sub Clk GD (SD) & Hony Lt	PARKASH CHAND HURIA . . .	25-1-69
JC-5207	Sub Clk GD (SD) & Hony Lt	NAVIN CHANDRA PANDE . . .	21-10-68
JC-2887	Sub Clk GD (SD) & Hony Lt	RAM PARKASH SHARMA . . .	26-10-68
JC-2894	Sub Clk GD (SD) & Hony Lt	MAHENDRA SINGH KHAROLA .	25-10-68
JC-2886	Sub Clk GD (SD) & Hony Lt	FATEH CHAND BHATIA . . .	15-10-68
42756-JC	Sub Clk GD (SD) & Hony Lt	KHARAITI LAL MANCHANDA .	26-7-68
JC-2876	Sub Clk GD (SD) & Hony Lt	JAGDISH ANAND BAHAL . . .	24-1-69
JC-2882	Sub Clk GD (SD) & Hony Lt	HARBANS SINGH	18-10-68
JC-2888	Sub Clk GD (SD) & Hony Lt	NEB RAJ SAINT	15-10-68
42760-JC	Sub Clk GD (SD) & Hony Lt	MOHAN LAL	5-12-68

ARMY SERVICE CORPS (SUPPLY)

JC-4696	Sub Clk (S) & Hony Lt	SAILENDRA NATH BANERJEE .	31-12-68
JC-2807	Sub Clk (S) & Hony Lt	PRITAM SINGH	9-12-68
JC-2810	Sub Clk (S) & Hony Lt	PREM CHANDER CHAWLA . .	24-12-68
35314-JC	Sub Clk (S) & Hony Lt	SHAMBU NATH NANDA . . .	2-2-68
35405-JC	Sub Clk (S) & Hony Lt	RAM SINGH	19-11-68
26881-JC	Sub Clk (S) & Hony Lt	GURBAKSH SINGH	10-9-68
56105-JC	Sub (Cat) & Hony Lt	M SANKARANARAYANAN NAIR .	30-11-68
JC-2806	Sub Clk (S) & Hony Lt	KANSHI RAM JULKA	23-1-69
JC-9509	Sub Clk GD & Hony Lt	KULDIP SINGH	27-11-68
37226-JC	Sub Clk GD & Hony Lt	KKS GULERIA	5-12-68
JC-13144	Sub Clk GD & Hony Lt	HARBANS SINGH SETHI . . .	29-11-68
37133-JC	Sub Clk GD & Hony Lt	HARISH CHANDER PATHAK . .	6-10-68

ARMY SERVICE CORPS (MECHANICAL TRANSPORT)

42240-JC	Sub Maj & Hony Lt	C MASILAMONEY	6-9-68
38442-JC	Sub Maj & Hony Lt	OM VIJAYARAMANUJULU . .	6-9-68
35251-JC	Sub Maj & Hony Lt	SRI RAMULU	6-9-68

ARMY SERVICE CORPS (MECHANICAL TRANSPORT)—*contd.*

49350-JC	Sub Maj & Hony Lt	K SURYANAYARANA MURTY	21-11-68
38446-JC	Sub Maj & Hony Lt	D WILLIAM	5-11-68
42266-JC	Sub Maj Hony Lt	GOPAL SHETY	6-9-68
38432-JC	Sub Maj & Hony Lt	K SANKARAN NAIR	6-9-68
JC-13039	Sub & Hony Lt	SHIV KARAN SINGH	2-10-68
JC-19312	Sub & Hony Lt	RUP SINGH	7-1-69
JC-11551	Sub & Hony Lt	HAKAM SINGH	2-10-68

ARMY MEDICAL CORPS

49252-JC	Sub Maj & Hony Lt	BHAWANI PRASAD	4-10-68
JC-3122	Sub AA & Hony Lt	SHAKAR DATT	17-12-68
JC-3272	Sub AA & Hony Lt	KUNDAN LAL	22-11-68
JC-3155	Sub AA & Hony Lt	KULA NAND	14-11-68

ARMY ORDNANCE CORPS

32453-JC	Sub Maj & Hony Lt	S SAMBASIVAN	1-10-68
32377-JC	Sub Maj & Hony Lt	PRITHIPAL SINGH	1-1-69
30270-JC	Sub Maj & Hony Lt	BHAG SINGH	14-10-68
38579-JC	Sub Maj & Hony Lt	JOGINDER SINGH	1-10-68
32443-JC	Sub Maj & Hony Lt	TILAK RAJ	4-6-68
50134-JC	Sub Maj & Hony Lt	HARDEV SINGH HOODA	1-10-68
50141-JC	Sub Maj & Hony Lt	PK APPUNNI MENON	26-12-68
61708-JC	Sub Maj & Hony Lt	BANSI LAL BAJAJ	17-12-68
41681-JC	Sub Maj & Hony Lt	HARBANS LAL	28-12-68
52075-JC	Sub & Hony Lt	LIMBA DHONDIBA MALI	1-1-69

ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERS

53713-JC	Sub Maj & Hony Lt	GURBAKSH SINGH	19-1-69
58740-JC	Sub Maj & Hony Lt	PASUPULETI SURYANARAYANA	24-1-69
57817-JC	Sub Maj & Hony Lt	BAKHTAWAR SINGH BRAR	22-1-69
47918-JC	Sub Maj & Hony Lt	NANGA SINGH RAWAT	1-1-69
JC-3950	Sub Maj & Hony Lt	PRALAD CHANDER ROY	1-1-69
54140-JC	Sub Maj & Hony Lt	M KRISHNA NAIR	1-1-69
JC-3555	Sub Maj & Hony Lt	UMESH BANERJEE	1-1-69
58786-JC	Sub Maj & Hony Lt	DES RAJ	1-1-69
JC-3573	Sub Maj & Hony Lt	VD KAMALA NATHAN	1-1-69
JC-3881	Sub & Hony Lt	SAKUNAT LAL	28-11-68
54137-JC	Sub & Hony Lt	BABU RAM	23-12-68
JC-3824	Sub & Hony Lt	KARTAR SINGH	2-10-68
JC-3767	Sub & Hony Lt	MADAN LAL	30-10-68
3939-JC	Sub & Hony Lt	WISHWA NATH BHATIA	7-1-69
JC-3472	Sub Maj & Hony Lt	DES RAJ	1-1-69
JC-3891	Sub & Hony Lt	TEK CHAND DATTA	2-9-68

ARMY EDUCATIONAL CORPS

35242-JC	Sub Maj & Hony Lt	MS NANJUNDIAH	1-11-68
4269-JC	Sub & Hony Lt	HANS RAJ SHARMA	12-11-68
60145-JC	Sub & Hony Lt	ANAND JIT SINGH	12-11-68
4306-JC	Sub & Hony Lt	HAR PRASAD NAUTIYAL	27-12-68

REMOUNT AND VETERINARY CORPS

RV-7025	Ris Maj Lo & Hony Lt	NANAK CHAND	7-12-68
---------	----------------------	-------------	---------

THE INTELLIGENCE CORPS

JC-5476	Sub & Hony Lt	BALBIR SINGH	2-9-68
JC-5456	Sub & Hony Lt	K ACHUTHAN NAMBIAR	18-1-69
31843-JC	Sub Maj & Hony Lt	RISAL SINGH NARAD	12-9-68

PIONEER CORPS

39946-JC	Sub Maj (GD) Hony Lt.	& GAJADHAR SINGH	16-1-69
40421-JC	Sub Maj (GD) Hony Lt	& CO JOHN	16-1-69

ARMY PHYSICAL TRAINING CORPS

JC-5436	Sub Maj & Hony Lt	DALIP SINGH	19-12-68
---------	-------------------	-------------	---------	----------

To be Honorary Lieutenants

REGIMENT OF ARTILLERY

JC-238	Sub Maj	BABU SINGH	18-8-68
JC-95	Sub Maj	SEBASTIAN	7-6-68
JC-277	Sub Maj	PANDU SHIRODKAR	15-10-68

BENGAL ENGINEER GROUP

49931-JC	Sub Maj	CN KRISHNAN	1-1-69
60932-JC	Sub Maj	N RAMASWAMY IYER	11-1-69

CORPS OF SIGNALS

JC-963	Sub Maj	DEVI PRASAD	21-11-68
--------	---------	-------------	---------	----------

SIKH LIGHT INFANTRY

41539-JC	Sub Maj	GULAB SINGH	10-4-68
57516-JC	Sub Maj	UJAGAR SINGH	8-2-68

KUMAON REGIMENT

JC-2333	Sub Maj	DEWAN SINGH	12-4-68
---------	---------	-------------	---------	---------

ARMY MEDICAL CORPS

JC-7480	Sub Maj	POTA SAHDEB SINGH	4-10-68
---------	---------	-------------------	---------	---------

ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERS

JC-3899	Sub Maj	MOHINDER SINGH	1-1-69
JC-3446	Sub Maj	MOHAL LAL MAINI	1-1-69

To be Honorary Risaldar/Subedar Majors

16 CAVALRY

JC-482	Ris	CH PUSHPA RAJU	28-10-68
JC-483	Ris	SADHANALA VENKAYYA	23-9-68
JC-484	Ris	P CHINDAN NAIR	5-1-69
JC-5237	Ris	C APPUKUTTAN NAIR	7-9-68

7 CAVALRY

JC-10799	Ris	LAL CHAND, VrC	30-10-68
JC-12578	Ris	FATEH SINGH	3-12-68
JC-13346	Ris	SURAJ BHAN	9-10-68

1 HORSE

JC-7966	Ris	BACHAN SINGH	19-10-68
---------	-----	--------------	---	---	---	---	----------

2 LANCERS

JC-7811	Ris	BHOJ RAJ SINGH	30-9-68
---------	-----	----------------	---	---	---	---	---------

14 HORSE

JC-12230	Ris	HARBHAJAN SINGH	1-10-68
----------	-----	-----------------	---	---	---	---	---------

JC-12231	Ris	BABU SINGH	10-12-68
----------	-----	------------	---	---	---	---	----------

4 HORSE

JC-6777	Ris	BARKAT SINGH	2-12-68
---------	-----	--------------	---	---	---	---	---------

JC-6661	Ris	HARNAM SINGH	22-12-68
---------	-----	--------------	---	---	---	---	----------

62 CAVALRY

JC-10737	Ris	MUKHTIAR SINGH	13-1-69
----------	-----	----------------	---	---	---	---	---------

64 CAVALRY

JC-8223	Ris	MALKHAN SINGH	20-11-68
---------	-----	---------------	---	---	---	---	----------

REGIMENT OF ARTILLERY

JC-7028	Sub Clk	MA GANAPATHY	30-8-68
---------	---------	--------------	---	---	---	---	---------

JC-272	Sub Clk	TA RAMANATHAN	1-9-68
--------	---------	---------------	---	---	---	---	--------

JC-290	Sub	PC SUBBIAH	15-8-68
--------	-----	------------	---	---	---	---	---------

JC-15446	Sub Clk	SUKHDEO SINGH	26-10-68
----------	---------	---------------	---	---	---	---	----------

JC-6285	Sub Clk	AJIT SINGH	12-11-68
---------	---------	------------	---	---	---	---	----------

MADRAS ENGINEER GROUP

JC-19654	Sub	PANKAJAKSHAN NAIR	1-10-68
----------	-----	-------------------	---	---	---	---	---------

JC-20254	Sub	S JOSEPH JOHN	20-1-69
----------	-----	---------------	---	---	---	---	---------

59038-JC	Sub	N GOVINDARAJ	6-9-68
----------	-----	--------------	---	---	---	---	--------

JC-6980	Sub	K ANJANA RAO	30-11-68
---------	-----	--------------	---	---	---	---	----------

JC-7193	Sub	M GOVINDASAWMY	6-9-68
---------	-----	----------------	---	---	---	---	--------

JC-7035	Sub	MARIA JOSEPH	20-1-69
---------	-----	--------------	---	---	---	---	---------

JC-10278	Sub	M RAJARATNAM	20-1-69
----------	-----	--------------	---	---	---	---	---------

JC-6979	Sub	N MUTHUSAMI NAIDU	3-12-68
---------	-----	-------------------	---	---	---	---	---------

JC-12815	Sub	K KARUNAKARA NAIR	27-11-68
----------	-----	-------------------	---	---	---	---	----------

JC-929	Sub	AS RAJU	18-10-68
--------	-----	---------	---	---	---	---	----------

JC-936	Sub	N GOVINDARAJU	2-12-68
--------	-----	---------------	---	---	---	---	---------

JC-5299	Sub	THANGAVELU	3-9-68
---------	-----	------------	---	---	---	---	--------

BOMBAY ENGINEER GROUP

JC-7953	Sub	DHANNA SINGH	23-8-68
---------	-----	--------------	---	---	---	---	---------

JC-7053	Sub	RAM SINGH	19-9-68
---------	-----	-----------	---	---	---	---	---------

JC-8527	Sub	JAGIR SINGH	17-1-69
---------	-----	-------------	---	---	---	---	---------

JC-13914	Sub Clk	MAL SINGH	16-8-68
----------	---------	-----------	---	---	---	---	---------

JC-14738	Sub Clk	JAGAT SINGH	23-1-69
----------	---------	-------------	---	---	---	---	---------

JC-13918	Sub Clk	RATAN SINGH	25-11-68
----------	---------	-------------	---	---	---	---	----------

JC-12730	Sub Clk	MATHRA SINGH	5-9-68
----------	---------	--------------	---	---	---	---	--------

JC-12726	Sub Clk	NANAK SINGH	30-9-68
----------	---------	-------------	---	---	---	---	---------

JC-12723	Sub Clk	MOHINDER SINGH	22-8-68
----------	---------	----------------	---	---	---	---	---------

JC-13704	Sub	DIA SINGH	11-1-69
----------	-----	-----------	---	---	---	---	---------

JC-13676	Sub	EKNATH GHADGE	29-10-68
----------	-----	---------------	---	---	---	---	----------

JC-10221	Sub	GULAB NALE	29-10-68
----------	-----	------------	---	---	---	---	----------

CORPS OF SIGNALS

JC-987	Sub	KM BALAKRISHNAN	27-9-68
JC-4506	Sub	UJAGAR SINGH	12-12-68
JC-9172	Sub	RS SUBBIAH PILLAI	18-1-69
JC-20276	Sub	R ATCHAYYA REDDY	23-12-68
JC-5531	Sub	BISHAN SINGH	26-10-68
JC-6687	Sub	SUKHRAM SINGH	9-1-69
JC-9168	Sub	AMAR SINGH	5-11-68
JC-10087	Sub	SARBAN SINGH	22-10-68
JC-11148	Sub	SURJAN SINGH	5-10-68
JC-6006	Sub	NARANJAN SINGH	9-9-68
JC-23209	Sub	RACHAN SINGH	20-8-68
JC-5122	Sub	JANAK SINGH	4-8-68
JC-7202	Sub	JARNAIL SINGH	3-10-68
JC-7224	Sub	MEWA SINGH	3-1-69

THE PARACHUTE REGIMENT

JC-10681	Sub	CHATAR SINGH	23-9-68
JC-8447	Sub	SOBAN SINGH	11-11-68

PUNJAB REGIMENT

JC-12621	Sub	BHAG SINGH	1-1-69
JC-18036	Sub	GAJJA SINGH	19-12-69
JC-11369	Sub	KOUR SINGH	7-1-69

THE GRENADIERS

JC-12369	Sub	INDAR SINGH	7-1-69
JC-12129	Sub	SULTAN SINGH	12-8-68
JC-11688	Sub	SADHU SINGH	16-1-69
JC-12140	Sub Clk	SHER SINGH	7-12-68

MARATHA LIGHT INFANTRY

JC-19955	Sub	UDHAV GHARGE	18-1-69
JC-7247	Sub	RAM KISHTAYA	22-12-68
JC-15092	Sub	SAKHARAM INGLE	28-8-68
JC-6846	Sub	SOPAN DHERE	25-11-68
JC-19994	Sub	SHIVAJI BHOSLE	14-9-68
JC-6707	Sub	KANTA PARSHAD	13-1-69
JC-6849	Sub	VISHNU DESAI	8-10-68

RAJPUTANA RIFLES

JC-10583	Sub Clk	ANJI SINGH TANWAR	13-7-68
----------	---------	-------------------	---------

RAJPUT REGIMENT

JC-13056	Sub	LEKH RAM	12-10-68
JC-19087	Sub Clk	JAGMOHAN SINGH VERMA	12-9-68
JC-20912	Sub Clk	RAM HAKAKH SINGH	23-12-68

JAT REGIMENT

JC-16458	Sub Clk	GULZARI LAL	15-10-68
JC-10273	Sub Clk	HARI RAM	2-10-68
JC-6395	Sub	SHER SINGH	24-8-68
JC-11979	Sub	HOSHIAR SINGH	22-9-68
JC-12170	Sub Clk	BADLU SINGH	17-12-68

SIKH REGIMENT

JC-12035	Sub	UJAGAR SINGH	11-11-68
JC-7789	Sub	MEHAR SINGH	31-12-68
JC-15148	Sub Clk	HARDIAL SINGH	21-10-68
JC-11321	Sub	SURAIN SINGH	7-9-68
JC-15141	Sub	WARIAM SINGH	23-10-68
JC-13540	Sub	DARSHAN SINGH	29-10-68
JC-12655	Sub	AMAR SINGH	21-11-68
JC-14288	Sub	BALWANT SINGH	22-1-69
JC-15259	Sub Clk	CHANAN SINGH	16-11-68
JC-14662	Sub Clk	MADAN MOHAN SINGH	30-9-68

SIKH LIGHT INFANTRY

JC-2117	Sub	DIT SINGH	31-12-68
JC-7125	Sub Clk	RAM MEHAR SINGH	5-10-68
JC-6891	Sub	PRITAM SINGH	1-9-68
JC-6586	Sub	BHARPUR SINGH	5-7-68

DOGRA REGIMENT

JC-13543	Sub	LAKHU RAM	12-10-68
JC-12696	Sub Clk	DINA NATH	14-10-68

GARHWAL RIFLES

JC-9194	Sub Clk	SOHAN LAL JAIN	5-9-68
---------	---------	----------------	---------	--------

KUMAON REGIMENT

JC-7886	Sub	JAINT SINGH	23-11-68
JC-13258	Sub	CHANDER SINGH	22-4-68
JC-8073	Sub	SHEO NARAIN	30-9-68
JC-8046	Sub	KAPIL DEO	6-11-68
JC-7624	Sub	SHER SINGH	13-11-68
JC-10733	Sub	RATI RAM	20-6-68
JC-5271	Sub	KUNWAR SINGH	16-11-68
JC-12260	Sub	DALEEP CHAND, Vr C	25-10-68

MAHAR REGIMENT

JC-22905	Sub	BIRBAL RAM	11-11-68
JC-13794	Sub	SHIVA KAMBLE	14-10-68

JAMMU AND KASHMIR RIFLES

JC-10069	Sub Clk	PRITAM SINGH	16-10-68
----------	---------	--------------	---------	----------

1 GORKHA RIFLES

JC-10740	Sub	BALBAHADUR PUN	21-12-68
----------	-----	----------------	---------	----------

3 GORKHA RIFLES

JC-13114	Sub	PARTIMAN THAPA	14-10-68
JC-9448	Sub	CHHEM BAHADUR SEN	15-11-68
JC-11306	Sub	RAN BAHADUR GURUNG	17-12-68
JC-12659	Sub	KAR BAHADUR GURUNG	13-1-69

GORKHA RIFLES

JC-15648	Sub	PAHAL SINGH ALE . . .	8-1-69
JC-16510	Sub Clk	PREM SINGH PATHANIA . .	6-1-69

5 GORKHA RIFLES

JC-16754	Sub Clk	MOHABAT SINGH BISHT . .	7-11-68
JC-13081	Sub	KESAR SINGH THAPA . .	15-10-68
JC-10269	Sub	SURJABAHADUR THAPA . .	15-10-68
JC-21438	Sub	JASBAHADUR GURUNG . .	19-10-68
JC-11591	Sub	JANGBAHADUR RANA . .	24-10-68

8 GORKHA RIFLES

JC-11362	Sub	IMAN SINGH GURUNG . .	2-11-68
----------	-----	-----------------------	---------

9 GORKHA RIFLES

JC-8693	Sub	LACHHMI BAHADUR BHANDARI	20-10-68
JC-12896	Sub	RAM BAHADUR KARKI . .	23-11-68
JC-14124	Sub	RAJ BAHADUR KHATTRI . .	3-10-68
JC-14279	Sub	GAGAN BAHADUR MALL . .	16-10-68
JC-14445	Sub	SARBAJIT KHANDKA . .	27-10-68
JC-21437	Sub Clk	DURGA SING PUN . .	1-1-69
JC-11024	Sub	JOG BAHADUR BHANDARI . .	15-11-68

11 GORKHA RIFLES

JC-11782	Sub	GAUBAHADUR RAI . .	14-1-69
JC-11586	Sub	LAL BAHADUR SUNWAR . .	31-8-68
JC-10950	Sub	ISHWARSING RAI . .	16-8-68

ARMY SERVICE CORPS (STAFF DUTIES)

4271-JC	Sub Clk GD (SD)	RAM RAKHA SHARMA . .	25-7-68
JC-5984	Sub Clk (S)	LAKHBIR SINGH . .	2-12-68
JC-4691	Sub Clk (S)	SURINDAR SINGH . .	4-11-68
JC-12328	Sub Clk (S)	HARNAM SINGH . .	14-12-68
JC-7000	Sub Clk (S)	PIARA SINGH . .	31-10-68
JC-4689	Sub Clk (S)	TARLOK SINGH . .	25-11-68
JC-11095	Sub Clk (S)	GURMUKH DASS . .	12-9-68
58326-JC	Sub (Cat)	ANIL KUMAR BANERJEE . .	3-12-68
47364-JC	Sub (Cat)	HARISH CHANDER SEHGAL .	19-11-68
JC-14508	Sub Clk GD	NATH JI KOUL KARIHULLOO .	11-1-69
JC-11999	Sub Clk GD	NIRMAL SINGH . .	19-9-68
JC-13134	Sub Clk GD	VASU DEVA . .	5-11-68
JC-11200	Sub Clk GD	KRISHAN LAL DUTTA . .	14-10-68
JC-11902	Sub Clk GD	KISHAN CHAND . .	9-11-68
JC-11900	Sub Clk GD	SOHAN SINGH . .	31-10-68
JC-14233	Sub Clk GD	NATH SINGH . .	9-1-69
JC-13142	Sub Clk GD	PESHAURI LAL . .	27-11-68

ARMY SERVICE CORPS (SUPPLY)—*contd.*

JC-14236	Sub Clk GD	BHIM SINGH	4-1-69
JC-9510	Sub Clk GD	RAM SARAN BANDOONI	24-11-68
JC-2788	Sub Clk (S)	RAM MURTI	22-10-68
JC-14238	Sub Clk GD	JAGDISH RAI	6-1-69
JC-13178	Sub Clk GD	HIMAT SINGH	23-12-68
JC-14203	Sub Clk GD	GURCHARAN SINGH	9-1-69
JC-14225	Sub Clk GD	RUP LALL	23-12-68
JC-13132	Sub Clk GD	GULZARI LAL	12-10-68
JC-2928	Sub Clk GD	PRAGNATH KAPOOR	3-11-68
JC-11899	Sub Clk GD	BHIM SINGH	26-10-68
JC-9181	Sub Clk GD	LASSA KAUL	21-11-68
JC-14220	Sub Clk GD	MANGAL RAM	20-12-68
JC-13130	Sub Clk GD	DINA NATH KANDA	19-11-68
JC-11202	Sub Clk GD	RAGHBIR CHANDER	17-10-68
JC-11204	Sub Clk GD	JOGINDAR SINGH	28-10-68
JC-13498	Sub Clk GD	RAM SINGH JOHAR	17-12-68

ARMY SERVICE CORPS (MECHANICAL TRANSPORT)

JC-11258	Sub	KARAN SINGH	17-12-68
JC-7339	Sub	ONKAR PRASHAD	26-11-68
JC-7336	Sub	BANARSI DASS	17-12-68
JC-11255	Sub	RAI SINGH	6-1-69

ARMY SERVICE CORPS (ANIMAL TRANSPORT)

JC-9839	Ris	PRAYAG SINGH	7-10-68
---------	-----	------------------------	---------

ARMY MEDICAL CORPS

JC-3233	Sub Clk (GD)	SHANKER KESHAV PETKAR	5-4-68
JC-10166	Sub Clk (GD)	KARAM SINGH	15-11-68
JC-10641	Sub AA	LAL SINGH	8-1-69
JC-10067	Sub Clk (GD)	SHORNGHUR ETHIRAJU	
		SESHACHALAM	18-11-68
JC-9270	Sub SMT	LAZAR SANTIAGO	20-10-68
JC-13211	Sub SMT	RAM LAL	5-11-68

ARMY ORDNANCE CORPS

10993-JC	Sub	DAL SINGH	29-12-68
JC-6926	Sub	MOHINDER SINGH REKHI	19-12-68
JC-61487	Sub	GOKAL LAL	9-1-69
JC-54179	Sub	SR VAIDYA	8-1-69
61715-JC	Sub	HOTU RAM TANEJA	1-1-69

ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERS

JC-6246	Sub	KRIPAL SINGH]	6-9-68
JC-7674	Sub	HAZUR SINGH	19-9-68
JC-6245	Sub	GURMUKH SINGH	26-8-68
JC-4412	Sub	K. N. BHARATHAN	30-12-68
JC-3734	Sub	JAGJIT SINGH	27-11-68
60041-JC	Sub	SARYA PRASAD TIWARI	28-10-68
60794-JC	Sub	LUSHAI SINGH	5-11-68

ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERS—*contd.*

60315-JC	Sub	GURBACHAN SINGH	2-11-68
JC-7986	Sub	B DEVADANAM VARA PARASHAD	17-11-68.
JC-3894	Sub	BIDHI SINGH	7-11-68
JC-7458	Sub	HARBANS SINGH	9-11-68
JC-3898	Sub	PREM CHAND JULKAN	22-8-68
JC-10027	Sub	BIASDEV SHARMA	29-10-68
JC-20352	Sub	DIWAN CHAND	26-10-68
JC-20555	Sub	RAM SARAN	16-10-68
JC-10464	Sub	NARAIN DASS	28-11-68
JC-8935	Sub	KASTURI LAL	17-12-68
JC-6240	Sub	K SANKUNNI MENON	31-12-68
JC-8292	Sub	MAHADEO SAWANT	29-11-68
JC-3455	Sub	TRILOK SINGH	15-8-68

ARMY EDUCATIONAL CORPS

JC-3934	Sub Clk	HAKIM SINGH	17-12-68.
4302-JC	Sub	TAKKAR BAHADUR THAPA	5-8-68
4328-JC	Sub	KARTAR SINGH	1-11-68.

CORPS OF MILITARY POLICE

JC-10014	Sub (MP)	UMRAO SINGH	29-11-68.
----------	----------	---------------------	-----------

THE INTELLIGENCE CORPS

JC-9234	Sub	RISAL SINGH	4-12-68
---------	-----	---------------------	---------

PIONEER CORPS

50806-JC	Sub (GD)	SHANKAR DASS	16-10-68:
----------	----------	----------------------	-----------

To be Honorary Risaldars/Subedars

BENGAL ENGINEER GROUP

JC-19729	Nb Sub	BHAG SINGH	18-11-68
----------	--------	--------------------	----------

MADRAS ENGINEER GROUP

JC-28654	Nb Sub	NAYINA KANNAN	1-11-68
JC-28668	Nb Sub	NV ELLOJI RAO	[1-9-68.

CORPS OF SIGNALS

JC-30294	Nb Sub	KRISHAN LAL	18-7-68
JC-32109	Nb Sub	BHAGAT RAM	11-10-68.
JC-29391	Nb Sub	HEERA BALLAB	15-8-68.

PUNJAB REGIMENT

JC-21993	Nb Sub Clk	BACHITTAR SINGH	19-12-68
----------	------------	-------------------------	----------

1 GORKHA RIFLES

JC-40954	Nb Sub Clk	ISHIARSINGH KHATRI	8-10-68.
----------	------------	----------------------------	----------

4 GORKHA RIFLES

JC-38318	Nb Sub Clk	BHAGWAN SING RANA	27-9-68
----------	------------	---------------------------	---------

5 GORKHA RIFLES

JC-29688	Nb Sub	CHANDRABHADUR RANA	22-3-68.
----------	--------	----------------------------	----------

II GORKHA RIFLES

JC-34539	Nb Sub	TILABIKRAM RAI	.	.	.	1-11-68
----------	--------	----------------	---	---	---	---------

ARMY SERVICE CORPS (STAFF DUTIES)

JC-18411	Nb Sub Clk GD (SD)	RAM CHAND	.	.	.	3-1-69
----------	--------------------	-----------	---	---	---	--------

JC-28786	Nb Sub Clk GD (SD)	DURLABH SINGH SETHI	.	.	.	11-11-68
----------	--------------------	---------------------	---	---	---	----------

JC-28769	Nb Sub Clk GD (SD)	SARUP SINGH	.	.	.	30-12-68
----------	--------------------	-------------	---	---	---	----------

ARMY SERVICE CORPS (SUPPLY)

JC-17595	Nb Sub Clk (S)	IQBAL NATH	.	.	.	31-10-68
----------	----------------	------------	---	---	---	----------

JC-25094	Nb Sub Clk GD	PARSHOTAM LALL	.	.	.	24-12-68
----------	---------------	----------------	---	---	---	----------

JC-25093	Nb Sub Clk GD	TARA CHAND	.	.	.	17-1-69
----------	---------------	------------	---	---	---	---------

JC-20955	Nb Sub Clk GD	AJIT SINGH	.	.	.	24-8-68
----------	---------------	------------	---	---	---	---------

JC-20957	Nb Sub Clk GD	OM PARKASH GUPTA	.	.	.	11-1-69
----------	---------------	------------------	---	---	---	---------

JC-20956	Nb Sub Clk GD	GAJAN SINGH	.	.	.	6-10-68
----------	---------------	-------------	---	---	---	---------

ARMY MEDICAL CORPS

JC-24017	Nb Sub SMT	RAM TIRATH	.	.	.	30-9-68
----------	------------	------------	---	---	---	---------

JC-19798	Nb Sub SMT	RAJ KUMAR	.	.	.	2-12-68
----------	------------	-----------	---	---	---	---------

ARMY ORDNANCE CORPS

JC-15918	Nb Sub	NARPAT SINGH	.	.	.	30-11-68
----------	--------	--------------	---	---	---	----------

ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERS

JC-35433	Nb Sub	SADHU RAM	.	.	.	14-7-68
----------	--------	-----------	---	---	---	---------

PIONEER CORPS

JC-23795	Nb Sub (GD)	DAMODHARAN NAIR	.	.	.	23-11-68
----------	-------------	-----------------	---	---	---	----------

JC-23803	Nb Sub (GD)	PHINA	.	.	.	1-11-68
----------	-------------	-------	---	---	---	---------

JC-32003	Nb Sub (GD)	NS DANIEL	.	.	.	23-11-68
----------	-------------	-----------	---	---	---	----------

JC-32540	Nb Sub (GD)	RABI MISTRY	.	.	.	4-8-68
----------	-------------	-------------	---	---	---	--------

JC-23804	Nb Sub (GD)	ANANT RAM	.	.	.	10-11-68
----------	-------------	-----------	---	---	---	----------

JC-20825	Nb Sub (GD)	RAMA CHANDRAN	.	.	.	12-12-68
----------	-------------	---------------	---	---	---	----------

No. 3-E dated 26 Jan. 69.—The President is pleased to grant honorary rank to the under mentioned NCOs under Para 181 of Regulations for the Army—1962 w.e.f. the dates mentioned against each :—

To be Honorary Naib Risaldars/Subedars

16 CAVALRY

1004546	Dfr	RAMACHANDRAN	.	.	.	1-1-69
---------	-----	--------------	---	---	---	--------

1006943	Dfr	GOVINDA SAMY	.	.	.	1-1-69
---------	-----	--------------	---	---	---	--------

1 HORSE

1003277	Dfr	BALBIR SINGH	.	.	.	16-10-68
---------	-----	--------------	---	---	---	----------

9 D. H.

1006514	Dfr	ROSHAN LAL	.	.	.	20-10-68
---------	-----	------------	---	---	---	----------

1009702	Dfr	MOHAR SINGH	.	.	.	1-1-69
---------	-----	-------------	---	---	---	--------

1007948	Dfr	KISHAN CHAND	.	.	.	29-7-68
---------	-----	--------------	---	---	---	---------

14 HORSE

1004296	Dfr	GURBACHAN SINGH	26-7-68
---------	-----	-----------------	---------

4 HORSE

1005006	Dfr	CHAIN SINGH	1-1-69
---------	-----	-------------	--------

1007109	Dfr	LEKH RAJ	28-12-68
---------	-----	----------	----------

C.I.H.

1000251	Dfr	CHINT RAM	14-2-68
---------	-----	-----------	---------

1004064	Dfr	OMKAR SINGH	30-7-68
---------	-----	-------------	---------

45 CAVALRY

1006144	Dfr	RAM SINGH	1-8-68
---------	-----	-----------	--------

REGIMENT OF ARTILLERY

9317196	Hav	JAHANGIR SINGH	7-9-68
---------	-----	----------------	--------

9056277	Hav	CHURH SINGH	20-9-68
---------	-----	-------------	---------

1122480	Hav	MD. PACHA	24-9-68
---------	-----	-----------	---------

1109883	Hav	SANJEEVI	26-9-68
---------	-----	----------	---------

9050423	Hav	BANTA SINGH	5-10-68
---------	-----	-------------	---------

2541155	Hav	GOPALA PILLAI	11-9-68
---------	-----	---------------	---------

2541064	Hav	SUBBAYYAN ASSARI	10-10-68
---------	-----	------------------	----------

1205474	Hav	BIHARI LAL	23-9-68
---------	-----	------------	---------

1101982	Hav	BALAM THATHAYYA	20-7-68
---------	-----	-----------------	---------

9065560	Hav	PREM SINGH	17-7-68
---------	-----	------------	---------

1104731	Hav	SANKARAN NAIR	18-8-68
---------	-----	---------------	---------

9055639	Hav	JASWANT SINGH	6-7-68
---------	-----	---------------	--------

1109266	Hav	GOVINDAN	14-10-68
---------	-----	----------	----------

1104579	Hav	K BALAKRISHNAN	13-11-68
---------	-----	----------------	----------

2541335	Hav	G VASUDEVAN NAIR	24-8-68
---------	-----	------------------	---------

1205502	Hav	SULTAN SINGH	6-9-68
---------	-----	--------------	--------

1105375	Hav	R V CHANDRAN	30-9-68
---------	-----	--------------	---------

2916998	Hav	HATHI SINGH	13-9-68
---------	-----	-------------	---------

2531125	Hav	C A DANIEL	27-7-68
---------	-----	------------	---------

1108242	Hav	APPAVOO NAINAR	8-6-68
---------	-----	----------------	--------

1104218	Hav Clk	INDAR SINGH	13-9-68
---------	---------	-------------	---------

9050745	Hav Clk	DARYAO SINGH	28-9-68
---------	---------	--------------	---------

1109972	Hav	SEWA SINGH	30-9-68
---------	-----	------------	---------

1124577	Hav	AMAR SINGH	18-9-68
---------	-----	------------	---------

9056278	Hav	HARI RAM	24-7-68
---------	-----	----------	---------

1106454	Hav	P NARAYANAN NAIR	8-12-68
---------	-----	------------------	---------

1124424	Hav	HAZARA SINGH	10-8-62
---------	-----	--------------	---------

1206488	Hav	KALI CHARAN	14-11-68
---------	-----	-------------	----------

1206694	Hav	GANPAT SINGH	29-9-68
---------	-----	--------------	---------

1202010	Hav	SANTOKH SINGH	7-8-68
---------	-----	---------------	--------

1109498	Hav	GORAVALU	8-7-68
---------	-----	----------	--------

1128073	Hav Cook	SANKARAN	11-9-68
---------	----------	----------	---------

1110019	Hav	NC THIMMIAH	6-10-68
---------	-----	-------------	---------

1206446	Hav	RAM SINGH	7-8-68
---------	-----	-----------	--------

1122886	Hav	K G SIMON	15-8-68
---------	-----	-----------	---------

1204180	Hav	SARMUKH SINGH	26-7-68
---------	-----	---------------	---------

1205337	Hav	AMARJIT SINGH	10-10-68
---------	-----	---------------	----------

2916544	Hav	KHEM SINGH	10-11-68
---------	-----	------------	----------

MADRAS ENGINEER GROUP

1316847	Hav	B ABDUL RAHIMAN	.	.	.	18-8-68
1317091	Hav	MURTUZA SHAREEF	.	.	.	18-8-68
1317136	Hav	GOVINDASAMY	.	.	.	24-7-68
1317329	Hav	NARAYANAN	.	.	.	2-8-68
1317324	Hav	M MUNISAMY	.	.	.	12-8-68
1316781	Hav	SUNDARAMOORTHY	.	.	.	12-10-68
1316846	Hav	LAZAR	.	.	.	16-8-68
1316579	Hav	ALEXANDER	.	.	.	20-7-68
1316511	Hav	RAJAMANICKAM	.	.	.	6-6-68
1316956	Hav	ANNAMALAI	.	.	.	17-8-68
1316432	Hav	M SUNDERA RAJU	.	.	.	28-8-68
1316939	Hav	KUPPUSAMY	.	.	.	24-7-68p
1316686	Hav	LAKSHMANAN	.	.	.	31-7-68
1304250	Hav	SAT NARAIN	.	.	.	14-8-68
1317957	Hav	K GOPAL	.	.	.	13-8-68
1304884	Hav	SARDAR SINGH	.	.	.	4-8-68
1317067	Hav	V MUNISWAMY	.	.	.	31-7-68
1317345	Hav	MD GOUSKHAN	.	.	.	22-7-68
1316472	Hav	THANGA RAJU	.	.	.	24-6-68
1316714	Hav	MUNISAMY	.	.	.	21-6-68
1317073	Hav	MUNISAMY	.	.	.	15-6-68
1315359	Hav	MD AUZAM	.	.	.	24-9-68
1317204	Hav	VISWANATAN	.	.	.	14-9-68

BENGAL ENGINEER GROUP

1407401	Hav	LACHHMAN SINGH	.	.	.	23-12-68
1412979	Hav	RAM BRIKSH SINGH	.	.	.	13-12-68
1413014	Hav	BHAG SINGH	.	.	.	3-1-69

BOMBAY ENGINEER GROUP

1505078	Hav	NIWRUTI MAHADIK	.	.	.	1-8-68
1505340	Hav	MARUTI SAWANT	.	.	.	15-8-68
1509179	Hav	NIKKA SINGH	.	.	.	15-8-68
1551447	Hav	BHIM SINGH	.	.	.	15-8-68
1507542	Hav	NAMDEO CHAVAN	.	.	.	15-8-68
1504580 ¹	Hav	BHARGAO SAWANT	.	.	.	15-8-68
1504827	Hav	SHANKAR MORE	.	.	.	6-8-68
1505138	Hav	VITHAL RAO KALE	.	.	.	15-8-68
1505310	Hav	SAKHARAM KADAM	.	.	.	2 3-9-68
1505139	Hav	NIRMAL SINGH	.	.	.	15-8-68
1505727	Hav	DARBARA SINGH	.	.	.	15-8-68
1505756	Hav	SHANKAR POWAR	.	.	.	15-8-68
1507850	Hav	BHAGWAN POJ	.	.	.	15-8-68
1505944	Hav	TARLOK SINGH	.	.	.	15-8-68
1505261	Hav	ANANTA KAMTHE	.	.	.	15-8-68

BOMBAY ENGINEER GROUP —Contd.

1505520	Hav	THAKAR SINGH	15-8-68
1505145	Hav	PRITAM SINGH	3-1-68
1505180	Hav	BAPU JAGDALE	27-11-67
1505970	Hav	ATMARAM MANE	28-12-67
1505927	Hav	MEHAR SINGH	24-1-68
1507811	Hav	LAXMAN DESHMUKH	18-9-68
1506457	Hav	PANDURAN BHOSLE	27-9-68
1506060	Hav	HARI BHOSLE	30-9-68
1504553	Hav	BAKHTAWAR SINGH	9-1-69
1506720	Hav	SHRIDHAR RANE	30-10-68
1502092	Hav	DALIP SINGH	6-10-68
1504460	Hav	PARTAB SINGH	8-8-68
1551281	Hav Clk	ISHWAR CHANDRA CHAKRAVORTHY	12-5-68
1504548	Hav	CHANAN SINGH	30-9-68

CORPS OF SIGNALS

6250077	Hav	MOTA SINGH	24-10-68
6274811	Hav	DHARAM SINGH	25-8-68
6247545	Hav	GURMUKH SINGH	14-7-68
6248561	Hav	NARAYANAN	7-12-68
6248226	Hav	DHANI RAM	13-10-68
6248960	Hav	DIAL SINGH	17-4-68
6250683	Hav	K RAGHAVAN	10-10-68
6253403	Hav	P NEELAKANTAN NAIR	1-11-68
6254767	Hav	K J GEORGE	29-9-68
6249085	Hav	BABU SINGH	24-6-68
6255255	Hav	KARNAIL SINGH	15-7-68
6245675	Hav	P GOPALAN NAIR	2-11-68
6253476	Hav	K V THOMAS	7-9-68
6248566	Hav	P RAMA CHANDRA MENON	4-9-68
6250721	Hav	JAGIR SINGH	3-11-68
6246516	Hav	JAISI RAM	28-9-68
6245666	Hav	P M GOVINDAN NAMBIAR	16-8-68
6244014	Hav	K A APPUNNI NAIR	7-11-68
6238487	Hav	MAHAN SINGH	3-11-68
6253547	Hav	M A KRISHNAN KUTTY PANICKAR	1-9-68
6239887	Hav	DANA PAUL	23-9-68
6247546	Hav	ANTHONY	13-11-68
6249536	Hav	M PONNURANGAM	24-11-68
6248242	Hav	THOMAS	30-9-68
6248023	Hav	KM RAGHAVAN NAIR	31-10-68
6248303	Hav	KRISHNA SAMI	11-8-68
3934905	Hav	JAGDEV DATT	8-12-68
6248669	Hav	K KUTTY RAMAN NAIR	24-8-68
6243615	Hav	B K SANTHA NAIK	17-6-68
6244520	Hav	ANANT RAM	19-10-68
6251404	Hav	ATMA SINGH	25-10-68
6245833	Hav	K KARUNAKARAN	30-10-68
6246635	Hav	CHIRANJI LAL	30-10-68
6244467	Hav	U DEVASIKHAMANY	22-8-68

BRIGADE OF GUARDS

2931746	Hav	HAR DATT SINGH	16-10-68
5605511	Hav	BALBAHADUR PUN	24-11-68
5229581	Hav	SHIV CHARAN GURUNG	1-1-69
5605456	Hav	DHARAM BAHADUR GURUNG	4-11-68
3531484	Hav	KHAZANA	2-12-68
2430382	Hav	NAND SINGH	25-7-68

THE PARACHUTE REGIMENT

2730350	Hav	BABURAO SAEL	5-8-68
2730168	Hav	SAMBHAJI PATNE	28-4-68
2730111	Hav	TUKARAM SAKPAL	17-3-68

PUNJAB REGIMENT

2510420	Hav	PIARA LAL	4-12-68
2509022	Hav Cook	RAM SINGH	24-11-68
2508454	Hav	BAKHTAWAR SINGH	1-10-68
2508694	Hav	KALWANT SINGH	21-10-68

MADRAS REGIMENT

2540768	Hav	SANKARAN NAIR	24-8-68
2535064	Hav Cook	GOVINDAN	8-7-68

THE GRENADIERS

13405577	Hav Ck	RAM NATH SETHI	30-7-68
1019949	Hav	AKHEY SINGH	17-10-68
13406274	Hav	BRIJLAL SINGH	24-7-68
2630856	Hav	HARI SINGH	24-5-68
1019889	Hav	BHANWAR SINGH	5-7-68
2634658	Hav	LAL SINGH	1-7-68

MARATHA LIGHT INFANTRY

1109562	Hav Ck	AMRUTRAO PANSARE	15-10-68
2734952	Hav	RAM SINGH	21-8-68
2735802	Hav	GULAM RASUL	29-11-68

RAJPUTANA RIFLES

2830990	Hav	SHEO RAJ SINGH	17-4-68
2831228	Hav	PHUL SINGH	5-8-68
2914347	Hav	AMAR SINGH	30-5-68
2830975	Hav	CHANDGI RAM	4-4-68
2914525	Hav	DAYAL SINGH	16-10-68
2831278	Hav	GANPAT RAM	4-9-68
2914360	Hav Cook	KESHAR	3-8-68
2831239	Hav	NANDU SINGH	23-8-68
2831212	Hav	MANPHOOL	28-7-68

RAJPUT REGIMENT

2915244	Hav	KISHAN SINGH	11-10-68
2915264	Hav	PADAM SINGH	19-12-68
2915229	Hav	DALEL SINGH	12-9-68

JAT REGIMENT

3131744	Hav	LEKHI RAM	26-12-68
3132437	Hav	KARAN SINGH	10-11-68

SIKH REGIMENT

3830292	Hav	GURMAIL SINGH.	5-9-68
3030572	Hav	SARDAR SINGH	29-7-68
3729222	Hav	KARTAR SINGH	7-3-68
3729410	Hav	GURCHARAN SINGH	5-8-68
3331115	Hav	BUDH SINGH	31-7-68
3333694	Hav Cook	TEJA SINGH	13-10-68
3331246	Hav	GURMIT SINGH	2-10-68
3830316	Hav	BHAN SINGH	25-8-68
3532297	Hav	ISHAR SINGH	17-7-68
3331187	Hav	BAKSHISH SINGH	24-9-68

SIKH LIGHT INFANTRY

4423665	Hav Clk	GURDEV SINGH	13-10-68
2509402	Hav	BALWANT SINGH	31-10-68
4429747	Hav	PIARA SINGH	16-12-68

DOGRA REGIMENT

3929662	Hav	JAGAT RAM	9-11-68
3931614	Hav	DURGA DASS	7-6-68
3431717	Hav	BHARTARI RAM	11-2-68
3831127	Hav	GOVIND RAM	1-3-68
3531692	Hav	PARS RAM	20-9-68
3431984	Hav	RAMAL SINGH	11-4-68
3432223	Hav	DHARAM SINGH	18-7-68
3432350	Hav	DUNI CHAND	13-7-68
3432243	Hav	DHARAM SINGH	20-6-68

GARHWAL RIFLES

4028866	Hav	PADAM SINGH NEGI	11-9-68
4031251	Hav	GIANA SINGH PUNDIR	27-8-68
4029380	Hav	JIT SINGH RAWAT	7-11-68
4029375	Hav	RAGHUBIR SINGH BISHT	5-11-68

KUMAON REGIMENT

4138103	Hav Clk	SHIV SINGH	19-8-68
4130511	Hav	RAM SINGH	1-9-68
4228208	Hav Clk	NARESH CHANDER SINGH	29-4-68
4136999	Hav Clk	BHOPAL SINGH	19-4-68
4133537	Hav Clk	HARISH CHANDER	16-12-68
2939969	Hav	BACHE SINGH	29-10-68
2939912	Hav Cook	CHANDAN PRASAD	1-7-68

KUMAON REGIMENT—Contd

4131728	Hav	TEJ SINGH	15-12-68
7545304	Hav Clk	INDRA DEO SINGH	19-8-68
4129717	Hav Clk	JAGAT SINGH	11-5-68
4129619	Hav Clk	RAI SINGH	29-4-68
4128976	Hav Clk	UDAE RAM	29-2-68
2940307	Hav	BALWANT SINGH	19-4-68
ASSAM REGIMENT			
4328538	Hav	KAMAWIA	28-8-68
4330063	Hav	JAINARAYAN PRADHAN	25-6-68
4330067	Hav	BOMESWAR DEURI	22-11-68
BIHAR REGIMENT			
4230706	Hav	PHILIP TOPNO	3-11-68
MAHAR REGIMENT			
3928888	Hav	MEHENG RAM	1-9-68
4233443	Hav Clk	DALIP SINGH	22-12-68
9020694	Hav	KARTAR SINGH	16-12-68
4530186	Hav	YESWANT KAMBLE	5-8-68
4530062	Hav	MARUTI LINGAPGOL	4-10-68
4529928	Hav	CHOKHA THORAT	4-10-68
4132143	Hav	KHUSAL SINGH	6-10-68
4138539	Hav	MANI RAM	5-8-68
JAMMU AND KASHMIR RIFLES			
13710631	Hav	ROSHAN LAL	3-12-68
7992777	Hav Clk	P P ABRAHAM	13-8-68
13713285	Hav	BALWANT SINGH	17-6-68
13711638	Hav	BRAHMAN SINGH	31-3-68
13713930	Hav	WAKIL SINGH	19-6-68
13714596	Hav (Cook)	MAGHAR	27-1-68
13714825	Hav	YOG RAJ	26-4-68
1 GORKHA RIFLES			
5029224	Hav	DALBAHADUR THAPA	29-12-68
3 GORKHA RIFLES			
5230184	Hav Clk	GOVIND SING THAPA	14-10-68
5229540	Hav	TEK BAHADUR PUN	24-11-68
5229386	Hav	SIM BAHADUR GURUNG	30-10-68
4 GORKHA RIFLES			
5329519	Hav Clk	KISHAN SING GURUNG	1-11-68
5329838	Hav	BAL BAHADUR GURUNG	10-1-69
8 GORKHA RIFLES			
5128594	Hav	GAMARSING GURUNG	30-3-68
5128989	Hav	BALBAHADUR ALE	29-8-68
11 GORKHA RIFLES			
5629386	Hav	CHANDRABAHADUR RAI	16-12-68
5629257	Hav	BIRBAHADUR RAI	15-12-68
ARMY SERVICE CORPS (STAFF DUTIES)			
6629931	Hav Clk GD(SD)	GURDIAL SINGH	10-11-68

ARMY SERVICE CORPS (SUPPLY)

7128386	Hav Clk GD	P GOPALAKRISHNAN NAIR	23-10-68
6628298	Hav Clk GD	MAKHAN LAL DAS	17-10-68
6351356	Hav Clk (S)	VN NARAYANAN	12-9-68

ARMY SERVICE CORPS (MECHANICAL TRANSPORT)

6555386	Hav	S. NALLAIAH	1-9-68
6557745	Hav	N. KESAVAN NAIR	31-10-68
6550715	Hav	S. JOSEPH	23-9-68
6549317	Hav	RAN SINGH	24-8-68
6554385	Hav	SHEO NARAIN	9-12-68
6554214	Hav	R MUNIYANDI	6-11-68
6549704	Hav	SIA RAM	18-10-68
6555036	Hav	PS REDDAPPA	24-8-68
6550729	Hav	ANNAMALAI	13-9-68
6557698	Hav	R. RAMANJALU	24-10-68
6551964	Hav	RAM CHAND	25-10-68
6549616	Hav	SUBBIAH MUDALIAR	25-11-68
7371465	Hav	HARI KRISHNAN	8-12-68
6549665	Hav	RAM SAKAL	2-11-68
6554217	Hav	HAJI V EMBICHI	27-10-68
6549810	Hav	PAPU	28-11-68
6550702	Hav	MASTAN SHERIFF	9-12-68
6563507	Hav	KHEMA NAND	27-11-68
6548741	Hav	SIVALINGAM	25-7-68
6555263	Hav	VELMURUGESAN	27-10-68
6555308	Hav	VELU	29-8-68

ARMY MEDICAL CORPS

6771905	Hav Clk (H)	KUNWAR SINGH	25-8-68
6783674	CHM NA	DHANWANT SINGH	27-10-68
6793639	Hav NA	CHINTAMANI THAPLIYAR	8-1-69
6793172	Hav Clk GD	CHANDRA KISHORE	1-8-68
6793205	Hav Clk GD	SHIV CHARAN LAL	16-3-69
6792826	Hav Clk GD	BALACHANDRA NILKANT PANDIT	4-7-68
6795076	Hav STA	GOBIND SINGH	6-10-68
6794895	HAV NA	HARI DATT	25-8-68
6793741	HAV ORA	AV MATHEW	19-1-68
6792780	Hav Clk GD	GD JOSHI	1-4-68
6792637	Hav Clk	MS CHELLIAH	27-12-68
6795467	BHM AA	SHIV RAM	17-7-68
6548040	Hav DVR (MT)	BIRBAL	27-12-68
6771171	Hav NA	RAMAN LALL	7-11-68
6745870	Hav NA	V GOPI NATHAN NAIR	29-7-68
6737671	Hav NA	JOHN DEEN	26-10-68
6746983	Hav STA	K CHELLIAH	26-11-68
6729611	Hav Clk GD	JOHN PALU KURI	17-7-68
6794189	CHM NA	SACHINDRA MOHON BANERJI	13-10-68
6795066	CHM NA	DEPUTI RAM	15-9-68
6792597	Hav ORA	NAGESH BANGLE	19-7-68
6794713	Hav Clk GD	NILRATAN MAZUMDAR	4-11-68
6792978	Hav Clk GD	DINA NATH	4-11-68

ARMY ORDNANCE CORPS

6847497	Hav	BALDEO SINGH	10-5-68
6846427	Hav	DHARAM PAL	29-7-68
6846601	Hav	AJIT KUMAR DASS	23-8-68

CORPS OF ELECTRICAL & MECHANICAL ENGINEERS

7014905	Hav	PHUMMAN SINGH	1-9-68
7015857	Hav	LAXUMAN KAWATANKAR	3-3-68
7014991	Hav	STEPHAN KACHCHAP	5-9-68
7028888	Hav	D CARNILIUS	14-2-68
7020592	Hav	PARDIP RAM	19-5-68
7000432	Hav	SALIG RAM	23-11-68
7017337	Hav	CHHATU	19-5-68
7032336	Hav	PG DASS	1-12-68
6987575	Hav	VINAYAK SAMANT	12-12-68
6996026	Hav	V ERRAPPA	26-6-68
7005018	Hav	KUNJUNNY NAIR	20-11-68
6985289	Hav	JAI RAM	7-10-68
8543526	Hav	K RAJASEKARAN	25-8-68
7014879	Hav	HARI DEV	18-10-68
7015957	Hav	CHATAR SINGH	1-8-68
7038782	Hav	AJAIB SINGH	26-7-68
7015915	Hav	AMIR CHAND	24-7-68
7024208	Hav	G SANKARA RAO	28-3-68
7015961	Hav	B SHAIK ABDUL RAZAK	20-2-68
6994656	Hav	TH STEPHENSON	6-11-68
7016535	Hav	GEORGE HARRINGTON CHANDRA	10-9-68
7015569	Hav	DIVAGARA PANICKER	22-9-68
7000257	Hav	T V GOVINDAN NAIR	5-12-68
7006950	Hav	CHABI LAL VISHWAKARMA	3-3-68
6981488	Hav	RAM LAXMAN JAGDALE	11-7-68
6997662	Hav	A GOPALAN	23-11-68
8508301	Hav	CHINT RAM	21-11-68
7037749	Hav	DHARAM SINGH	19-11-68
8653041	Hav	CHANDRA BHUSHAN	27-10-68
7014799	Hav	DARBARA SINGH	24-10-68
7003678	Hav	D A DATTA	6-10-68

CORPS OF MILITARY POLICE

6555764	Hav (MP)	PURAN SINGH	17-7-68
2630357	Hav (MP)	RAN SINGH	18-7-68
3532316	Hav (MP)	DARSHAN SINGH	4-11-68

REMOUNT AND VETERINARY CORPS

1018318	Dfr Dsr	PIARA SINGH	12-1-69
---------	---------	---------------------	---------

INTELLIGENCE CORPS

7428518	Hav	BHAGAT RAM	13-8-68
7428876	Hav	NAND LAL	16-9-68
7429019	Hav	JOGENDAR SINGH NEGI	16-9-68

ARMY PHYSICAL TRAINING CORPS

5028702	BHM	HARI MARDE RANA	26-12-68
---------	-----	-----------------	----------

PIONEER CORPS

7993104	Hav GD	MUTHU SAMY	18-2-68
7962386	Hav GD	KRISHNAN	16-8-68
7991217	Hav GD	KK KRISHNAN	16-8-68
7973152	Hav GD	SUBRAMANIAN	16-6-68
7993312	Hav GD	M KANARAN NAIR	21-8-68
7993314	Hav GD	K CHANGAN	21-8-68
7959686	Hav GD	K GOPALAN	21-8-68
7993691	Hav GD	SUKH LAL	21-8-68
7992800	Hav GD	BANWARI	18-8-68
7993021	Hav GD	PREM NATH	16-8-68
7993316	Hav GD	PK ACHUTHAN	16-8-68

RECRUITING ORGANISATION

7637455	Hav Ck	BAL BAHADUR GURUNG	19-9-68
---------	--------	--------------------	---------

(NAVY BRANCH)

New Delhi, the 26th January 1969

No. 4.—The following Chief Petty Officers are granted Honorary Commissions in the Indian Navy with effect from the 26th Jan. 1969:—

To be Honorary Sub-Lieutenants (Special Duties) on the Retired List

Kanthimathi Nathan	Chief Mechanician, No. 12430
Mustafa Ammanur Bakker	Chief Mechanician, No. 18394
Titus Lobo	Chief Ordnance Artificer, No. 6329
Makhan Lal Sen	Chief Electrician (Power), No. 18711
K. C. Balakrishnan Nair	Chief Mechanician, No. 14300
Abdulla	Chief Petty Officer Medical-Assistant, No. 18994
Brahm Dutt Sharma	Chief Electrical Artificer (Power) No. 19251
T.K. Gopalan Nambiar	Chief Mechanician, No. 9947
Paul Anchan	Chief Engine Room Artificer No. 31838
Kuriyan Plammotil	Chief Petty Officer Medical Assistant, No. 13654

S. P. SRINIVASAN, Jt. Secy.

(AIR BRANCH)

New Delhi, the 26th January 1969

No. 5.—The undermentioned Honorary Flying Officers are promoted Honorary Flight Lieutenants w.e.f. 26th Jan. 1969 under A.F.I. 20 of 1960, as amended.

10516 MWO (Hony. Fg. Offr.)	Gabriel Patrick, Fit. I.
10113 MWO (Hony. Fg. Offr.)	Shripad Vishnu Basarker, Elect. I.

No. 6.—The undermentioned MWOs/WOs are granted Honorary Commission in the rank of Flying Officer w.e.f. 26th Jan 1969 under A.F.I. 20 of 1960, as amended.

19216	WO	Amar Nath, Fit I.
10284	MWO	George, C. M., Eq. Asst.
31154	MWO	Rajagopalan, T. N., Ed. Instr.
17034	MWO	Dubey, D. P., Inst. Rep. I.
11924	MWO	Sebastian, P. J., Elect. I.

No. 7.—The undermentioned are granted the Honorary Rank of Flying Officer w.e.f. 26th Jan. 1969 on the retired list.

11405	MWO	Padmanabhan, K. M.	F.M.T.	(Retd.)
22144	MWO	Sengupta, R. N.	Clk. G.D.	(Retd.)
38804	MWO	Jail, D. B.	Ed. Instr.	(Retd.)
11692	MWO	Padmanabha Pillai, K.	Clk. G.D.	(Retd.)
42562	MWO	Ganguly, B. P.	Ed. Instr.	(Retd.)
22946	MWO	Hawkins, D. D.	Clk. G. D.	(Retd.)
48157	MWO	Oommen, K. K.	Clk. G.D.	(Retd.)
31420	MWO	Chanda, N. K.	Ed. Instr.	(Retd.)
10586	MWO	Bapat, P. V.	WOM I	(Retd.)
10324	MWO	Gupta, R. C.	A.C.H.G.D.	(Retd.)
40802	MWO	Duraisamy, G. D.	Ed. Instr.	(Retd.)
11030	MWO	Vishvanadham, V.	WOM I	(Retd.)
37581	MWO	David, B.	Ed. Instr.	(Retd.)
13415	MWO	Mela Singh	M.T.D.	(Retd.)
40657	MWO	Sebastian, P. J.	Ed. Instr.	(Retd.)
21045	MWO	Ambrose, V. S.	Clk. G.D.	(Retd.)
44112	MWO	Verghese, T. G.	Clk. G.D.	(Retd.)
39658	MWO	Kashyap, R. N.	Clk. G.D.	(Retd.)
29034	MWO	Muniswamy Pillai, M.	Clk. G.D.	(Retd.)

M. P. CARRIAPPA, Jt. Secy,

रक्षा मंत्रालय

(यूनियन सेना विभाग)

नई दिल्ली, 26 जनवरी, 1969

सं० 1 :—तारीख 26 जनवरी, 1969 को भारत स्थित सेना विनियमावली 1962 के नियम 178 अधीन राष्ट्रपति निम्नलिखित जे सी ओ को 26 जनवरी, 1969 से अवैतनिक कमिशन प्रदान करते हैं :—

अवैतनिक कैप्टन के रैंक में

20 लांसरस

49915—जे सी रिसालदार मेजर और अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट गुरबक्स सिंह

तोपखाना रेजिमेन्ट

जे सी—198	सूबेदार मेजर और अवेतनिक लेफ्टिनेन्ट वर्शन सिंह
57162—जे सी	सूबेदार मेजर और अवेतनिक लेफ्टिनेन्ट नन्द लाल
37879—जे सी	सूबेदार मेजर और अवेतनिक लेफ्टिनेन्ट ए० गनानी
जे सी—3997	सूबेदार मेजर और अवेतनिक लेफ्टिनेन्ट बेअन्त सिंह
29576—जे सी	सूबेदार मेजर और अवेतनिक लेफ्टिनेन्ट रंग राव
जे सी—35	सूबेदार मेजर और अवेतनिक लेफ्टिनेन्ट गोपाल कृष्णान नायर

मद्रास इंजीनियर ग्रुप

33676—जे सी	सूबेदार मेजर और अवेतनिक लेफ्टिनेन्ट अम्पादुराय
49416—जे सी	सूबेदार मेजर और अवेतनिक लेफ्टिनेन्ट वासुदेवन
49241—जे सी	सूबेदार मेजर और अवेतनिक लेफ्टिनेन्ट शोख मीरा

बंगाल इंजीनियर ग्रुप

जे सी—597	सूबेदार मेजर और अवेतनिक लेफ्टिनेन्ट लाल मनी
जे सी—592	सूबेदार मेजर और अवेतनिक लेफ्टिनेन्ट शोभो बरन मिश्रा

बम्बई इंजीनियर ग्रुप

जे सी—764	सूबेदार मेजर और अवेतनिक लेफ्टिनेन्ट सखाराम खांडगले
जे सी—59594	सूबेदार मेजर और अवेतनिक लेफ्टिनेन्ट राघु पवार

सिग्नल कोर

33723—जे सी	सूबेदार मेजर और अवेतनिक लेफ्टिनेन्ट टी० आर० में विलयमस
43311—जे सी	सूबेदार मेजर और अवेतनिक लेफ्टिनेन्ट मारासुर चन्द्रशेखरन
50754—जे सी	सूबेदार मेजर और अवेतनिक लेफ्टिनेन्ट शेकसिलर
57556—जे सी	सूबेदार मेजर और अवेतनिक लेफ्टिनेन्ट पी० एन० कुमारन नायर
58642—जे सी	सूबेदार मेजर और अवेतनिक लेफ्टिनेन्ट जासीर सिंह
57554—जे सी	सूबेदार मेजर और अवेतनिक लेफ्टिनेन्ट अमोद सिंह

गारद ब्रिगेड

46347—जे सी	सूबेदार मेजर और अवेतनिक लेफ्टिनेन्ट पी० बी० नारयण स्वामी
जे सी—344	सूबेदार मेजर और अवेतनिक लेफ्टिनेन्ट झाबर राम

पैराशूट रेजिमेन्ट

जे सी—5305	सूबेदार मेजर और अवेतनिक लेफ्टिनेन्ट बलबीर सिंह, एम एम, एम सी
जे सी—7934	सूबेदार मेजर और अवेतनिक लेफ्टिनेन्ट पनधारी नाथ रेहटल
जे सी—6828	सूबेदार मेजर और अवेतनिक लेफ्टिनेन्ट कुलदीप सिंह

मद्रास रेजिमेन्ट

जे सी—31835	सूबेदार और अवेतनिक लेफ्टिनेन्ट पी० कृष्णन नायर
-------------	--

पंजाब रेजिमेन्ट

जे सी—4972	सूबेदार मेजर और अवेतनिक लेफ्टिनेन्ट पिरखी सिंह, एस सी
------------	---

ग्रैनेडियर्स

जे सी-1540 सूबेदार मेजर और अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट ताजू खां
56677-जे सी सूबेदार मेजर और अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट दलीप सिंह

मराठा लाईट इन्फैन्ट्री

जे सी-5644 सूबेदार मेजर और अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट विगम्बर कसीत

राजपूत रेजिमेन्ट

जे सी-34818 सूबेदार मेजर और अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट नेमालसिंह

जाट रेजिमेन्ट

जे सी-1980 सूबेदार मेजर और अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट रतधीर सिंह

सिख रेजिमेन्ट

जे सी-6415 सूबेदार और अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट करम सिंह, पी बी सी, एम एम

सिख लाईट इन्फैन्ट्री

53948-जे सी सूबेदार मेजर और अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट प्रोतमसिंह

डोगरा रेजिमेन्ट

56687-जे सी सूबेदार मेजर और अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट सूरज दत्त

गढ़वाल राईफल्स

जे सी-2272 सूबेदार मेजर और अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट बलबहादुर सिंह रावत

जे सी-2275 सूबेदार मेजर और अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट चन्दन सिंह रावत

कुमाऊं रेजिमेन्ट

जे सी-2336 सूबेदार मेजर और अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट लछम सिंह

जे सी-2351 सूबेदार मेजर और अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट भगवती प्रसाद

असाम रेजिमेन्ट

61372-जे सी सूबेदार मेजर और अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट मेनो हुजाई कामारी

60217-जे सी सूबेदार मेजर और अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट बालाराम बरुआ

बिहार रेजिमेन्ट

61926-जे सी सूबेदार मेजर और अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट बंसराजसिंह

महार रेजिमेन्ट

46475-जे सी सूबेदार मेजर और अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट मारुती कम्बले

जे सी-33407 सूबेदार मेजर और अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट अनन्त राम

जम्मू और कश्मीर राईफल्स

जे सी 04865 सूबेदार मेजर और अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट भगवान सिंह

जे सी-9330 सूबेदार मेजर और अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट प्रवीन सिंह

जे सी-8337 सूबेदार मेजर और अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट कबला सिंह

जे सो-8 378 सूबेदार मेजर श्रीर अवेतनिक लेफ्टिनेन्ट उत्तम सिंह

जे सो-8 331 सूबेदार मेजर श्रीर अवेतनिक लेफ्टिनेन्ट सवन सिंह

4 गोरखा राइफल्स

जे सो-2662 सूबेदार मेजर श्रीर अवेतनिक लेफ्टिनेन्ट टेकबहादुर गुरुंग, एस सी

8 गोरखा राइफल्स

जे सो-6058 सूबेदार मेजर श्रीर अवेतनिक लेफ्टिनेन्ट सतलाल पुन, के सी

जे सो-2722 सूबेदार मेजर श्रीर अवेतनिक लेफ्टिनेन्ट लाल बहादुर पुन

11 गोरखा राइफल्स

जे सो-4641 सूबेदार मेजर श्रीर अवेतनिक लेफ्टिनेन्ट गनजू लमा, वी सी, एम एस

सैनिक सेवा कोर (सप्लाय)

29273-जे सो सूबेदार मेजर क्लर्क (स०) श्रीर अवेतनिक लेफ्टिनेन्ट एम० आर० रेड्डी

29303-जे सो सूबेदार मेजर क्लर्क (स०) श्रीर अवेतनिक लेफ्टिनेन्ट बी० धनमुगम

29042-जे सो सूबेदार क्लर्क (स०) श्रीर अवेतनिक लेफ्टिनेन्ट पी० एस० तासकर

जे सो-2796 सूबेदार क्लर्क (स०) श्रीर अवेतनिक लेफ्टिनेन्ट वाशदेव सिंह

29278-जे सो सूबेदार मेजर क्लर्क (स०) श्रीर अवेतनिक लेफ्टिनेन्ट के० एन० बरथावल

29240-जे सो सूबेदार मेजर क्लर्क (स०) श्रीर अवेतनिक लेफ्टिनेन्ट के० एम० समूल

सैनिक सेवा कोर (एस डी)

42679-जे सो सूबेदार मेजर क्लर्क (सी) (एस डी) श्रीर अवेतनिक लेफ्टिनेन्ट राजा राम मिश्रा

सैनिक सेवा कोर (मोटर परिवहन)

20461-जे सी सूबेदार मेजर श्रीर अवेतनिक लेफ्टिनेन्ट खजान सिंह

सैनिक आर्डनेन्स कोर

32466-जे सो सूबेदार मेजर श्रीर अवेतनिक लेफ्टिनेन्ट अमैर नाथ

35617-जे सो सूबेदार मेजर श्रीर अवेतनिक लेफ्टिनेन्ट शिवा हरख सिंह

32514-जे सो सूबेदार मेजर श्रीर अवेतनिक लेफ्टिनेन्ट जगदीश प्रसाद निगर

32519-जे सो सूबेदार मेजर श्रीर अवेतनिक लेफ्टिनेन्ट ओम प्रकाश

35621-जे सो सूबेदार मेजर श्रीर अवेतनिक लेफ्टिनेन्ट डी० आर० डेनीस

बिजली और मशीनी इंजीनियर कोर

56026-जे पी सूबेदार मेजर श्रीर अवेतनिक लेफ्टिनेन्ट रतन सिंह

33932-जे सी सूबेदार मेजर श्रीर अवेतनिक लेफ्टिनेन्ट इन्द्र प्रकाश

47579-जे सी सूबेदार मेजर श्रीर अवेतनिक लेफ्टिनेन्ट जोगीबंदर सिंह

58743-जे सो सूबेदार मेजर श्रीर अवेतनिक लेफ्टिनेन्ट पी० एम० गोविन्दन जायर

जे सी-3586	सूबेदार मेजर और अवेतनिक लेफ्टिनेन्ट भक्ता रत्नजन दास
44948-जे सी	सूबेदार मेजर और अवेतनिक लेफ्टिनेन्ट बरकत राम कुमार
51047-जे सी	सूबेदार और अवेतनिक लेफ्टिनेन्ट मोहन सिंह
40638-जे सी	सूबेदार मेजर और अवेतनिक लेफ्टिनेन्ट अमोलक राम

सैनिक शिक्षा कोर

60855-जे सी	सूबेदार मेजर और अवेतनिक लेफ्टिनेन्ट सम्पूर्ण सिंह
57394-जे सी	सूबेदार मेजर और अवेतनिक लेफ्टिनेन्ट गुरदास सिंह

पायनियर कोर

55328-जे सी	सूबेदार मेजर (जी डी) और अवेतनिक लेफ्टिनेन्ट पुत्रीयनाथन
56270-जे सी	सूबेदार मेजर (जी डी) और अवेतनिक लेफ्टिनेन्ट थोता राम

अवेतनिक लेफ्टिनेन्ट के रैंक में

14 होरस

जे सी-7959	रिसालदार मेजर रवबीर सिंह
------------	--------------------------

2 लांसरस

जे सी-6258	रिसालदार मेजर छतर सिंह
------------	------------------------

16 रिसाला

44506-जे सी	रिसालदार मेजर बी० सुब्बा राव
-------------	------------------------------

65 बक्तरबन्द रेजिमेन्ट

जे सी-8812	रिसालदार रघुबीर सिंह
------------	----------------------

63 रिसाला

49920-जे सी	रिसालदार मेजर तारा सिंह
-------------	-------------------------

62 रिसाला

55616-जे सी	रिसालदार मेजर सुखबीर सिंह
-------------	---------------------------

तोपखाना रेजिमेन्ट

59089-जे सी	सूबेदार मेजर इब्राहीम कुट्टी
जे सी-205	सूबेदार मेजर ज्ञान चन्द
जे सी-89	सूबेदार मेजर उमराव सिंह
जे सी-103	सूबेदार मेजर भाग सिंह
जे सी-201	सूबेदार मेजर हजारी
जे सी-4415	सूबेदार मेजर बी० पदमानाभा कुरूप

त.प.खाना रजिस्ट्रार-जारी

जे सी-5268	सूबेदार मेजर रिखी राम
जे सी-5219	सूबेदार मेजर महादेव सालवी
जे सी-255	सूबेदार मेजर इशवर सिंह, बीर चक्र
जे सी-122	सूबेदार मेजर सहदेवन
जे सी-257	सूबेदार मेजर जगजीत सिंह
जे सी-298	सूबेदार मेजर शंगारा सिंह
जे सी-228	सूबेदार मेजर पिरभु दयाल
जे सी-265	सूबेदार मेजर जरमेजा सिंह
57630-जे सी	सूबेदार मेजर ओम नारायणन
जे सी-125	सूबेदार मेजर पिछया
जे सी-297	सूबेदार बलबीर सिंह
जे सी-104	सूबेदार मेजर बी० सन्दाप्पन
जे सी-6282	सूबेदार कलकं प्रीतम सिंह
जे सी-235	सूबेदार मेजर भूर सिंह

मद्रा : इंजीनियर ग्रुप

33706-जे सी	सूबेदार मेजर पनोली कनारन अवीओवी
56996-जे सी	सूबेदार मेजर जे० जान
जे सी-931	सूबेदार मेजर बर्नार्डि फांसिस
58983-जे सी	सूबेदार मेजर एम० सी० आर० मुगम
53213-जे सी	सूबेदार मेजर वे.के.टेसन
51214-जे सी	सूबेदार मेजर थंगावेलू
45595-जे सी	सूबेदार मेजर रंगीनीडी सूर्यानारायणा
जे सी-865	सूबेदार मेजर परसुरमन
53620-जे सी	सूबेदार मेजर शंतमुथम
जे सी-7179	सूबेदार टी० करुणाकरन नम्बियर
जे सी-8638	सूबेदार एस० धर्मा दास

बंगाल इंजीनियर ग्रुप

जे सी-736	सूबेदार मेजर शशी धर
जे सी-916	सूबेदार मेजर परमेश्वरन
जे सी-850	सूबेदार मेजर नारायण नवाडकर
56921-जे सी	सूबेदार मेजर ओम प्रकाश
जे सी-721	सूबेदार मेजर ए० भ० विस्वानाथन
56925-जे सी	सूबेदार शर्मा सिंह
जे सी-9751	सूबेदार हाकिम सिंह
जे सी-10883	सूबेदार प्रीतम सिंह

बम्बई इंजीनियर ग्रुप

जे सी-798	सूबेदार मेजर बापु साहिब बाबर
जे सी-8917	सूबेदार ग्या बी अनपत
जे सी-6821	सूबेदार कलकं हरदयाल सिंह

सिगनाल कोर

34669—जं सी	सूबेदार मेजर ए० वी० कोलुन्दू
57478—जं सी	सूबेदार मेजर एम० छेल्लोया नलपन
36110—जं सी	सूबेदार मेजर ए० तिरुमलाई
जं सी—1065	सूबेदार मेजर प्रोतम सिंह
जं सी—988	सूबेदार मेजर इकबाल सिंह
जं सी—1032	सूबेदार मेजर प्रभ दयाल
32330—जं सी	सूबेदार मेजर हरदवारी लाल कौशल
50022—जं सी	सूबेदार मेजर एस० देवादनम
जं सी—1026	सूबेदार मेजर रोशन लाल
जं सी—1008	सूबेदार मेजर अछर सिंह
जं सी—4732	सूबेदार मेजर ए० गोविन्द
जं सी—1003	सूबेदार मेजर हंस राज
32404—जं सी	सूबेदार भगत राम
43916—जं सी	सूबेदार एम० जे० बेननेट
जं सी—959	सूबेदार सवर्ण सिंह
जं सी—6322	सूबेदार करम सिंह
जं सी—4726	सूबेदार मलागर सिंह
जं सी—1174	सूबेदार अमर सिंह राजपूत पथानिया
40398—जं सी	सूबेदार ए० चन्द्रा सेखर कैमल
जं सी—1079	सूबेदार के० एम० अब्राहम

गारद ब्रिगेड

जं सी—352	सूबेदार मेजर शेर सिंह
जं सी—8682	सूबेदार प्यारा सिंह
जं सी—3879	सूबेदार मुख राम
जं सी—11845	सूबेदार भोला राम

पैराशूट रेजिमेंट

जं सी—7939	सूबेदार मेजर तेजा सिंह
57454—जं सी	सूबेदार मेजर मकरन्द सिंह

अब्राज़ रेजिमेंट

जं सी—1318	सूबेदार के० बी० गोपालन
जं सी—4779	सूबेदार कृष्णन कुट्टी नायर
जं सी—4787	सूबेदार रमन थाप्पी
जं सी—1403	सूबेदार एम० एस० सुब्रामनियम
जं सी—10956	सूबेदार सी० के० थोमस
39751—जं सी	सूबेदार क्लर्क कुन्जुप्पी नायर
31498—जं सी	सूबेदार मेजर सोमा नाथन मुदलियर
28253—जं सी	सूबेदार मेजर एम० मथुसामी नायडू
जं सी—1354	सूबेदार मेजर के० पी० परमेश्वर मेनन

पञ्चाय रेजिमेन्ट

जे सी-5405	सूबेदार मेजर जय लाल
जे सी-4519	सूबेदार मेजर तीज चन्द
जे सी-4747	सूबेदार मेजर राम सिंह
जे सी-4524	सूबेदार मेजर रठपाल सिंह
जे सी-4421	सूबेदार मेजर मनोहर लाल
जे सी-5487	सूबेदार मेजर रेलू राम मङ्ग्याल
जे सी-1247	सूबेदार मेजर सूरत सिंह
जे सी-7393	सूबेदार विद्या दत्त
जे सी-15078	सूबेदार करम सिंह
जे सी-6574	सूबेदार कलक रवी दत्त शर्मा

प्रेमेश्वरियर्स

जे सी-1548	सूबेदार मेजर धर्म सिंह
जे सी-4589	सूबेदार मेजर परस राम
जे सी-7089	सूबेदार मेजर पूर्ण चन्द
जे सी-11689	सूबेदार मात्ती सिंह
जे सी-16782	सूबेदार ज्ञान सिंह
जे सी-13788	सूबेदार हरी राम
जे सी-11500	सूबेदार मेहर सिंह

मराठा लाइट इन्फेन्ट्री

57453-जे सी	सूबेदार मेजर अरमुत बिल्ले
जे सी-1671	सूबेदार मेजर मोरारराव शिडे
जे सी-1660	सूबेदार मेजर दिनकरराव शिडोले
जे सी-9538	सूबेदार हरी कदम, एम एम
जे सी-1670	सूबेदार जी० एम० सत्यानारायण
जे सी-6366	सूबेदार भगवन्त काळे

राजपूताना राइफल

जे सी-5258	सूबेदार मेजर नारायणा राम
जे सी-1769	सूबेदार मेजर सुख्यान राम
जे सी-1793	सूबेदार मेजर आनन्द सिंह
1930-जे सी	सूबेदार मेजर नरसिंग राम
जे सी-1803	सूबेदार मेजर लालू भा
जे सी-7804	सूबेदार बंसी सिंह
जे सी-8338	सूबेदार मेहर चन्द
जे सी-6379	सूबेदार श्री चन्द
जे सी-8680	सूबेदार भाग सिंह
जे सी-12014	सूबेदार दयाला राम
जे सी-15985	सूबेदार जैमल सिंह

राजपूत रेजिमेन्ट

जे सी-52187	सूबेदार मेजर विजय सिंह
जे सी-5922	सूबेदार मेजर राम चन्द्र सिंह
1898-जे सी	सूबेदार मेजर उमराव सिंह
2397-जे सी	सूबेदार मेजर मनमोहन सिंह
1868-जे सी	सूबेदार मेजर सोहन सिंह
जे सी-50371	सूबेदार मेजर शिव धन
जे सी-40451	सूबेदार मेजर ब्रजेन्द्र चन्द्रा राय
जे सी-34820	सूबेदार मेजर बृच्छपाल सिंह
1894-जे सी	सूबेदार मेजर खेत सिंह
जे सी-14127	सूबेदार गोविन्द सिंह
6383-जे सी	सूबेदार नहार सिंह
12416-जे सी	सूबेदार दशरथ सिंह
जे सी-15351	सूबेदार वासदेव सिंह
जे सी-14672	सूबेदार हमीर सिंह

जाट रेजिमेन्ट

जे सी-2015	सूबेदार मेजर कमतेर राम
जे सी-4810	सूबेदार जगे राम
जे सी-8642	सूबेदार केहर सिंह
जे सी-12065	सूबेदार मनभर
जे सी-14510	सूबेदार महार सिंह
जे सी-1988	सूबेदार मेजर इन्द्राज सिंह
58072-जे सी	सूबेदार मेजर नवल सिंह
जे सी-1964	सूबेदार मेजर रुकन सिंह
जे सी-1994	सूबेदार मेजर धर्म सिंह
जे सी-2013	सूबेदार मेजर सुबे सिंह

सिख रेजिमेन्ट

जे सी-5659	सूबेदार मेजर ज्ञान सिंह, बी सी
जे सी-6065	सूबेदार मेजर करम सिंह
जे सी-5927	सूबेदार मेजर मोहिन्दर सिंह
जे सी-9749	सूबेदार काबल सिंह
जे सी-8634	सूबेदार गुरचरन सिंह
जे सी-15138	सूबेदार मेहंगा सिंह
जे सी-15145	सूबेदार संसार सिंह
जे सी-11049	सूबेदार गुरमुख सिंह
जे सी-12404	सूबेदार सीहन सिंह
जे सी-14119	सूबेदार हरनाम सिंह

जे सी-13730	सूबेदार सोहन सिंह
जे सी-6416	सूबेदार मेहर सिंह
जे सी-8923	सूबेदार इशर सिंह
जे सी-12405	सूबेदार नन्व सिंह

सिख लाइट इन्फेन्ट्री

जे सी-2107	सूबेदार अमर सिंह
जे सी-2103	सूबेदार बन्ता सिंह
जे सी-2097	सूबेदार रतन सिंह
जे सी-6467	सूबेदार बखशीश सिंह
जे सी-7126	सूबेदार प्रीतम सिंह
जे सी-14412	सूबेदार कलक अवतार सिंह
56981-जे सी	सूबेदार मेजर बरयाम सिंह
जे सी-2096	सूबेदार मेजर प्रीतम सिंह

डोगरा रेजिमेन्ट

जे सी-4623	सूबेदार कनीया लाल
जे सी-8757	सूबेदार बाली राम
जे सी-5956	सूबेदार सीता राम
जे सी-8258	सूबेदार पंजाब सिंह
जे सी-6191	सूबेदार होशियार सिंह
जे सी-6170	सूबेदार सरदार सिंह
जे सी-5669	सूबेदार जगन नाथ
जे सी-6157	सूबेदार हरी सिंह
जे सी-8758	सूबेदार किशन सिंह
जे सी-25624	सूबेदार राम चन्द
जे सी-5266	सूबेदार राम लाल, एम एम
जे सी-11860	सूबेदार हरनाम सिंह
जे सी-6184	सूबेदार राम चन्द
जे सी-5957	सूबेदार उधम सिंह
जे सी-13077	सूबेदार इशर सिंह
जे सी-20426	सूबेदार बुलढु राम
जे सी-6177	सूबेदार मुन्शी राम
जे सी-9414	सूबेदार गौरी शंकर
जे सी-12124	सूबेदार कलक प्राकरम सिंह
जे सी-2187	सूबेदार मेजर जगदीश राय
जे सी-2209	सूबेदार मेजर भन्डारी, बी सी

गढ़वाल राइफल्स

जे सी-9193	सूबेदार मेजर कलक रन्जीत सिंह नेगी
	सूबेदार मेजर बिशन सिंह बिष्ट
	सूबेदार मेजर रनजीत सिंह नेगी

कुमाऊं रेजिमेन्ट

जे सी-2427	सूबेदार मेजर लछमन चन्द
जे सी-13097	सूबेदार गजय सिंह

आसाम रेजिमेन्ट

33967-जे सी	सूबेदार मेजर ह्रीखोसई कुकी
जे सी-6885	सूबेदार थंगचिन्जम कुकी
59786-जे सी	सूबेदार मेजर टीओलिस मोहन रांझा

बिहार रेजिमेन्ट

39507-जे सी	सूबेदार मेजर डेनियल टूटी
49296-जे सी	सूबेदार मेजर मारक्यूज पन्ना
60226-जे सी	सूबेदार मेजर सोना राम
38050-जे सी	सूबेदार जोसेफ नाग
39509-जे सी	सूबेदार हरुन टिक्की
59071-जे सी	सूबेदार हमल लोंगा

महार रेजिमेन्ट

56848-जे सी	सूबेदार मेजर सुदकाजी हटे
-------------	--------------------------

जम्मू और काश्मीर राइफलस

जे सी-8336	सूबेदार मेजर भगवन्त सिंह
जे सी-7164	सूबेदार मेजर कदम बहादुर
जे सी-13749	सूबेदार कृष्ण सिंह

1 गोरखा राइफलस

जे सी-2547	सूबेदार मेजर बरनबहादुर थापा
जे सी-5766	सूबेदार मेजर धनराज गुरंग
जे सी-2548	सूबेदार मेजर बीरबहादुर थापा

3 गोरखा राइफलस

जे सी-15033	सूबेदार करन बहादुर गुरंग
जे सी-7519	सूबेदार मेजर भगवान सिंह थापा

4 गोरखा राइफलस

जे सी-2598	सूबेदार मेजर अमरजंग थापा
------------	--------------------------

5 गोरखा राइफलस

जे सी-15174	सूबेदार बीरसिंह थापा
जे सी-21347	सूबेदार मन प्रसाद गुरंग
जे सी-16539	सूबेदार रतन बहादुर गुरंग
जे सी-6747	सूबेदार मेजर चुटे बुन
जे सी-5817	सूबेदार मेजर गजबहादुर गुरंग

8 गोरखा राइफलस

जे सी-5371	सूबेदार मेजर कुलबहादुर थापा
जे सी-4848	सूबेदार मेजर गंगा प्रसाद राना
जे सी-5373	सूबेदार रतन बहादुर थापा
जे सी-13941	सूबेदार कजीन लिम्बू, एम एम
जे सी-9229	सूबेदार लछीमन गुरंग

9 गोरखा राइफलस

जे सी-7546	सूबेदार ईशवर सिंह खत्री
जे सी-10358	सूबेदार कुलबहादुर छेत्री

सैनिक सेवा कोर (एस डी)

42653-जे सी	सूबेदार मेजर क्लर्क जी डी (एस डी) नन्द किशोर गद्दीहोके
42726-जे सी	सूबेदार क्लर्क जी डी (एस डी) बैकुण्ठ नाथ आनन्द
जे सी-2912	सूबेदार क्लर्क जी डी (एस डी) त्रिलोक चन्द श्रोवर
जे सी-2913	सूबेदार क्लर्क जी डी (एस डी) राज कुमार शर्मा
जे सी-2904	सूबेदार क्लर्क जी डी (एस डी) हरीश चन्द्र दर्गन
जे सी-2881	सूबेदार क्लर्क जी डी (एस डी) अरुण चन्द्र मुकर्जी
जे सी-5385	सूबेदार क्लर्क जी डी (एस डी) गुरबखश सिंह
जे सी-2858	सूबेदार क्लर्क जी डी (एस डी) जोसेफ कलोडे एरिक
42720-जे सी	सूबेदार क्लर्क जी डी (एस डी) मिर्जा मोहम्मद अली बेग
जे सी-2878	सूबेदार क्लर्क जी डी (एस डी) टी० एस० विश्वनाथन
जे सी-2907	सूबेदार क्लर्क जी डी (एस डी) सी० वी० एफरेम
42725-जे सी	सूबेदार क्लर्क जी डी (एस डी) दिगम्बर दत्त नौटियाल
जे सी-2859	सूबेदार क्लर्क जी डी (एस डी) अलबर्ट केननेथ डावसन
42722-जे सी०	सूबेदार क्लर्क जी डी (एस डी) हर दयाल सिंह

सैनिक सेवा कोर (पी ए)

जे सी-5209	सूबेदार (पी ए) इन्द्र सेन दत्त
------------	--------------------------------

सैनिक सेवा कोर (सप्लाई)

14074—जे सी	सूबेदार मेजर क्लर्क (एस) जुगलकिशोर शर्मा
14041—जे सी	सूबेदार मेजर क्लर्क (एस) दुर्गा दास
29510—जे सी	सूबेदार मेजर क्लर्क (एस) बिनसेन्त मूरकोथ
29334—जे सी	सूबेदार मेजर क्लर्क (एस) सी० के० मूर्थी
29372—जे सी	सूबेदार मेजर क्लर्क (एस) एन० रेनगामनी
जे सी-2794 ¹	सूबेदार क्लर्क (एस) सोम नाथ दत्ता
जे सी-2793	सूबेदार क्लर्क (एस) हुकम सिंह मलहोत्रा
32958—जे सी	सूबेदार क्लर्क (एस) मूल राज
जे सी-10345	सूबेदार क्लर्क (एस) शिव दत्त शर्मा
जे सी-5434	सूबेदार क्लर्क (एस) मदन सिंह
44910—जे सी	सूबेदार क्लर्क (एस) मोहन लाल
जे सी-2812	सूबेदार क्लर्क (एस) शिवराम सदाशिव वरनाकर
37174—जे सी	सूबेदार क्लर्क जी डी वी सूर्यप्रकाश
37192—जे सी	सूबेदार क्लर्क जी डी के० बी० कृष्ण आर्यंगर
37147—जे सी	सूबेदार मेजर क्लर्क जी डी गोविन्द राम
37184—जे सी	सूबेदार मेजर क्लर्क जी डी पी० अश्वपुतन नायर
जे सी-6645	सूबेदार क्लर्क जी डी छबिल लाल
37333—जे सी	सूबेदार क्लर्क जी डी अरुणा गौरी बिनया गम मूदालियर

सैनिक सेवा कोर (पशु परिवहन)

जे सी-13120	रिसालदार किशन सिंह
जे सी-11761	रिसालदार राम दत्त
48423—जे सी	रिसालदार मेजर देवी दत्त

सैनिक सेवा कोर (मोटर परिवहन)

35593—जे सी	सूबेदार मेजर सी० कुट्टी कृष्णन नायर
44753—जे सी	सूबेदार मेजर बी० अब्राहम मथार्ई
जे सी-15279 ¹	सूबेदार जगदम्बा प्रसाद
जे सी-7855	सूबेदार राम नाथ चौबे
जे सी-8097	सूबेदार रागवन नायर
जे सी-7862	सूबेदार लक्ष्मी नारायण
जे सी-6954	सूबेदार शिव लाल
जे सी-12182	सूबेदार टी के जैकब
जे सी-15286	सूबेदार जय दत्त
जे सी-19330	सूबेदार सीस राम
49352—जे सी	सूबेदार मेजर टी० सी० लक्ष्मणन
जे सी-13607	सूबेदार किरशन कुमार
जे सी-7861	सूबेदार धीरज सिंह
जे सी-6930	सूबेदार विद्या राम
जे सी-19302	सूबेदार रामदेव सिंह

सैनिक डाक्टरी कोर

जे सी-13613	सूबेदार एम० टी० अमर सिंह
44298-जे सी	सूबेदार मेजर ए ए मोनी राम
जे सी-61235	सूबेदार लेब० टेक० एस० नागाप्पा
59288-जे सी	सूबेदार ए ए थाला
जे सी-3188	सूबेदार ए ए काबुल सिंह
जे सी-5377	सूबेदार एस ए पिथि सिंह
जे सी-55450	सूबेदार ए ए मक्खन सिंह
जे सी-38957	सूबेदार नसिंग अलफ्रेड रोमेल दास
जे सी-5379	सूबेदार ए एस ए जगत सिंह
34975-जे सी	सूबेदार मेजर ए ए मथुरा दत्त खुलवे
45258-जे सी	सूबेदार मेजर ए ए अजीत सिंह
41396-जे सी	सूबेदार मेजर लेब० टेक० एस० जय राम
40956-जे सी	सूबेदार मेजर ए ए बकशीश सिंह
38665-जे सी	सूबेदार मेजर ए ए खेमानन्द शर्मा
44997-जे सी	सूबेदार मेजर ए ए विश्वनाथ सिंह
जे सी-3137	सूबेदार मेजर ए ए केशव नन्द शर्मा
जे सी-52470	सूबेदार मेजर ए ए कुन्दन लाल
38085-जे सी	सूबेदार मेजर मोटर परिवहन ड्राइवर जैशी राम
50587-जे सी	सूबेदार मेजर क्लर्क जी डी पूर्णा नन्द तिवारी

सैनिक आर्टिनेस कोर

45916-जे सी	सूबेदार मेजर किशन सिंह
43883-जे सी	सूबेदार मेजर दीदार सिंह
44672-जे सी	सूबेदार मेजर पी० वी० चन्द्राशेखरन नायर
44698-जे सी	सूबेदार मेजर हरी गोपाल चक्रवर्ती
41627-जे सी	सूबेदार मेजर कशीडीश चन्द्रा पुरकायास्ता
32281-जे सी	सूबेदार मेजर मनीन्द्रा चन्द्रा चक्रवर्ती
32271-जे सी	सूबेदार मेजर हरबर्ट सोलोमन लारावंस नाथ
53209-जे सी	सूबेदार मेजर पृथ्वी नाथ
32418-जे सी	सूबेदार बेली राम
32528-जे सी	सूबेदार मेजर सम्भा राम मुर्ती
35718-जे सी	सूबेदार मेजर लीला धर
35659-जे सी	सूबेदार मेजर जे० पी० चेलापुराई
41662-जे सी	सूबेदार मेजर विशुनु स्वरूप सहाय
32628-जे सी	सूबेदार मेजर पृथ्वी चन्द
32624-जे सी	सूबेदार मेजर सुनील कुमार बोस
50137-जे सी	सूबेदार मेजर उषी गुप्तन
46407-जे सी	सूबेदार मेजर भत्तर सिंह
32609-जे सी	सूबेदार मेजर नरहरीभाई उपाध्याय
35639-जे सी	सूबेदार मेजर एन० विलियमस

35638—जे सी	सूबेदार मेजर जे० इ० जे० सेलवानायाकम
58402—जे सी	सूबेदार शिवा नारायण उपाध्याय
58407—ज सी	सूबेदार नेवटन कछप
61579—जे सी	सूबेदार रघुनाथ वशन्त गुरजार
40043—जे सी	सूबेदार मेजर सरस्वती दास वर्मा
54565—जे सी	सूबेदार मेजर एम० नागारथनम
61609—जे सी	सूबेदार ई० गोविन्दा मेनन
61510—जे सी	सूबेदार ए० टी० जोसेफ
58806—जे सी	सूबेदार रत्नजीत चौधरी
61564—जे सी	सूबेदार कैलाश चन्द्रा शर्मा
61741—जे सी	सूबेदार बलवन्त सिंह
61641—जे सी	सूबेदार के० ज० अनन्धारमन
54207—जे सी	सूबेदार मनोरनजन राय
60038—जे सी	सूबेदार कालेकाथेकाथील थोमस नीनन
58816—जे सी	सूबेदार बच्छी राम
61520—ज सी	सूबेदार एम० आर० श्रीनिवासन
61613—जे सी	सूबेदार लछमन दास
61541—जे सी	सूबेदार बी० के० कन्नधीराम
35691—जे सी	सूबेदार मेजर जी० वनकटारमन
57889—जे सी	सूबेदार एस० गनेसन
59983—ज सी	सूबेदार हरी पादा बनधुपाध्या
61643—ज सी	सूबेदार एम० जेललियाह सेमूल
61535—जे सी	सूबेदार बचन सिंह
61498—जे सी	सूबेदार निरोदे बोनधु साहा
61515—ज सी	सूबेदार सुखदेव उपाध्याय
61583—जे सी	सूबेदार राम बल्लभ सिंह
57353—ज सी	सूबेदार श्रीधर गोपालराव बुललाल
61752—ज सी	सूबेदार सुबाल चन्द्रा नायक
61603 जे सी	सूबेदार अयोध्या प्रसाद
57890—जे सी	सूबेदार हरबंस लाल
6546—जे सी	सूबेदार जीत सिंह रावत
57347—ज सी	सूबेदार बी० के० रामचन्द्रन
61559—ज सी	सूबेदार पी० रमन
9545—ज सी	सूबेदार के० वी० कुरियन

बिजली और मशीनी इंजीनियर कोर

54125—जे सी	सूबेदार मेजर मोहिन्दर सिंह जग्गी
50993—ज सी	सूबेदार मेजर एम० जे० कोलहो
40654—जे सी	सूबेदार मेजर बृज लाल
54128—जे सी	सूबेदार मेजर राजदेव सिंह

3526—जे सी	सूबेदार मेजर हरभजन सिंह बेदी
3539—जे सी	सूबेदार मेजर सोमदेव
3502—जे सी	सूबेदार मेजर एन० टी० चेरियन
3484—जे सी	सूबेदार मेजर ए० प्रताप
51553—जे सी	सूबेदार मेजर अमर नाथ
54116—जे सी	सूबेदार मेजर बलक जी डी के० एम० कुरुबील्ला
3869—जे सी	सूबेदार रमधीर सिंह
4414—जे सी	सूबेदार जसवन्त सिंह
54151—जे सी	सूबेदार करतार सिंह
51053—जे सी	सूबेदार वेनकटा चलम एन०
54166—जे सी	सूबेदार अमरेन्द्र नाथ राय
53799—जे सी	सूबेदार एम० पी० बालाकृष्णन नम्बियर
54186—जे सी	सूबेदार रामराज त्रिपाठी
7685—जे सी	सूबेदार अजमेर सिंह
8514—जे सी	सूबेदार सितल सिंह
3829—जे सी	सूबेदार राम देव सिंह
9372—जे सी	सूबेदार हरबंस सिंह परमार
3628—जे सी	सूबेदार गोकल बिहारी सिरकार
3917—जे सी	सूबेदार ज्ञान सिंह
51048—जे सी	सूबेदार विमल चन्द्रा घोष
4458—जे सी	सूबेदार सतिन्द्र नाथ थाकुरता
7687—जे सी	सूबेदार खराती राम
59138—जे सी	सूबेदार सुधीन्द्रा नाथ घोष
51034—जे सी	सूबेदार इट्टी माथेव
3457—जे सी	सूबेदार बुद्धी सिंह
4459—जे सी	सूबेदार अश्रुत मोरसवर जोशी
57346—जे सी	सूबेदार मखन लाल भट्टाचार्यजी
3753—जे सी	सूबेदार सांती प्रीया बेनरजी
59143—जे सी	सूबेदार विनोद कुमार भट्टाचरिया
3920—जे सी	सूबेदार चिन्ता हरनडे
7681—जे सी	सूबेदार किदार नाथ
9535—जे सी	सूबेदार श्री० रामाकृष्णन पिल्ले
3959—जे सी	सूबेदार विश्वनाथ नारायण डोंगरे
4410—जे सी	सूबेदार सक्ति पदो भट्टाचार्यजी
4409—जे सी	सूबेदार सरयन सिंह डोसंज
7743—जे सी	सूबेदार हरजीत सिंह

नैतिक शिक्षा कोर

60854—जे सी	सूबेदार मेजर मलूक सिंह
37893—जे सी	सूबेदार मेजर अमर नाथ आचार्य
39227 जे सी	सूबेदार मेजर सूरत सिंह

44798—जे सी	सूबेदार मेजर लाल सिंह
61438—जे सी	सूबेदार शंगारा सिंह
61825—जे सी	सूबेदार पी चन्द्रासेखरन
4329—जे सी	सूबेदार वत सिंह
60524—जे सी	सूबेदार हंसा दत्त भट्ट
61222—जे सी	सूबेदार पी० पी० भास्करन करया
4310—जे सी	सूबेदार अजीत कुमार मुखर्जी
4309—जे सी	सूबेदार लछमन दास
4311—जे सी	सूबेदार जमेत सिंह
4319—जे सी	सूबेदार धन बहादुर भुजेल
6217—जे सी	सूबेदार रूप लाल
60602—जे सी	सूबेदार एम० पी० कुञ्जुरम नायर
4258—जे सी	सूबेदार साहिब सिंह
5829—जे सी	सूबेदार राम अत्तर सिंह
6062—जे सी	सूबेदार चन्द्र भान
5831—जे सी	सूबेदार प्रेम दत्त मिश्रा

घषव और पशु चिकित्सा कोर

आर वी-7002 रिसालवार मेजर (वी० ए० एस०) पी० जे० मनोहरम

पायनियर कोर

56267—जे सी	सूबेदार मेजर जी० डी० एल० रथनावेलू
14606—जे सी	सूबेदार जी० डी० बेग राज

इंस्टीजीन्स कोर

33406—जे सी	सूबेदार मेजर सरजीत सिंह
5444—जे सी	सूबेदार मदन सिंह बोरा
5468—जे सी	सूबेदार अर्जन सिंह
5473—जे सी	सूबेदार अलाह सिंह
5467—जे सी	सूबेदार सूरज भान
10004—जे सी	सूबेदार बिहारी लाल

कोर आफ मिलिट्री पुलिस

61170—जे सी	सूबेदार मेजर (एम पी) थेराकाथु इडीकुला थोमस
7275—जे सी	सूबेदार एम पी शरम सिंह

सं० 2:—तारीख 26 जनवरी, 1969 को भारत स्थित सेना विनियमावली 1962 के पैरा 180 के अधीन राष्ट्रपति निम्नलिखित जे सी ओ को उसके नाम के सामने दी गई तारीख से अवैतनिक रैंक प्रदान करती हैं :—

अवैतनिक कैप्टन के रैंक में

सोपखाना रेजिमेंट

14712-जे सी	सूबेदार और अवैतनिक लेफ्टिनेंट धर्मदेव सिंह	15 अक्टूबर, 1968
जे सी-7633	सूबेदार मेजर और अवैतनिक लेफ्टिनेंट बीर बहादुर अले	30 अगस्त, 1968
48152-जे सी	सूबेदार मेजर और अवैतनिक लेफ्टिनेंट जी० के० मिश्रा	12 अक्टूबर, 1968
जे सी-77	सूबेदार मेजर और अवैतनिक लेफ्टिनेंट राम सिंह	11 फरवरी, 1968
जे सी-244	सूबेदार मेजर और अवैतनिक लेफ्टिनेंट सज्जन सिंह	28 सितम्बर, 1968
जे सी-282	सूबेदार मेजर और अवैतनिक लेफ्टिनेंट सुगन सिंह	29 सितम्बर, 1968

बंगाल इंजीनियर ग्रुप

जे सी-896	सूबेदार मेजर और अवैतनिक लेफ्टिनेंट थंगा राज	13 जनवरी, 1969
जे सी-42763	सूबेदार मेजर और अवैतनिक लेफ्टिनेंट जगतार सिंह	14 जनवरी, 1969
58960-जे सी	सूबेदार मेजर और अवैतनिक लेफ्टिनेंट दाता राम	1 जनवरी, 1969
जे सी-59556	सूबेदार मेजर और अवैतनिक लेफ्टिनेंट राम सिंह	1 जनवरी, 1969
57544-जे सी	सूबेदार मेजर और अवैतनिक लेफ्टिनेंट इसाक केननेथ रिचर्ड	14 जनवरी, 1969
जे सी-670	सूबेदार मेजर और लेफ्टिनेंट बख्तावर सिंह	19 अगस्त 1968
59593-जे सी	सूबेदार मेजर और अवैतनिक लेफ्टिनेंट जगदीश सिंह	5 सितम्बर, 1968
12355-जे सी	सूबेदार मेजर और अवैतनिक लेफ्टिनेंट गोकुल देव	17 दिसम्बर, 1968
जे सी-47068	सूबेदार मेजर और अवैतनिक लेफ्टिनेंट आर० जी० वजेरकर	1 जनवरी, 1969
जे सी-10205	सूबेदार और अवैतनिक लेफ्टिनेंट अमोलक सिंह	2 जनवरी, 1969
59198-जे सी	सूबेदार मेजर और अवैतनिक लेफ्टिनेंट एस० कृष्णा मूर्ती	1 जनवरी, 1969

बम्बई इंजीनियर ग्रुप

जे सी-780	सूबेदार मेजर और अवैतनिक लेफ्टिनेंट शंकर चवन	30 सितम्बर, 1968
जे सी-808	सूबेदार मेजर और अवैतनिक लेफ्टिनेंट मालवा सिंह	20 नवम्बर, 1968
जे सी-58861	सूबेदार मेजर और अवैतनिक लेफ्टिनेंट रत्नजीत सिंह	9 जनवरी, 1969

સિગનલ કોર

જે સી-993	સુબેદાર મેજર ઓર અવૈતનિક લેફ્ટિનેન્ટ ડર્ગન સિંહ	9 નવમ્બર, 1968
જે સી-1064	સુબેદાર મેજર ઓર અવૈતનિક લેફ્ટિનેન્ટ ટેક સિંહ	13 નવમ્બર, 1968
જે સી-7213	સુબેદાર મેજર ઓર અવૈતનિક લેફ્ટિનેન્ટ ઉપમા સિંહ	7 અક્ટૂબર, 1968
43603-જે સી	સુબેદાર મેજર ઓર અવૈતનિક લેફ્ટિનેન્ટ રસોલ વન્દ	6 જાનવરી, 1969
જે સી-961	સુબેદાર મેજર ઓર અવૈતનિક લેફ્ટિનેન્ટ જગત સિંહ	1 જાનવરી, 1969
જે સી-1101	સુબેદાર ઓર અવૈતનિક લેફ્ટિનેન્ટ મોટા સિંહ	21 ડિસેમ્બર, 1968

ગારદ બ્રિગેડ

જે સી-330	સુબેદાર મેજર ઓર અવૈતનિક લેફ્ટિનેન્ટ બાવુ રાવ ઘાડગે	3 અગસ્ટ, 1968
જે સી-6700	સુબેદાર ઓર અવૈતનિક લેફ્ટિનેન્ટ હુમાન રામ	18 જાનવરી, 1969
જે સી-6699	સુબેદાર ઓર અવૈતનિક લેફ્ટિનેન્ટ દલોપ સિંહ	6 જાનવરી, 1969
જે સી-4427	સુબેદાર મેજર ઓર અવૈતનિક લેફ્ટિનેન્ટ અત્તર સિંહ	17 ડિસેમ્બર, 1968

પૈરાશૂટ રેજિમેન્ટ

જે સી-8654	સુબેદાર ઓર અવૈતનિક લેફ્ટિનેન્ટ તડપા ખાંસજે	20 સિપ્ટેમ્બર, 1968
------------	--	---------------------

પંજાબ રેજિમેન્ટ

જે સી-1286	સુબેદાર મેજર ઓર અવૈતનિક લેફ્ટિનેન્ટ જસવંત સિંહ	15 જાનવરી, 1969
------------	--	-----------------

મેનેઝિયસ

14715-જે સી	સુબેદાર ઓર અવૈતનિક લેફ્ટિનેન્ટ સય્યદ હજાજ હુસન	6 નવમ્બર, 1968
-------------	--	----------------

રાજપૂત રેજિમેન્ટ

1940-જે સી	સુબેદાર મેજર ઓર અવૈતનિક લેફ્ટિનેન્ટ ચેનકટ સિંહ	15 અપ્રેલ, 1968
12417-જે સી	સુબેદાર ઓર અવૈતનિક લેફ્ટિનેન્ટ શ્રી રામ	28 અગસ્ટ, 1968
જે સી-13619	સુબેદાર ઓર અવૈતનિક લેફ્ટિનેન્ટ રામેશ્વર દયાલ	27 સિપ્ટેમ્બર, 1968

સિંઘ રેજિમેન્ટ

જે સી-10731	સુબેદાર ઓર અવૈતનિક લેફ્ટિનેન્ટ જ્ઞાન સિંહ	21 અગસ્ટ, 1968
જે સી-6399	સુબેદાર મેજર ઓર અવૈતનિક લેફ્ટિનેન્ટ જીગિન્દર સિંહ	18 ડિસેમ્બર, 1968
જે સી-7118	સુબેદાર મેજર ઓર અવૈતનિક લેફ્ટિનેન્ટ બલચંત સિંહ	22 નવમ્બર, 1968
જે સી-5551	સુબેદાર મેજર ઓર અવૈતનિક લેફ્ટિનેન્ટ કરતાર સિંહ	14 નવમ્બર, 1968
જે સી-9988	સુબેદાર ઓર અવૈતનિક લેફ્ટિનેન્ટ રાજિન્દર સિંહ	4 નવમ્બર, 1968

जे सी-7790	सूबेदार क्लर्क और अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट भगवान सिंह	1 नवम्बर, 1968
जे सी-9959	सूबेदार और अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट टेहल सिंह	1 जनवरी, 1969
जे सी-9960	सूबेदार और अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट हरनाम सिंह	23 अगस्त, 1968
सिख लाइट इन्फैन्ट्री		
57514-जे सी	सूबेदार और अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट मुखडयार सिंह	18 सितम्बर, 1968
जे सी-2083	सूबेदार और अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट दुमन सिंह	28 नवम्बर, 1968
54653-जे सी	सूबेदार और अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट लाल सिंह	29 सितम्बर, 1968
ढोगरा रेजिमेन्ट		
जे सी-12381	सूबेदार क्लर्क और अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट बलदेव प्रसाद	19 सितम्बर, 1968
जाट रेजिमेन्ट		
जे सी-1981	सूबेदार मेजर और अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट देओ करन	16 जनवरी, 1969
कुमाऊं रेजिमेन्ट		
जे सी-15858	सूबेदार और अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट मोहन लाल	6 जनवरी, 1969
जम्मू और काश्मीर राइफल्स		
जे सी-4861	सूबेदार मेजर और अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट राम खन्द	20 जनवरी, 1969
4 गोरखा राइफल्स		
जे सी-9894	सूबेदार और अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट प्रेम बहादुर गुरंग, एम एम	16 दिसम्बर, 1968
जे सी-10516	सूबेदार और अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट राम किशन धारती	12 अक्टूबर, 1968
5 गोरखा राइफल्स		
जे सी-13293	सूबेदार और अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट सरबाजीत थापा, एम एम	16 अक्टूबर, 1968
8 गोरखा राइफल्स		
जे सी-2710	सूबेदार मेजर और अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट कुलबाहदुर पुन	1 नवम्बर, 1968
जे सी-7610	सूबेदार मेजर और अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट चेत बहादुर गुरंग	5 दिसम्बर, 1968
जे सी-15325	सूबेदार और अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट ईशवर सिंह थापा	28 अक्टूबर, 1968

जे सी-9073	सूबेदार और अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट शमशेर गुरंग, एम एम	23 दिसम्बर, 1968
जे सी-10722	सूबेदार और अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट मनबीर थापा, एम एम	23 नवम्बर, 1968

9 गोरखा राइफल्स

जे सी-10232	सूबेदार और अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट राम बहादुर भनडारी	20 अक्टूबर, 1968
जे सी-11565	सूबेदार और अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट पिरथी बहादुर साही	20 अक्टूबर, 1968
जे सी-14164	सूबेदार और अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट मन बहादुर मल	16 अक्टूबर, 1968
जे सी-14626	सूबेदार और अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट नहाल बहादुर खत्री	17 अक्टूबर, 1968

दैनिक सेवाकोर (स्टाफ इण्टी)

जे सी-7435	सूबेदार क्लर्क जी डी (एस डी) और अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट गुरदीत सिंह	22 अक्टूबर, 1968
जे सी-2890	सूबेदार क्लर्क जी डी (एस डी) और अवैतनिक दलीप सिंह	21 अक्टूबर, 1968
जे सी-2893	सूबेदार क्लर्क जी डी (एस डी) और अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट रतजीत सिंह	25 अक्टूबर, 1968
जे सी-2896	सूबेदार क्लर्क जी डी (एस डी) और अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट ए० चन्द्रा हसेन	25 अक्टूबर, 1968
जे सी-2883	सूबेदार क्लर्क जी डी (एस डी) और अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट राना गुर प्रताप सिंह नारु	16 सितम्बर, 1968
जे सी-2877	सूबेदार क्लर्क जी डी (एस डी) और अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट प्रकाश चन्द हरिया	25 जनवरी, 1969
जे सी-5207	सूबेदार क्लर्क जी डी (एस डी) और अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट नवीन चन्द्रा पांडे	21 अक्टूबर, 1968
जे सी-2887	सूबेदार क्लर्क जी डी (एस डी) और अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट राम प्रकाश शर्मा	26 अक्टूबर, 1968
जे सी-2894	सूबेदार क्लर्क जी डी (एस डी) और अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट महेन्द्र सिंह खरोला	25 अक्टूबर, 1968
जे सी-2886	सूबेदार क्लर्क जी डी (एस० डी) और अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट फतेह चन्द भाटिया	15 अक्टूबर, 1968
जे सी-42756	सूबेदार क्लर्क जी डी (एस डी) और अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट खराती लाल मनचन्दा	26 जुलाई, 1968
जे सी-2876	सूबेदार क्लर्क जी डी (एस डी) और अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट जगदीश आनन्द बहल	24 जनवरी, 1969
जे सी-2882	सूबेदार क्लर्क जी डी (एस डी) और अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट हरबंस सिंह	18 अक्टूबर, 1968

जे सी-2888	सूबेदार क्लर्क जी डी (एस डी) और अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट नेब राज सेन्त	15 अक्टूबर, 1968
42760-जे सी	सूबेदार क्लर्क जी डी (एस डी) और अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट मोहन लाल	5 दिसम्बर, 1968

सैनिक सेवा कोर (सप्लाई)

जे सी-4696	सूबेदार क्लर्क (एस) और अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट सेलेन्द्रा नाथ बेनरजी	31 दिसम्बर, 1968
जे सी-2807	सूबेदार क्लर्क (एस) और अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट प्रीतम सिंह	9 दिसम्बर, 1968
जे सी-2810	सूबेदार क्लर्क (एस) और अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट प्रेम चन्द्र थावला	24 दिसम्बर, 1968
35314-जे सी	सूबेदार क्लर्क (एस) और अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट शम्भु नाथ नन्दा	2 फरवरी, 1968
35405-जे सी	सूबेदार क्लर्क (एस) और अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट राम सिंह	19 नवम्बर, 1968
26881-जे सी	सूबेदार क्लर्क (एस) और अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट गुरुबश सिंह	10 सितम्बर, 1968
56105-जे सी	सूबेदार (कैट) और अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट एम संकरानारयणन नाथर	30 नवम्बर, 1968
जे सी-2806	सूबेदार क्लर्क (एस) और अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट कांशी राम जुलका	23 जनवरी, 1969
जे सी-9509	सूबेदार क्लर्क जी डी और अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट कुलवीप सिंह	27 नवम्बर, 1968
37226-जे सी	सूबेदार क्लर्क जी डी और अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट के एस गुलेरिया	5 दिसम्बर, 1968
जे सी-13144	सूबेदार क्लर्क जी डी और अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट हरबंस सिंह सेठी	29 नवम्बर, 1968
37133-जे सी	सूबेदार क्लर्क जी डी और अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट हरीश चन्द्र पाठक	6 अक्टूबर, 1968

सैनिक सेवा कोर (मोटर परिवहन)

42240-जे सी	सूबेदार मेजर और अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट सी सी मसीलामनी	2 सितम्बर, 1968
38442-जे सी	सूबेदार मेजर और अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट ओम विजयरामनुजूलु	2 सितम्बर, 1968
35251 ज सी	सूबेदार मेजर और अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट श्री रमूलू	4 सितम्बर, 1968
49350-जे सी	सूबेदार मेजर और अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट के सूर्य नाराय मूर्ती	21 नवम्बर, 1968

38446-जे सी	सूबेदार मेजर और अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट डी विलियम	5 नवम्बर, 1963
42266-जे सी	सूबेदार मेजर और अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट गोपाल मोदी	6 सितम्बर, 1968
38432-जे सी	सूबेदार मेजर और अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट के संकरन नायर	6 सितम्बर, 1968
जे सी-13039	सूबेदार और अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट शिव करन सिंह	2 अक्तूबर, 1968
जे सी-19312	सूबेदार और अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट रुप सिंह	7 जनवरी, 1968
जे सी-11551	सूबेदार और अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट हाकम सिंह	3 अक्तूबर, 1968

सैनिक डाक्टरी कोर

49852-जे सी	सूबेदार मेजर और अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट भवानी प्रसाद	4 अक्तूबर, 1968
जे सी-3122	सूबेदार ए ए और अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट शंकर दत्त	17 दिसम्बर, 1968
जे सी-3272	सूबेदार ए ए और अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट कुन्दन लाल	28 नवम्बर, 1968
जे सी-3155	सूबेदार ए ए और अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट कुला नन्द	14 नवम्बर, 1968

सैनिक आर्म्मेन्स कोर

32453-जे सी	सूबेदार मेजर और अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट एस सम्बासिवन	1 अक्तूबर, 1968
32377-जे सी	सूबेदार मेजर और अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट प्रीथीपाल सिंह	1 जनवरी, 1969
30270-जे सी	सूबेदार मेजर और अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट भाग सिंह	14 अक्तूबर, 1968
38579-जे सी	सूबेदार मेजर और अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट जोगिन्दर सिंह	1 अक्तूबर, 1968
32443-जे सी	सूबेदार मेजर और अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट तिलक राज	4 जून, 1968
50134-जे सी	सूबेदार मेजर और अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट हरदेव सिंह डडा	1 अक्तूबर, 1968
50141-जे सी	सूबेदार मेजर और अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट पी के अप्पुप्पी मेनन	26 दिसम्बर, 1968
61708-जे सी	सूबेदार मेजर और अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट बंसी लाल बजाज	17 दिसम्बर, 1968
41681-जे सी	सूबेदार मेजर और अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट हरबंस लाल	28 दिसम्बर, 1968
52075-जे सी	सूबेदार और अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट लिम्बा धोनडिबा माली	1 जनवरी, 1969

बिजली और मशीनी इंजीनियर कोर

53713-जे सी	सूबेदार मेजर और अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट गुरबख्श सिंह	19	जनवरी, 1969
58740-जे सी	सूबेदार मेजर और अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट पाभुलेती सूर्यनारायण	24	जनवरी, 1969
57817-जे सी	सूबेदार मेजर और अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट बख्तावर सिंह बरार	22	जनवरी, 1969
47918-जे सी	सूबेदार मेजर और अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट नंगा सिंह रायत	1	जनवरी, 1969
जे सी—3950	सूबेदार मेजर और अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट प्रह्लाद चन्द्र राय	1	जनवरी, 1969
64140-जे सी	सूबेदार मेजर और अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट एम कृष्ण नायर	1	जनवरी, 1969
जे सी—3555	सूबेदार मेजर और अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट उमेश बैनरजी	1	जनवरी, 1969
68786-जे सी	सूबेदार मेजर और अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट देसराज	1	जनवरी, 1969
जे सी—3573	सूबेदार मेजर और अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट बी डी कमला नाथन	1	जनवरी, 1969
जे सी—3881	सूबेदार और अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट सकुनत लाल	28	नवम्बर, 1968
54137-जे सी	सूबेदार और अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट बाबु राम	23	दिसम्बर, 1968
जे सी—3824	सूबेदार और अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट करतार सिंह	2	अक्टूबर, 1968
जे सी—3767	सूबेदार और अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट मदन लाल	30	अक्टूबर, 1968
3939-जे सी	सूबेदार और अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट विश्वा नाथ भाटिया	7	जनवरी, 1969
जे सी—3472	सूबेदार मेजर और अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट देस राज	1	जनवरी, 1969
जे सी—3891	सूबेदार और अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट टेक चन्द दत्ता	2	दिसम्बर, 1968

सैनिक शिक्षा कोर

35242-जे सी	सूबेदार मेजर और अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट एम एस ननजुदिहा	1	नवम्बर, 1968
4269-जे सी	सूबेदार और अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट हंस राज शर्मा	12	नवम्बर, 1968
60145-जे सी	सूबेदार और अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट आनन्द जी सिंह	12	नवम्बर, 1968
4306-जे सी	सूबेदार और अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट हर प्रसाद नौटियाल	27	दिसम्बर, 1968

अग्नि और पशु-चिकित्सा कोर

आरबी-7025	रिसालदार मेजर एल और अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट नानक चन्द	7	दिसम्बर, 1968
-----------	---	---	---------------

इन्टेलीजेन्स कोर

जे सी-5476	सूबेदार और अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट बलबीर सिंह	2 सितम्बर, 1968
जे सी-5456	सूबेदार और अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट के अछुथन नम्बियर	18 जनवरी, 1969
31843-जे सी	सूबेदार मेजर और अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट रिसाल सिंह नारद	12 सितम्बर, 1968

पायनियर कोर

39946-जे सी	सूबेदार मेजर (जी डी) और अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट गजाधर सिंह	16 जनवरी, 1969
40421-जे सी	सूबेदार मेजर (जी डी) और अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट सी ओ जॉन	16 जनवरी, 1969

सैनिक व्यायाम शिक्षण कोर

जे सी-5436	सूबेदार मेजर और अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट बलीप सिंह	19 दिसम्बर, 1968
------------	---	------------------

अवैतनिक लेफ्टिनेन्ट के रैंक में**बोपखाना रेजिमेन्ट**

जे सी-238	सूबेदार मेजर बाबु सिंह	18 अगस्त, 1968
जे सी-95	सूबेदार मेजर सेबसतियन	7 जून, 1968
जे सी-277	सूबेदार मेजर पांडु शिरोहकर	15 अक्टूबर, 1968

बंगाल इंजीनियर ग्रुप]]

49931-जे सी	सूबेदार मेजर सी एन कृष्णन	1 जनवरी, 1969
60932-जे सी	सूबेदार मेजर एन रामास्वामी अय्यर	11 जनवरी, 1969

सिगनल कोर

जे सी-963	सूबेदार मेजर देवी प्रसाद	21 नवम्बर, 1968
-----------	--------------------------	-----------------

सिख लाईट इन्फैंट्री]]

41539-जे सी	सूबेदार मेजर गुलाब सिंह	10 अप्रैल, 1968
57516-जे सी	सूबेदार मेजर उजागर सिंह	8 फरवरी, 1968

कुमाऊं रेजिमेन्ट

जे सी-2333	सूबेदार मेजर देवान सिंह	12 अप्रैल, 1968
------------	-------------------------	-----------------

सैनिक डाक्टरी कोर

जे सी-7480	सूबेदार मेजर पोट० सहदेव सिंह	4 अक्टूबर, 1968
------------	------------------------------	-----------------

बिजली और मशीनी इंजीनियर कोर

जे सी-3899	सुबेदार मेजर मोहिन्दर सिंह	1 जनवरी, 1969
जे सी-3446	सुबेदार मेजर मोहल लाल मैनी	1 जनवरी, 1969

अवैतनिक रिजालदार/सुबेदार मेजर क रैंक में**16 रिजाला**

जे सी-482	रिसालदार सी० एच० मुष्पा राज	28 अक्टूबर, 1968
जे सी-483	रिसालदार सद्धानला बेनकय्या	23 सितम्बर, 1968
जे सी-484	रिसालदार पी चिन्दन नाथर	5 जनवरी, 1969
जे सी-5237	रिसालदार सी० अण्णुकुट्टन त थर	7 सितम्बर, 1968

7 रिजाला

जे सी-10799	रिसालदार लाल चन्द, बीर चक्र	30 अक्टूबर, 1968
जे सी-12578	रिसालदार फतेह सिंह	3 दिसम्बर, 1968
जे सी-13346	रिसालदार सूरज भान	9 अक्टूबर, 1968

1 हौस

जे सी-7966	रिसालदार वचन सिंह	19 अक्टूबर, 1968
------------	-------------------	------------------

2 सांसर्स

जे सी-7811	रिसालदार भोज राज सिंह	30 सितम्बर, 1968
------------	-----------------------	------------------

14 हौस

जे सी-12230	रिसालदार हरभजन सिंह	1 अक्टूबर, 1968
जे सी-12231	रिसालदार बाबु सिंह	10 दिसम्बर, 1968

4 रौस

जे सी-6777	रिसालदार बरकत सिंह	2 दिसम्बर, 1968
जे सी-6661	रिसालदार हरनाम सिंह	22 दिसम्बर, 1968

62 रिजाला

जे सी-10737	रिसालदार मुख्तियार सिंह	13 जनवरी, 1969
-------------	-------------------------	----------------

64 रिजाला

जे सी-8223	रिसालदार मलखान सिंह	20 नवम्बर, 1968
------------	---------------------	-----------------

सौपक्षमा रजिमेन्ट

जे सी-7028	सूबेदार क्लर्क एम० ए० गनापथी	30 अगस्त, 1968
जे सी-2721	सूबेदार क्लर्क टी० ए० रामानाथन	1 सितम्बर, 1968
जे सी-290	सूबेदार पी० सी० सूब्बीयाह	15 अगस्त, 1968
जे सी-15446	सूबेदार क्लर्क सुखदेव सिंह	26 अक्टूबर, 1968
जे सी-6285	सूबेदार क्लर्क अजीत सिंह	12 नवम्बर, 1968

मद्रास इंजीनियर ग्रुप

जे सी-19654	सूबेदार पनकजकशन नायर	1 अक्टूबर, 1968
जे सी-20254	सूबेदार एस० जोसेफ जॉन	20 जनवरी, 1969
59038-जे सी	सूबेदार एन० गोविन्दाराज	6 सितम्बर, 1968
जे सी-6980	सूबेदार के० अन्नना राव	30 नवम्बर, 1968
जे सी-7193	सूबेदार एम० गोविन्दासामी	6 सितम्बर, 1968
जे सी-7035	सूबेदार मरिया जोसेफ	20 जनवरी, 1969
जे सी-10278	सूबेदार एम० राजारतनम	20 जनवरी, 1969
जे सी-6979	सूबेदार एन० मुथुसामी नायडू	3 दिसम्बर, 1968
जे सी-12815	सूबेदार के० करुना करुनायर	27 नवम्बर, 1968
जे सी-929	सूबेदार ए० एस० राजू	18 अक्टूबर, 1968
जे सी-936	सूबेदार एन० गोविन्दाराजु	2 दिसम्बर, 1968
जे सी-5299	सूबेदार थंगावेलू	3 सितम्बर, 1968

बम्बई इंजीनियर ग्रुप

जे सी-7953	सूबेदार धन्ना सिंह	23 अगस्त, 1968
जे सी-7053	सूबेदार राम सिंह	19 सितम्बर, 1968
जे सी-8527	सूबेदार जागीर सिंह	17 जनवरी, 1969
जे सी-13914	सूबेदार क्लर्क मल सिंह	16 अगस्त, 1968
जे सी-14738	सूबेदार क्लर्क जगत सिंह	23 जनवरी, 1969
जे सी-13918	सूबेदार क्लर्क रतन सिंह	25 नवम्बर, 1968
जे सी-12730	सूबेदार क्लर्क मथरा सिंह	5 सितम्बर, 1968
जे सी-12726	सूबेदार क्लर्क नानक सिंह	30 सितम्बर, 1968
जे सी-12723	सूबेदार क्लर्क मोहिन्दर सिंह	22 अगस्त, 1968
जे सी-13704	सूबेदार दया सिंह	11 जनवरी, 1969
जे सी-13676	सूबेदार एकनाथ धाडगे	29 सितम्बर, 1968
जे सी-10221	सूबेदार गुलाब नले	29 अक्टूबर, 1968

सिगनाल कोर

जे सी-987	सूबेदार के० एम० बालाकृष्णन	27 सितम्बर, 1968
जे सी-4506	सूबेदार उजागर सिंह	12 दिसम्बर, 1968
जे सी-9172	सूबेदार आर० एस० सुब्बयाह पिल्ले	18 जनवरी, 1969
जे सी-20076	सूबेदार आर० अटचय्या रेड्डी	23 दिसम्बर, 1968

सिगनाल कोंर—जारी

जे सी-5531	सूबेदार बिशन सिंह	26 अक्टूबर, 1968
जे सी-6687	सूबेदार सुखराम सिंह	9 जनवरी, 1969
जे सी-9168	सूबेदार अमर सिंह	5 नवम्बर, 1968
जे सी-10087	सूबेदार सरवन सिंह	22 अक्टूबर, 1968
जे सी-1148	सूबेदार सुरजन सिंह	5 अक्टूबर, 1968
जे सी-6006	सूबेदार निरंजन सिंह	9 सितम्बर, 1968
जे सी-23209	सूबेदार रघन सिंह	20 अगस्त, 1968
जे सी-5122	सूबेदार जनक सिंह	4 अगस्त, 1968
जे सी-7202	सूबेदार जरनैल सिंह	3 अक्टूबर, 1968
जे सी-7224	सूबेदार मेवा सिंह	3 जनवरी, 1969

वेरासट रेजिमेन्ट

जे सी-10681	सूबेदार धतर सिंह	23 सितम्बर, 1968
जे सी-8447	सूबेदार मोहन सिंह	11 नवम्बर, 1968

पंजाब रेजिमेन्ट

जे सी-12621	सूबेदार भाग सिंह	1 जनवरी, 1969
जे सी-18036	सूबेदार गज्जा सिंह	19 दिसम्बर, 1968
जे सी-11369	सूबेदार कौर सिंह	7 जनवरी, 1969

बेमेडियर्स

जे सी-12369	सूबेदार इन्द्र सिंह	7 जनवरी, 1969
जे सी-12129	सूबेदार सुसतान सिंह	12 अगस्त, 1968
जे सी-11688	सूबेदार साधु सिंह	16 जनवरी, 1969
जे सी-12140	सूबेदार कलकं शेर सिंह	7 दिसम्बर, 1968

मराठा लाइट इन्फैन्ट्री

जे सी-1985	सूबेदार उषव धारगे	18 जनवरी, 1969
जे सी-7247	सूबेदार राम क शर्मा	22 दिसम्बर, 1968
जे सी-15092	सूबेदार सखाराम इन्गले	28 अगस्त, 1968
जे सी-6846	सूबेदार सोपान धरे	25 नवम्बर, 1968
जे सी-19994	सूबेदार शिवाजी भोसले	14 सितम्बर, 1968
जे सी-6707	सूबेदार कान्ता प्रसाद	13 जनवरी, 1969
जे सी-6849	सूबेदार विष्णु देसाई	8 सितम्बर, 1968

गजपतना राइफल्स

जे सी-10583	सूबेदार कलकं अंजी सिंह तनवार	13 जुलाई, 1968
-------------	------------------------------	----------------

राजपूत रेजिमेन्ट

जे सी-13056	सूबेदार लेख राम	12 अक्तूबर, 1968
जे सी-19087	सूबेदार कर्नल जगमोहन सिंह वर्मा	12 सितम्बर, 1968
जे सी-20912	सूबेदार कर्नल राम हरच सिंह	23 दिसम्बर, 1968

जाट रेजिमेन्ट

जे सी-16458	सूबेदार कर्नल गुलजा लाल	15 अक्तूबर, 1968
जे सी-10273	सूबेदार कर्नल हरी राम	2 अक्तूबर, 1968
जे सी-6395	सूबेदार शर सिंह	21 अगस्त, 1968
जे सी-11979	सूबेदार होशियार सिंह	22 सितम्बर, 1968
जे सी-12170	सूबेदार कर्नल बदलू सिंह	17 दिसम्बर, 1968

सिख रेजिमेन्ट

जे सी-12035	सूबेदार उजागर सिंह	11 नवम्बर, 1968
जे सी-7789	सूबेदार मेहर सिंह	31 दिसम्बर, 1968
जे सी-15148	सूबेदार कर्नल हरदयाल सिंह	21 अक्तूबर, 1968
जे सी-11321	सूबेदार सूरन सिंह	7 सितम्बर, 1968
जे सी-15141	सूबेदार वरियाम सिंह	23 अक्तूबर, 1968
जे सी-13540	सूबेदार दर्शन सिंह	29 अक्तूबर, 1968
जे सी-12655	सूबेदार अमर सिंह	21 नवम्बर, 1968
जे सी-14288	सूबेदार बलवंत सिंह	22 जनवरी, 1969
जे सी-15259	सूबेदार कर्नल चानन सिंह	16 नवम्बर, 1968
जे सी-14662	सूबेदार कर्नल मदन मंहन सिंह	30 सितम्बर, 1968

सिख लाइट इन्फैन्ट्री

जे सी-2117	सूबेदार वीत सिंह	31 दिसम्बर, 1968
जे सी-7125	सूबेदार कर्नल राम मेहर सिंह	5 अक्तूबर, 1968
जे सी-6891	सूबेदार प्रीतम सिंह	1 सितम्बर, 1968
जे सी-6586	सूबेदार भरपूर सिंह	5 जुलाई, 1968

बोगरा रेजिमेन्ट

जे सी-13543	सूबेदार लख राम	12 अक्तूबर, 1968
जे सी-12696	सूबेदार कर्नल दीना नाथ	14 अक्तूबर, 1968

गढ़वाल राइफल्स

जे सी-9194	सूबेदार कर्नल सोहन लाल जैन	5 सितम्बर, 1968
------------	----------------------------	-----------------

कुमाऊँ रेजीमेन्ट

जे सी-7886	सूबेदार जयंत सिंह	23 नवम्बर, 1968
जे सी-13258	सूबेदार चन्द्र सिंह	22 अप्रैल, 1968
जे सी-8073	सूबेदार मोश्रो नारायण	30 सितम्बर, 1968
जे सी-8046	सूबेदार कपील देव	6 नवम्बर, 1968

कुमाऊं रेजिमेंट—जारी

जे सी-7624	सूबेदार गौर सिंह	13 नवम्बर, 1968
जे सी-10733	सूबेदार रती राम	20 जून, 1968
जे सी-5271	सूबेदार कंवर सिंह	16 नवम्बर, 1968
जे सी-12260	सूबेदार दलीप चन्द, बीर चक्र	25 अक्टूबर, 1968

महार रेजिमेंट

जे सी-22905	सूबेदार बीरबल राम	11 नवम्बर, 1968
जे सी-13794	सूबेदार शिवा कमबल	14 अक्टूबर, 1968

जम्मू और कश्मीर राइफल

जे सी-10069	सूबेदार कलकं प्रीतम सिंह	16 अक्टूबर, 1968
-------------	--------------------------	------------------

1 गोरखा राइफल

जे सी-10740	सूबेदार बलबहादुर पुन	21 दिसम्बर, 1968
-------------	----------------------	------------------

3 गोरखा राइफल

जे सी-13114	सूबेदार परत्तमन थापा	14 अक्टूबर, 1968
जे सी-9448	सूबेदार छेम बहादुर सेन	15 नवम्बर, 1968
जे सी-11306	सूबेदार रतन बहादुर गुरुंग	17 दिसम्बर, 1968
जे सी-12859	सूबेदार कर बहादुर गुरुंग	13 जनवरी, 1969

4 गोरखा राइफल

जे सी-15648	सूबेदार पहल सिंह अले	8 जनवरी, 1969
जे सी-16510	सूबेदार कलकं प्रेम सिंह पठानिया	6 जनवरी, 1969

5 गोरखा राइफल

जे सी-16754	सूबेदार कलकं मोहबत सिंह बिष्ट	7 नवम्बर, 1968
जे सी-13081	सूबेदार केसर सिंह थापा	15 अक्टूबर, 1968
जे सी-10269	सूबेदार सूरजबहादुर थापा	15 अक्टूबर, 1968
जे सी-21438	सूबेदार जसबहादुर गुरुंग	19 अक्टूबर, 1968
जे सी-11591	सूबेदार जंगबहादुर राता	24 अक्टूबर, 1968

8 गोरखा राइफल

जे सी-11362	सूबेदार इमान सिंह गुरुंग	2 नवम्बर, 1968
-------------	--------------------------	----------------

9 गोरखा राइफल

जे सी-8693	सूबेदार लछमी बहादुर भंडारी	20 अक्टूबर, 1968
जे सी-12896	सूबेदार राम बहादुर कार्की	23 नवम्बर, 1968
जे सी-14124	सूबेदार राज बहादुर खत्री	3 अक्टूबर, 1968
जे सी-14279	सूबेदार गगन बहादुर मल	16 अक्टूबर, 1968
जे सी-14445	सूबेदार सरबाजीत खाण्डका	27 अक्टूबर, 1968
जे सी-21437	सूबेदार कलकं दुर्गा सिंग पुन	1 जनवरी, 1969
जे सी-11024	सूबेदार जोग बहादुर भंडारी	15 नवम्बर, 1968

11 गोरखा राइफल्स

जे सी-11782	सूबेदार गौबहादुर राय	14 जनवरी, 1969
जे सी-11586	सूबेदार लाल बहादुर संवर	31 अगस्त, 1968
जे सी-10950	सूबेदार ईश्वरसिंग राय	16 अगस्त, 1968

सैनिक सेवा कोर (स्टाफ इयूटीप)

4271-जे सी	सूबेदार कलकं जी डी (एस डी) राम रखा शर्मा	25 जुलाई, 1968
------------	--	----------------

सैनिक सेवा कोर (सप्लाई)

जे सी-5984	सूबेदार कलकं (एस) लखवीर सिंह	2 दिसम्बर, 1968
जे सी-4691	सूबेदार कलकं (एस) सुरिन्दर सिंह	4 नवम्बर, 1968
जे सी-12328	सूबेदार कलकं (एस) हरनाम सिंह	14 दिसम्बर, 1968
जे सी-7000	सूबेदार कलकं (एस) प्यारा सिंह	31 अक्तूबर, 1968
जे सी-4689	सूबेदार कलकं (एस) त्रिलोक सिंह	25 नवम्बर, 1968
जे सी-11095	सूबेदार कलकं (एस) गुरमुख दास	12 सितम्बर, 1968
58326-जे सी	सूबेदार (फैट) अनील कुमार बैनर्जी	3 दिसम्बर, 1968
47364-जे सी	सूबेदार (फैट) हरीश चन्द्र सेहगल	19 नवम्बर, 1968
जे सी-14508	सूबेदार कलकं जी डी नाथ जी कौल करीहल्लु	11 जनवरी, 1969
जे सी-11999	सूबेदार कलकं जी डी निरमल सिंह	19 सितम्बर, 1968
जे सी-13134	सूबेदार कलकं जी डी वायु देवा	5 नवम्बर, 1968
जे सी-11200	सूबेदार कलकं जी डी कृष्ण लाल दासा	14 अक्तूबर, 1968
जे सी-11902	सूबेदार कलकं जी डी किशन चन्द	9 नवम्बर, 1968
जे सी-11900	सूबेदार कलकं जी डी सोहन सिंह	31 अक्तूबर, 1968
जे सी-14233	सूबेदार कलकं जी डी नाथ सहाय	2 जनवरी, 1969
जे सी-13142	सूबेदार कलकं जी डी पेशोरी लाल	27 नवम्बर, 1968
जे सी-14236	सूबेदार कलकं जी डी भीम सिंह	4 जनवरी, 1969
जे सी-9510	सूबेदार कलकं जी डी राम सरन बनवृत्ती	24 नवम्बर, 1968
जे सी-2786	सूबेदार कलकं (एस) राम मुर्ती	22 अक्तूबर, 1968
जे सी-14238	सूबेदार कलकं जी डी जगदीश राय	6 जनवरी, 1969
जे सी-13178	सूबेदार कलकं जी डी हिमत सिंह	23 दिसम्बर, 1968
जे सी-14203	सूबेदार कलकं जी डी गुरचरन सिंह	9 जनवरी, 1969
जे सी-14225	सूबेदार कलकं जी डी रूप लाल	23 दिसम्बर, 1968
जे सी-13132	सूबेदार कलकं जी डी गुलजारी लाल	12 अक्तूबर, 1968
जे सी-2928	सूबेदार कलकं जी डी परागनाथ कपूर	3 नवम्बर, 1968
जे सी-11899	सूबेदार कलकं जी डी भीम सिंह	26 अक्तूबर, 1968
जे सी-9181	सूबेदार कलकं जी डी लक्का कौल	21 नवम्बर, 1968
जे सी-14220	सूबेदार कलकं जी डी मंगल राम	20 दिसम्बर, 1968
जे सी-13130	सूबेदार कलकं जी डी दीना नाथ कांडा	19 नवम्बर, 1968
जे सी-11202	सूबेदार कलकं जी डी रघवीर चन्द्र	17 अक्तूबर, 1968
जे सी-11204	सूबेदार कलकं जी डी जोगीन्दर सिंह	28 अक्तूबर, 1968
जे सी-13498	सूबेदार कलकं जी डी राम सिंह जोहर	17 दिसम्बर, 1968

सैनिक सेवा कोर (मोटर परिवहन)

जे सी-11258	सूबेदार करन सिंह	17 दिसम्बर, 1968
जे सी-7339	सूबेदार श्रीकार प्रसाद	26 नवम्बर, 1968
जे सी-7336	सूबेदार बनारसी दास	17 दिसम्बर, 1968
जे सी-11255	सूबेदार राय सिंह	6 जनवरी, 1969

सैनिक सेवा कोर (पशु परिवहन)

जे सी-9839	रिसालदार प्रयाग सिंह	7 अक्तूबर, 1968
------------	----------------------	-----------------

सैनिक डाक्टरी कोर

जे सी-3233	सूबेदार कलकं (जी डी) शंकर केशव पेटकर	5 अप्रैल, 1968
जे सी-10166	सूबेदार कलकं (जी डी) करम सिंह	15 नवम्बर, 1968
जे सी-10641	सूबेदार ए ए लाल सिंह	8 जनवरी, 1969
जे सी-10067	सूबेदार कलकं (जी डी) शोरनधुर इथीराजू सेशाचलम	18 नवम्बर, 1968
जे सी-9270	सूबेदार एस एम टी लज्जर सनटैया गो	20 अक्तूबर, 1968
जे सी-13211	सूबेदार एस एम ी राम लाल	5 नवम्बर, 1968

ग्रामी आर्डनेन्स कोर

10993-जे सी	सूबेदार दल सिंह	29 दिसम्बर, 1968
जे सी-6926	सूबेदार मोहिन्दर सिंह रेखी	19 दिसम्बर, 1968
जे सी-61487	सूबेदार गोकल लाल	9 जनवरी, 1969
जे सी-54179	सूबेदार एस आर वेदया	8 जनवरी, 1969
61715-जे सी	सूबेदार होतू राम तनेजा	1 जनवरी, 1969

बिजली और मशीनी इंजीनियर कोर

जे सी-6246	सूबेदार कृपाल सिंह	6 सितम्बर, 1968
जे सी-7674	सूबेदार हजूर सिंह	19 सितम्बर, 1968
जे सी-6245	सूबेदार गुरमुख सिंह	26 अगस्त, 1968
जे सी-4412	सूबेदार के० एन० भरथन	30 दिसम्बर, 1968
जे सी-3734	सूबेदार जगजीत सिंह	27 नवम्बर, 1968
60041-जे सी	सूबेदार सरया प्रसाद तिवारी	28 अक्तूबर, 1968
60794-जे सी	सूबेदार लुशई सिंह	5 नवम्बर, 1968
60315-जे सी	सूबेदार गुरबचन सिंह	2 नवम्बर, 1968
जे सी-7986	सूबेदार बी० दवाधनम धरा प्रसाद	17 नवम्बर, 1968
जे सी-3894	सूबेदार बिधी सिंह	7 नवम्बर, 1968
जे सी-7458	सूबेदार हरबंस सिंह	9 नवम्बर, 1968
जे सी-3898	सूबेदार प्रेम चन्द जुलकां	22 अगस्त, 1968
जे सी-10027	सूबेदार ब्यासदेव शर्मा	29 अक्तूबर, 1968
जे सी-20352	सूबेदार दिवान चन्द	26 अक्तूबर, 1968

बिजली और मशीनी इंजीनियरों—जारी

जे सी-20555	सूबेदार राम सरन	16 अक्टूबर, 1968
जे सी-10464	सूबेदार नारायण दास	28 नवम्बर, 1968
जे सी-8935	सूबेदार कस्तूरी लाल	17 दिसम्बर, 1968
जे सी-6240	सूबेदार के० सनकुम्भी मेनन	31 दिसम्बर, 1968
जे सी-8292	सूबेदार महादेव सावंत	29 नवम्बर, 1968
जे सी-3455	सूबेदार त्रिलोक सिंह	15 अगस्त, 1968

सैनिक शिक्षा कोर

ज सी-3934	सूबेदार क्लर्क हाकिम सिंह	17 दिसम्बर, 1968
4302—जे सी	सूबेदार टक्कर बहादुर थापा	5 अगस्त, 1968
4328—जे सी	सूबेदार करतार सिंह	1 नवम्बर, 1968

फोर औफ मिलिट्री पुलिस

जे सी-10014	सूबेदार (एम पी) उपराव सिंह	29 नवम्बर, 1968
-------------	----------------------------	-----------------

इन्टेलेजेन्स कोर

जे सी-9234	सूबेदार रिसाल सिंह	4 दिसम्बर, 1968
------------	--------------------	-----------------

पायनियर कोर

50806—जे सी	सूबेदार (जी जी) शंकर दास	16 अक्टूबर, 1968
-------------	--------------------------	------------------

प्रशासनिक रिजालदार/सूबेदार क रैंक में**बंगाल इंजीनियर ग्रुप**

जे सी-19729	नायब सूबेदार भाग सिंह	18 नवम्बर, 1968
-------------	-----------------------	-----------------

मद्रास इंजीनियर ग्रुप

जे सी-28654	नायब सूबेदार नैना कानध	1 नवम्बर, 1968
जे सी-28668	नायब सूबेदार एन० बी० इल्लोजी र व	1 सितम्बर, 1968

सिगनल कोर

जे सी-30294	नायब सूबेदार कृष्ण लाल	18 जुलाई, 1968
जे सी-32109	नायब सूबेदार भगत राम	11 अक्टूबर, 1968
जे सी-29391	नायब सूबेदार हीरा बल्लभ	15 अगस्त, 1968

पंजाब रेजिमेंट

जे सी-21993	नायब सूबेदार क्लर्क बचितर सिंह	19 दिसम्बर, 1968
-------------	--------------------------------	------------------

1 गोरखा राइफल्स

जे सी-40954	नायब सूबेदार क्लर्क ईशर सिंह खत्री	8 अक्टूबर, 1968
-------------	------------------------------------	-----------------

4 गोरखा राइफल्स

जे सी-38318	नायब सूबेदार क्लर्क भगवान सिंह राना	27 सितम्बर, 1968
-------------	-------------------------------------	------------------

5 गोरखा राइफल्स

जे सी-29688 नायब सूबेदार चन्द्रबहादुर राना 22 मार्च, 1968

11 गोरखा राइफल्स

जे सी-34539 नायब सूबेदार तिलाविक्रम राय 1 नवम्बर, 1968

सैनिक सेवा कोर (स्टाफ ड्यूटीज़)

जे सी-18411 नायब सूबेदार क्लर्क जी डी (एस डी) राम चन्द 3 जनवरी, 1969

जे सी-28786 नायब सूबेदार क्लर्क जी डी (एस डी) दुर्लभ सिंह
सेठी 11 नवम्बर, 1968

जे सी-28769 नायब सूबेदार क्लर्क जी डी (एस डी) सरूप सिंह 30 दिसम्बर, 1968

सैनिक सेवा कोर (सप्लाई)

जे सी-17595 नायब सूबेदार क्लर्क (एच) इकबाल नाथ 31 अक्टूबर, 1968

जे सी-25094 नायब सूबेदार क्लर्क जी डी प्रशोत्तम लाल 24 दिसम्बर, 1968

जे सी-25093 नायब सूबेदार क्लर्क जी डी तारा चन्द 17 जनवरी, 1969

जे सी-20955 नायब सूबेदार क्लर्क जी डी अजीत सिंह 24 अगस्त, 1968

जे सी-20957 नायब सूबेदार क्लर्क जी डी ओम प्रकाश गुप्ता 11 जनवरी, 1969

जे सी-20956 नायब सूबेदार क्लर्क जी डी गजन सिंह 6 अक्टूबर, 1968

सैनिक डाक्टरी कोर

जे सी-24017 नायब सूबेदार एस एम टी राम तीर्थ 30 सितम्बर, 1968

जे सी-19798 नायब सूबेदार एस एम टी राज कुमार 2 दिसम्बर, 1968

सैनिक आर्मेन्स कोर

जे सी-15918 नायब सूबेदार नरपत सिंह 30 नवम्बर, 1968

विजली और मशीनी इंजीनियर कोर

जे सी-35433 नायब सूबेदार साधु राम 14 जुलाई, 1968

पायनियर कोर

जे सी-23795 नायब सूबेदार (जी डी) दामोदर नायर 23 नवम्बर, 1968

जे सी-23803 नायब सूबेदार (जी डी) फिना 1 नवम्बर, 1968

जे सी-32003 नायब सूबेदार (जी डी) एन एस डेनियल 23 नवम्बर, 1968

जे सी-32540 नायब सूबेदार (जी डी) रबी मिस्त्री 4 अगस्त, 1968

जे सी-23804 नायब सूबेदार (जी डी) अनन्त राम 10 नवम्बर, 1968

जे सी-20825 नायब सूबेदार (जी डी) रामा चन्दरन 12 दिसम्बर, 1968

सं० 3-तारीख 26 जनवरी, 1969 क भारत स्थित सना विनियमावली 1962 के पैरा 181 के अधीन राष्ट्रपति निम्नलिखित ओहदेदारों को उनके नाम के सामने दी गई तारीख से अवैतनिक रैंक प्रदान करते हैं :-

अवैतनिक नायब रिसालदार/सूबेदार के रैंक में

16 रिसाला

1004546	दफादार रामाचन्द्रन	1 जनवरी, 1969
1006943	दफादार गोविन्दा सामी	1 जनवरी, 1969

1 हीरस

1003277	दफादार बलबीर सिंह	16 अक्टूबर, 1968
---------	-------------------	------------------

9 दक्षिण हीरस

1006514	दफादार रोशन लाल	20 अक्टूबर, 1968
1009702	दफादार मोहर सिंह	1 जनवरी, 1969
1007948	दफादार किशन चन्द	29 जुलाई, 1968

14 हीरस

1004296	दफादार गुरबचन सिंह	26 जुलाई, 1968
---------	--------------------	----------------

4 हीरस

1005006	दफादार चैन सिंह	1 जनवरी, 1969
1007109	दफादार लेख राज	28 दिसम्बर, 1968

सैन्ट्रल इण्डिया हीरस

1000251	दफादार चैन्त राम	14 फरवरी, 1968
1004064	दफादार भोमकार सिंह	30 जुलाई, 1968

45 रिसाला

1006144	दफादार राम सिंह	1 अगस्त, 1968
---------	-----------------	---------------

तोपखाना रेजिमेन्ट

9317196	हवलदार जहांगीर सिंह	1 सितम्बर, 1968
9056277	हवलदार चूड़ सिंह	20 सितम्बर, 1968
1122480	हवलदार मोहम्मद पाचा	25 सितम्बर, 1968
1109883	हवलदार सनजीवी	26 सितम्बर, 1968
9050423	हवलदार बंता सिंह	5 अक्टूबर, 1968
2541155	हवलदार गोपाला पिल्ले	11 सितम्बर, 1968
2541064	हवलदार मुन्नायान असारो	10 अक्टूबर, 1968
1205474	हवलदार बिहारी लाल	23 सितम्बर, 1968
1101982	हवलदार बालम थथया	20 जुलाई, 1968
9065560	हवलदार प्रेम सिंह	17 जुलाई, 1968
1104731	हवलदार संकरन सिंह	18 अगस्त, 1968

9055639	हवलदार जसबन्त सिंह	6 जुलाई, 1968
1109266	हवलदार गोविन्दन	14 अक्टूबर, 1968
1104579	हवलदार के बालाकृष्णन	13 नवम्बर, 1968
2541335	हवलदार जी वासुदेवन नायर	24 अगस्त, 1968
1205502	हवलदार मुलतान सिंह	6 सितम्बर, 1968
1105375	हवलदार भारी वी चन्दरन	30 सितम्बर, 1968
2916998	हवलदार हाथी सिंह	13 सितम्बर, 1968
2531125	हवलदार सी ए जेनियल	27 जुलाई, 1968
1108242	हवलदार अम्पायू नैनार	8 जून, 1968
1104218	हवलदार कलक इन्द्र सिंह	13 सितम्बर, 1968
9050745	हवलदार कलक दरयाब सिंह	28 सितम्बर, 1968
1109972	हवलदार सेवा सिंह	30 सितम्बर, 1968
1124577	हवलदार अमर सिंह	18 सितम्बर, 1968
9056278	हवलदार हरी राम	24 जुलाई, 1968
1106454	हवलदार पी नारायणन नायर	8 दिसम्बर, 1968
1124424	हवलदार हजारा सिंह	10 अगस्त, 1968
1206488	हवलदार काली चरन	14 नवम्बर, 1968
1206694	हवलदार गनपत सिंह	29 सितम्बर, 1968
1202010	हवलदार सन्तोष सिंह	7 अगस्त, 1968
1109498	हवलदार गोरावलू	8 जुलाई, 1968
1128073	हवलदार संकरन	11 सितम्बर, 1968
1110019	हवलदार एन सी थिम्बीयाह	6 अक्टूबर, 1968
1206446	हवलदार राम सिंह	7 अगस्त, 1968
1122886	हवलदार के जी सिमन	15 अगस्त, 1968
1204180	हवलदार सरमुख सिंह	26 जुलाई, 1968
1205337	हवलदार अमरजीत सिंह	10 अक्टूबर, 1968
2916544	हवलदार बेम सिंह	10 नवम्बर, 1968

अन्नस 'जीनियर ग्रुप

1316847	हवलदार बी अम्दुल रहिमान	18 अगस्त, 1968
1317091	हवलदार मुरतूजा शरीफ	18 अगस्त, 1968
1317136	हवलदार गोविन्दासामी	24 जुलाई, 1968
1317329	हवलदार नारायणन	2 अगस्त, 1968
1317324	हवलदार एम भुनीसामी	12 अगस्त, 1968
1316781	हवलदार सुन्दरामर्ती	12 अक्टूबर, 1968
1316846	हवलदार लज्जार	16 अगस्त, 1968
1316579	हवलदार एलेक्जेंडर	20 जुलाई, 1968
1316511	हवलदार राजामनीकम	6 जून, 1968
1316956	हवलदार अभ्रामलाय	17 अगस्त, 1968
1316432	हवलदार एम सुन्दरा राजू	28 अगस्त, 1968
1316939	हवलदार कुप्पुसामी	24 जुलाई, 1968

1316686	हवलदार लक्ष्मणन	31 जुलाई, 1968
1304250	हवलदार सत नारायण	14 अगस्त, 1968
1317957	हवलदार के गोपाल	13 अगस्त, 1968
1304884	हवलदार सरदार सिंह	4 अगस्त, 1968
1317067	हवलदार बी मुनिस्वामी	31 जुलाई, 1968
1317345	हवलदार एम डी गौखान	22 जुलाई, 1968
1316472	हवलदार थंगा राजू	24 जून, 1968
1316714	हवलदार मुनीसामी	21 जून, 1968
1317073	हवलदार मुनीसामी	15 जून, 1968
1316359	हवलदार एम डी औज़ाम	24 सितम्बर, 1968
1317204	हवलदार विश्वानन्दन	14 सितम्बर, 1968

बंगाल इंजीनियर ग्रुप

1407401	हवलदार लछ्मन सिंह	23 दिसम्बर, 1968
1412979	हवलदार रामबरीकष सिंह	31 दिसम्बर, 1968
1413014	हवलदार भाग सिंह	3 जनवरी, 1969

बम्बई इंजीनियर ग्रुप

1505078	हवलदार निवृत्ती महादिक	1 अगस्त, 1968
1505340	हवलदार मास्ती सावंत	15 अगस्त, 1968
1509179	हवलदार निष्का सिंह	15 अगस्त, 1968
1551447	हवलदार भीम सिंह	15 अगस्त, 1968
1507542	हवलदार नामदेव चवण	15 अगस्त, 1968
1504580	हवलदार भारगी सावंत	15 अगस्त, 1968
1504827	हवलदार शंकर मोरे	6 अगस्त, 1968
1505138	हवलदार विठल राव काले	15 अगस्त, 1968
1505310	हवलदार सखाराम कदम	23 सितम्बर, 1968
1505139	हवलदार निर्मल सिंह	15 अगस्त, 1968
1505727	हवलदार दरबारा सिंह	15 अगस्त, 1968
1505756	हवलदार शंकर पवार	15 अगस्त, 1968
1507850	हवलदार भगव न पोल	15 अगस्त, 1968
1505941	हवलदार नलोक सिंह	15 अगस्त, 1968
1505261	हवलदार अनन्ता कामथे	15 अगस्त, 1968
1505520	हवलदार ठाकर सिंह	15 अगस्त, 1968
1505145	हवलदार प्रीतम सिंह	3 जनवरी, 1968
1505180	हवलदार बापू जगदाले	27 नवम्बर, 1967
1505970	हवलदार आत्मा राम मनी	28 दिसम्बर, 1967
1505927	हवलदार मेहर सिंह	24 जनवरी, 1968
1507811	हवलदार लक्ष्मण देशमुख	18 सितम्बर, 1968
1506467	हवलदार पनवुरन भोसले	27 सितम्बर, 1968

1506060	हवलदार हरी भोसले	30 सितम्बर, 1968
1504553	हवलदार बख्तावर सिंह	9 जनवरी, 1969
1506720	हवलदार शरीधर राने	30 अक्टूबर, 1968
1502092	हवलदार दलीप सिंह	6 अक्टूबर, 1968
1504460	हवलदार प्रताप सिंह	8 अगस्त, 1968
1551281	हवलदार ईशवर चन्द्रा चक्रावर्ती	12 मई, 1968
1504548	हवलदार चानन सिंह	30 सितम्बर, 1968

सिग्नल कोर

6250077	हवलदार मोटा सिंह	24 अक्टूबर, 1968
6274811	हवलदार धर्म सिंह	25 अगस्त, 1968
6247545	हवलदार गुरुमुख सिंह	14 जुलाई, 1968
6248561	हवलदार नारायणन	7 दिसम्बर, 1968
6248226	हवलदार धनी राम	13 नवम्बर, 1968
6248960	हवलदार दयाल सिंह	17 अप्रैल, 1968
6250683	हवलदार के राघवन	10 अक्टूबर, 1968
6253403	हवलदार पी नोलकिन्तन नायर	1 नवम्बर, 1968
6254767	हवलदार के जे जार्ज	29 सितम्बर, 1968
6249085	हवलदार बाबु सिंह	24 जून, 1968
6255255	हवलदार कर्नैल सिंह	15 जुलाई, 1968
6245675	हवलदार पी गोपालन नायर	2 नवम्बर, 1968
6253476	हवलदार के बी थोमस	7 सितम्बर, 1968
6248566	हवलदार पी रामा चन्द्रा मेनन	4 सितम्बर, 1968
6250721	हवलदार जागीर सिंह	3 नवम्बर, 1968
6246516	हवलदार जैसी राम	28 सितम्बर, 1968
6245666	हवलदार पी एम गोविन्दन नम्बियर	16 अगस्त, 1968
6244014	हवलदार के ऐ अप्पुल्ली नायर	7 नवम्बर, 1968
6238487	हवलदार महान सिंह	3 नवम्बर, 1968
6253547	हवलदार एम ऐ कृष्णन कुट्टी पानीकर	1 सितम्बर, 1968
6239887	हवलदार दाना पौल	23 सितम्बर, 1968
6247546	हवलदार अनथोनो	13 नवम्बर, 1968
6249536	हवलदार एम पोन्नुरंगम	24 नवम्बर, 1968
6248242	हवलदार थोमस	30 सितम्बर, 1968
6248023	हवलदार के एम राघवन नायर	31 अक्टूबर, 1968
6248308	हवलदार कृष्णा सामी	11 अगस्त, 1968
3934905	हवलदार जगदेव दत्त	8 दिसम्बर, 1968
6248669	हवलदार के कुट्टी रमन नायर	24 अगस्त, 1968
6243615	हवलदार बी के सनथा नायक	17 जून, 1968
6244520	हवलदार अनन्त राम	19 अक्टूबर, 1968
6251404	हवलदार आत्मा सिंह	25 अक्टूबर, 1968
6245832	हवलदार के कृष्णाकरन	30 अक्टूबर, 1968

6246835	हवलदार बिरंजी लाल	30 अक्टूबर, 1968
6244467	हवलदार यू देवासिखमनी	22 अगस्त, 1968
गारद ब्रिगेड		
2931746	हवलदार हर दत्त सिंह	16 अक्टूबर, 1968
5605511	हवलदार बलबहादुर पुन	24 नवम्बर, 1968
5229581	हवलदार शिव चरन गुखंग	1 जनवरी, 1969
5605456	हवलदार धर्म बहादुर गुखंग	4 नवम्बर, 1968
3531484	हवलदार खजाना	2 दिसम्बर, 1968
2430382	हवलदार नन्द सिंह	25 जुलाई, 1968
पेराशूट रेजिमेन्ट		
2730350	हवलदार बाबुराव साहिल	5 अगस्त, 1968
2730168	हवलदार सम्भाजी पतने	28 अप्रैल, 1968
2730111	हवलदार तुकाराम सकपाल	17 मार्च, 1968
पंजाब रेजिमेन्ट		
2510420	हवलदार प्यारा लाल	4 दिसम्बर, 1968
2509022	हवलदार कुक राम सिंह	24 नवम्बर, 1968
2508454	हवलदार बख्तावर सिंह	1 अक्टूबर, 1968
2508694	हवलदार कलवंत सिंह	21 अक्टूबर, 1968
मद्रास रेजिमेन्ट		
2540768	हवलदार संकरन नायर	24 अगस्त, 1968
2535064	हवलदार कुक गोविन्दन	8 जुलाई, 1968
ब्रेनेडियर्स		
13405577	हवलदार क्लर्क राम नाथ सेठी	30 जुलाई, 1968
1019949	हवलदार अखे सिंह	17 अक्टूबर, 1968
13406274	हवलदार बृजलाल सिंह	24 जुलाई, 1968
2630856	हवलदार हरी सिंह	24 मई, 1968
1019889	हवलदार भंवर सिंह	5 जुलाई, 1968
2634658	हवलदार लाल सिंह	1 जुलाई, 1968
मराठा लाईट इन्फेन्ट्री		
1109562	हवलदार कलकं अमरतराव पंसारी	15 अक्टूबर, 1968
2734952	हवलदार राम सिंह	21 अगस्त, 1968
2735802	हवलदार गुलाम रसूल	29 नवम्बर, 1968
राजपूताना राइफल		
2830990	हवलदार शेनो राज सिंह	17 अप्रैल, 1968
2831228	हवलदार फूल सिंह	5 अगस्त, 1968
2914347	हवलदार अमर सिंह	30 मई, 1968

2830975	हवलदार चन्दगी राम	4 अप्रैल, 1968
2914525	हवलदार दयाल सिंह	16 अक्टूबर, 1968
2831278	हवलदार गनपत राम	4 सितम्बर, 1968
2914360	हवलदार कृक केशर	8 अगस्त, 1968
2831239	हवलदार नन्दु सिंह	23 अगस्त, 1968
2831212	हवलदार मनकूल	29 जुलाई, 1968
राजपूत रेजिमेन्ट		
2915244	हवलदार किशन सिंह	11 अक्टूबर, 1968
2915264	हवलदार पदम सिंह	19 दिसम्बर, 1968
2915229	हवलदार दलेल सिंह	12 सितम्बर, 1968
जाट रेजिमेन्ट		
3131744	हवलदार लेखी राम	26 दिसम्बर, 1968
3132437	हवलदार करन सिंह	10 नवम्बर, 1968
सिख रेजिमेन्ट		
3830292	हवलदार गुरमेल सिंह	5 सितम्बर, 1968
3030573	हवलदार सरदार सिंह	29 जुलाई, 1968
3729222	हवलदार करतार सिंह	7 मार्च, 1968
3729410	हवलदार गुरचरन सिंह	5 अगस्त, 1968
3331115	हवलदार ब्रज सिंह	31 जुलाई, 1968
3333694	हवलदार कृक तेजा सिंह	13 अक्टूबर, 1968
3331246	हवलदार गुरमीत सिंह	2 अक्टूबर, 1968
3830316	हवलदार मान सिंह	25 अगस्त, 1968
3532297	हवलदार ईशर सिंह	17 जुलाई, 1968
3331187	हवलदार बखशीश सिंह	24 सितम्बर, 1968
सिख लाईट इन्फैन्ट्री		
4429665	हवलदार कलक गुरदेव सिंह	13 अक्टूबर, 1968
2509402	हवलदार बलवन्त सिंह	31 अक्टूबर, 1968
4429747	हवलदार प्यारा सिंह	16 दिसम्बर, 1968
बोगरा रेजिमेन्ट		
3929662	हवलदार जगत राम	9 नवम्बर, 1968
3934614	हवलदार दुर्गा दास	7 जून, 1968
3431717	हवलदार मरतारी राम	11 फरवरी, 1968
3831127	हवलदार गोविन्द राम	1 मार्च, 1968
3531692	हवलदार परस राम	20 सितम्बर, 1968
3431984	हवलदार रमाल सिंह	11 अप्रैल, 1968
3432223	हवलदार धर्म सिंह	18 जुलाई, 1968
3432350	हवलदार दुनी चन्द	13 जुलाई, 1968
3432243	हवलदार धर्म सिंह	20 जून 1968

गढ़वाल राइफल्स

4028866	हवलदार पदम सिंह नेगी	11 सितम्बर, 1968
4031251	हवलदार जानी सिंह पुनडीर	27 अगस्त, 1968
4029380	हवलदार जीत सिंह रावत	7 नवम्बर, 1968
4029375	हवलदार रघुवीर सिंह बिष्ट	5 नवम्बर, 1968

कुमाँउ रेजिमेन्ट

4138103	हवलदार क्लर्क शिव सिंह	19 अगस्त, 1968
4130511	हवलदार राम सिंह	1 सितम्बर, 1968
4228208	हवलदार क्लर्क नरेश चन्द्र सिंह	29 अप्रैल, 1968
4136999	हवलदार क्लर्क भोपाल सिंह	19 अप्रैल, 1968
4133537	हवलदार क्लर्क हरीश चन्द्र	16 दिसम्बर, 1968
2939969	हवलदार बचे सिंह	29 अक्तूबर, 1968
2939912	हवलदार चन्दन प्रसाद	1 जुलाई, 1968
4131728	हवलदार तेज सिंह	15 दिसम्बर, 1968
7545304	हवलदार इन्द्रादेव सिंह	19 अगस्त, 1968
4129717	हवलदार क्लर्क जगत सिंह	11 मई, 1968
4129619	हवलदार क्लर्क राय सिंह	29 अप्रैल, 1968
4128976	हवलदार क्लर्क उदे राम	29 फरवरी, 1968
2940307	हवलदार बलवन्त सिंह	19 अप्रैल, 1968

प्रासाम रेजिमेन्ट

4328538	हवलदार कपमाविया	28 अगस्त, 1968
4330063	हवलदार जयनारायण प्रधान	25 जून, 1968
4330067	हवलदार बोमेश्वर जूरी	22 नवम्बर, 1968

बिहार रेजिमेन्ट

4230706	हवलदार फिलिप टोपनो	3 नवम्बर, 1968
---------	--------------------	----------------

महार रेजिमेन्ट

3928888	हवलदार मेहेन्ना राम	1 सितम्बर, 1968
4233443	हवलदार क्लर्क दलीप सिंह	22 दिसम्बर, 1968
9020694	हवलदार करतार सिंह	16 दिसम्बर, 1968
4530186	हवलदार यशवंत कम्बले	5 अगस्त, 1968
4530062	हवलदार मास्ती लिंगापगोल	4 अक्तूबर, 1968
4529928	हवलदार चोखा थोरट	4 अक्तूबर, 1968
4132143	हवलदार खुशाल सिंह	6 अक्तूबर, 1968
4138539	हवलदार मनी राम	5 अगस्त, 1968

जम्मू और काश्मीर राइफल्स

13710631	हवलदार रोशन लाल	3 दिसम्बर, 1968
7992777	हवलदार कलकं पी पी अब्राहम	13 अगस्त, 1968
13713285	हवलदार बलबन्त सिंह	17 जून, 1968
13711683	हवलदार ब्राह्मन सिंह	31 मार्च, 1968
13713930	हवलदार वकील सिंह	19 जून, 1968
13714596	हवलदार (कुक) मगहर]	27 जनवरी, 1968
13714825	हवलदार योग राज]	26 अप्रैल, 1968

3 गोरखा राइफल्स

5029224	हवलदार दलबहादुर थापा	29 दिसम्बर, 1968
---------	----------------------	------------------

3 गोरखा राइफल्स

5230134	हवलदार कलकं गोविन्द सिंह थापा]	14 अक्तूबर, 1968
5220540	हवलदार टेक बहादुर पुन	24 नवम्बर, 1968
5229386	हवलदार सिम बहादुर गुर्गंग	30 अक्तूबर, 1968

4 गोरखा राइफल्स

5329519	हवलदार कलकं किशन सिंह गुर्गंग]	1 नवम्बर, 1968
5329838	हवलदार बल बहादुर गुर्गंग]	10 जनवरी, 1969

8 गोरखा राइफल्स

5128594	हवलदार गमरसिंह गुर्गंग]	30 मार्च, 1968
5128989	हवलदार बलबहादुर अले	29 अगस्त, 1968

11 गोरखा राइफल्स]

5629386	हवलदार चन्दरबहादुर राय	16 दिसम्बर, 1968
5629257	हवलदार बीरबहादुर राय]	15 दिसम्बर, 1968

सैनिक सेवा कोर (स्टाफ इयूटीज)

6629931	हवलदार कलकं जी डी (एस डी) गुरदयाल सिंह	10 नवम्बर, 1968
---------	--	-----------------

सैनिक सेवा कोर (सप्लाई)

7128386	हवलदार कलकं जी डी पी गोपालकृष्णन नायर	23 अक्तूबर, 1968
6628298	हवलदार कलकं जी डी मखन लाल दास	17 अक्तूबर, 1968
6351356	हवलदार कलकं (एस) वी एन नारायणन	12 सितम्बर, 1968

सैनिक सेवा कोर (मोटर परिवहन)

6555386	हवलदार एस नल्लाय्याह	1 सितम्बर, 1968
6557745	हवलदार एन केसवन नायर	31 अक्तूबर, 1968
6550715	हवलदार एस जोसेफ	23 सितम्बर, 1968
6549317	हवलदार रत सिंह	24 अगस्त, 1968
6554385	हवलदार प्रार मूनीयान्दी	6 नवम्बर, 1968
6549704	हवलदार सिया राम	18 अक्तूबर, 1968
6555036	हवलदार पी एस रेड्डी	24 अगस्त, 1968
6550729	हवलदार अन्नामलाई	13 सितम्बर, 1968
6557698	हवलदार प्रार रामनजल	24 अक्तूबर, 1968
6551964	हवलदार राम शन्द	25 अक्तूबर, 1968
6549616	हवलदार मुन्बियाह भुवलियर	25 नवम्बर, 1968
7971465	हवलदार हरी कृष्णन	8 दिसम्बर, 1968
6549665	हवलदार राम सकल	2 नवम्बर, 1968
6554217	हवलदार हाजी बी ऐमबीची	27 अक्तूबर, 1968
6549810	हवलदार पपू	28 नवम्बर, 1968
6550702	हवलदार मस्तान शरीफ	9 दिसम्बर, 1968
6563507	हवलदार छेमा नन्द	27 नवम्बर, 1968
6548741	हवलदार सियाल्लिमम	25 जुलाई, 1968
6555263	हवलदार वेलमुत्तैसत	27 अक्तूबर, 1968
6555308	हवलदार वेलू	29 अगस्त, 1968

सैनिक डाक्टरी कोर

6771905	हवलदार सी के (एच) कंबर सिंह	25 अगस्त, 1968
6785674	सी एच एम एन ए धनवन्त सिंह	27 अक्तूबर, 1968
6793639	हवलदार एन ए चिन्तामनी थपलियार	8 जनवरी, 1969
6793172	हवलदार कलक जी डी चन्द्र किशोर	1 अगस्त, 1968
6793205	हवलदार कलक जी डी शिव चरन लाल	16 मार्च, 1968
6792826	हवलदार कलक जी डी बालाचन्दर निलकांत पंडित	4 जुलाई, 1968
6795076	हवलदार एस टी ए गोबिन्द सिंह	6 अक्तूबर, 1968
6794895	हवलदार एन ए हरी दत्त	25 अगस्त, 1968
6793741	हवलदार प्रो प्रार ए ए बी मैथयू	19 जनवरी, 1969
6792780	हवलदार कलक जी डी जोशी	1 अप्रैल, 1968
6792637	हवलदार कलक एम एस जेल्लियाह	27 दिसम्बर, 1968
6795467	बी एच एम ए ए शिव राम	17 जुलाई, 1968
6548040	हवलदार ड्राईवर (एम टी) बीरबल	27 दिसम्बर, 1968
6771171	हवलदार एन ए रमन लाल	7 नवम्बर, 1968
6745870	हवलदार एन ए बी गोपी नाथन नायर	29 जुलाई, 1968
6737671	हवलदार एन ए जान दीन	26 अक्तूबर, 1968

6746983	हवलदार एस टी ए के चलोयाह	26 नवम्बर, 1968
6729611	हवलदार नलक जी डी जान पलू कूरी	17 जुलाई, 1968
6794189	सी एच एम एन ए सचिन्दर मोहन बैनरजी	13 अक्तूबर, 1968
6795066	सी एच एम एन ए डिटी राम	15 सितम्बर, 1968
6794713	हवलदार श्री आर ए नगेश बनगले	19 जुलाई, 1968
6792597	हवलदार कनक जी डी निलरतन मजूमदार	4 नवम्बर, 1968
6792978	हवलदार कनक जी डी दीना नाथ	4 नवम्बर, 1968

ग्रामीं आइनेन्स कोर

6847497	हवलदार बलदेवो सिंह	10 मई, 1968
6846427	हवलदार धर्म पाल	29 जुलाई, 1968
6846601	हवलदार अजीत कुमार दास	23 अगस्त, 1968

विजली और मशीनी इंजीनियर कोर

7014905	हवलदार फुम्मन सिंह	1 सितम्बर, 1968
7015857	हवलदार लक्ष्मन कवतारकर	3 मार्च, 1968
7014991	हवलदार स्टीफन कचप	5 सितम्बर, 1968
7028888	हवलदार डी करनीलियस	14 फरवरी, 1968
7020592	हवलदार प्रदीप राम	19 मई, 1968
7000432	हवलदार सालिग राम	23 नवम्बर, 1968
7017337	हवलदार छतू	19 मई, 1968
7032336	हवलदार पी जी दास	1 दिसम्बर, 1968
6987575	हवलदार धिनायक सामंत	12 दिसम्बर, 1968
6996026	हवलदार बी इराप्पा	26 जून, 1968
7005018	हवलदार कुन्जुन्नी नायर	20 नवम्बर, 1968
6985289	हवलदार जय राम	7 अक्तूबर, 1968
8543526	हवलदार के राजासेकरन	25 अगस्त, 1968
7014879	हवलदार हरी देव	18 अक्तूबर, 1968
7015957	हवलदार बतर सिंह	1 अगस्त, 1968
7038782	हवलदार अजायब सिंह	26 जुलाई, 1968
7015915	हवलदार अमीर चन्द	24 जुलाई, 1968
7024208	हवलदार जी संकरा राय	28 अगस्त, 1968
7015961	हवलदार बी सहायक अब्दुल रजाक	20 फरवरी, 1968
6994656	हवलदार टी एच स्टीफनसन	6 नवम्बर, 1968
7016535	हवलदार जार्ज हरिंगटन चन्द्रा	10 सितम्बर, 1968
7015569	हवलदार दिबागरा पानकर	22 सितम्बर, 1968
7000257	हवलदार टी बी गोविन्दन नायर	5 दिसम्बर, 1968
7006950	हवलदार चाबी लाल विश्वाकरभा	3 मार्च, 1968
6981488	हवलदार राम लक्ष्मन जगडाले	11 जुलाई, 1968
6997662	हवलदार ए गोपालन	28 नवम्बर, 1968

8508301	हवलदार चेत राम	21 अक्तूबर 1968
7037749	हवलदार धर्म सिंह	19 नवम्बर, 1968
8653041	हवलदार चन्द्र भूषण	27 अक्तूबर, 1968
7014799	हवलदार दरबारा सिंह	24 अक्तूबर, 1968
7003678	हवलदार डी ए दत्ता	6 अक्तूबर, 1968

कोर श्रीक मिलिट्री पुलिस

6555764	हवलदार (एम पी) पूर्ण सिंह	17 जुलाई, 1968
2630357	हवलदार (एम पी) रत सिंह	18 जुलाई, 1968
3532316	हवलदार (एम पी) दर्शन सिंह	4 नवम्बर, 1968

पशु और पशु चिकित्सा कोर

1018318	दफादार ड्रेसर प्यारा सिंह	12 जनवरी, 1969
---------	---------------------------	----------------

इंस्टीजन्स कोर

7428518	हवलदार भगत राम	13 अगस्त, 1968
7428876	हवलदार नन्द लाल	16 सितम्बर, 1968
7429019	हवलदार जोगेन्द्र सिंह नेगी	16 सितम्बर, 1968

सैनिक व्यायाम शिक्षण कोर

5028702	बी एच एम हरी मारु राना	26 दिसम्बर, 1968
---------	------------------------	------------------

पायनियर कोर

7993104	हवलदार (जी डी) मधू सामी	18 फरवरी 1968
7962386	हवलदार (जी डी) कृष्ण	16 अगस्त, 1968
7991217	हवलदार (जी डी) के के कृष्ण	16 अगस्त, 1968
7973152	हवलदार (जी डी) सुब्रामनियन	16 जून, 1968
7993312	हवलदार (जी डी) एम कनारन नायर	21 अगस्त, 1968
7993314	हवलदार (जी डी) के चाँगन	21 अगस्त, 1968
7959686	हवलदार (जी डी) के गोपालन	21 अगस्त, 1968
7993691	हवलदार (जी डी) सुख लाल	21 अगस्त, 1968
7992800	हवलदार (जी डी) बनवारी	18 अगस्त, 1968
7993021	हवलदार (जी डी) प्रेम नाथ	16 अगस्त, 1968
7993316	हवलदार (जी डी) पी के अच्युत	16 अगस्त, 1968

भर्ती संगठन

7637455	हवलदार कलक बल बहादुर गुरुंग	19 सितम्बर, 1968
---------	-----------------------------	------------------

(नौसेना विभाग)

नई दिल्ली, 26 जनवरी, 1969

सं 4—निम्नलिखित चीफ पेटी अफसरों को 26 जनवरी, 1969 से भारतीय नौसेना में आनरेरी कमीशन प्रदान किए जाते हैं:—

रिटायर लिस्ट पर आनरेरी सब-लेफ्टि० (स्पेशल ड्यूटीज) के पद पर

कान्तिमती नाथन	चीफ मेकैनिशियन सं० 12430
मुस्ताफा अम्मानुर बक्कर	चीफ मेकैनिशियन सं० 18394
टाइटस लोबो	चीफ आईनेन्स आर्टिफिसर सं० 6329
मकखन लाल सेन	चीफ इलेक्ट्रीशियन (पावर) सं० 18711
के० सी० बालाकृष्णन नायर	चीफ मेकैनिशियन सं० 14300
अन्तुल्ला	चीफ पेटी अफसर मेडिकल असिस्टेंट सं० 18944
शर्मा	चीफ इलेक्ट्रिकल आर्टिफिसर (पावर) सं० 19251
टी० के० गोपालन नाम्बियर	चीफ मेकैनिशियन सं० 9947
पाल अन्वन	चीफ इन्जन रूम आर्टिफिसर सं० 31838
कुरियन प्लम्तोतिल	चीफ पेटी अफसर मेडिकल असिस्टेंट सं० 13654

एस० पी० श्रीनिवासन, संयुक्त सचिव।

(एयर ब्रांच)

नई दिल्ली, 26 जनवरी, 1969

सं० 5.—निम्नलिखित आनरेरी फ्लाईंग अफसरों को संशोधित ए० एफ० आई० 20/1960 के अन्तर्गत 26 जनवरी, 1969 से आनरेरी फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट के रूप में पदोन्नत किया जाता है।

10516 एम० डब्ल्यू० ओ० (आनरेरी फ्लाईंग अफसर) गेबरील पैट्रिक, फिटर I

10113 एम० डब्ल्यू० ओ० (आनरेरी फ्लाईंग अफसर) श्रीपद विष्णु बसारकर, इलेक्ट

सं० 6.—निम्नलिखित एम० डब्ल्यू० ओ०/डब्ल्यू० ओ० को संशोधित ए० एफ० आई० 20/1960 के अन्तर्गत 26 जनवरी, 1969 से फ्लाईंग अफसर के रैंक में आनरेरी कमीशन प्रदान किया जाता है।

19216 डब्ल्यू० ओ० अमर नाथ, फिटर I

10284 एम० डब्ल्यू० ओ० जार्ज, सी० एम०, इन्विपमेन्ट असिस्टेंट

31154 एम० डब्ल्यू० ओ० राजगोपालन, टी० एन०, एंजुकेशन इन्स्ट्रक्टर

17034 एम० डब्ल्यू० ओ० दुबे, डी० पी० इन्स्ट्रुमेन्ट रिपेयरर I

11924 एम० डब्ल्यू० ओ० सेबास्तियन, पी० जे०, इलेक्ट I

सं० 7.—निम्नलिखित को सेवा-निवृत्त सूची पर 26 जनवरी, 1969 से फ्लाईंग अफसर का आन्तरिकी रैंक प्रदान किया जाता है।

11405	एम० डब्ल्यू० ओ०	पद्मनाभन, के० एम०	एफ०एम०टी०	(सेवा-निवृत्त)
22144	एम० डब्ल्यू० ओ०	सेगुप्त आर० एन०	क्लर्क जी० डी०	(सेवा-निवृत्त)
38804	एम० डब्ल्यू० ओ०	जेल, डी० बी०	एजुकेशन इन्स्ट्रक्टर	(सेवा-निवृत्त)
11692	एम० डब्ल्यू० ओ०	पद्मनाभ पिल्ले के०	क्लर्क जी० डी०	(सेवा-निवृत्त)
42562	एम० डब्ल्यू० ओ०	गंगुली, बी० पी०	एजुकेशन इन्स्ट्रक्टर	(सेवा-निवृत्त)
22943	एम० डब्ल्यू० ओ०	हाकिन्स, डी० डी०	क्लर्क जी० डी०	(सेवा-निवृत्त)
48157	एम० डब्ल्यू० ओ०	ओम्मेन, के० के०	क्लर्क जी० डी०	(सेवा-निवृत्त)
31420	एम० डब्ल्यू० ओ०	चांद, एन० के०	एजुकेशन इन्स्ट्रक्टर	(सेवा-निवृत्त)
10586	एम० डब्ल्यू० ओ०	बापत, पी० बी०	डब्ल्यू०ओ०एम० I	(सेवा-निवृत्त)
10324	एम० डब्ल्यू० ओ०	गुप्त, आर० सी०	ए० सी०एच०जी० डी०	(सेवा-निवृत्त)
40802	एम० डब्ल्यू० ओ०	डुरायस्वामी, जी० डी०	एजुकेशन इन्स्ट्रक्टर	(सेवा-निवृत्त)
11030	एम० डब्ल्यू० ओ०	विश्वनाथम, बी०	डब्ल्यू०ओ०एम० I	(सेवा-निवृत्त)
37581	एम० डब्ल्यू० ओ०	डेविड ई०	एजुकेशन इन्स्ट्रक्टर	(सेवा-निवृत्त)
13415	एम० डब्ल्यू० ओ०	भेला सिंह	एम०टी०डी०	(सेवा-निवृत्त)
40657	एम० डब्ल्यू० ओ०	सेबास्थियन, पी० जे०	एजुकेशन इन्स्ट्रक्टर	(सेवा-निवृत्त)
21045	एम० डब्ल्यू० ओ०	अम्बरोज, बी० एस०	क्लर्क जी० डी०	(सेवा-निवृत्त)
44112	एम० डब्ल्यू० ओ०	वर्धीज, टी० जी०	क्लर्क जी० डी०	(सेवा-निवृत्त)
39658	एम० डब्ल्यू० ओ०	काश्यप, आर० एन०	क्लर्क जी० डी०	(सेवा-निवृत्त)
29034	एम० डब्ल्यू० ओ०	मुनिस्वामी पिल्ले एम०	क्लर्क जी० डी०	(सेवा-निवृत्त)

एम० पी० करिअप्पा, संयुक्त सचिव।